

॥ श्रीः ॥

अनुपानदर्पणस्थविषयानुक्रमणिका ।



विषय	पृष्ठ.	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण प्रन्थारभ..	१	कितनेकरोगोंमें दुग्धानु	
चैद्यविवेक	२	पान	१९
आयुर्वेदविवेक ..	५	योगराज गुगुलु अनुशान	२२
शत्यतन्त्र ...	"	नारायणचूर्णानुपान ... "	
शालाक्यनाम	६	निरुडीअनुपान... ...	२३
कायचिकित्सा	"	सकलरोगोंमें हरीतकीके	
भूतविद्या ..	"	अनुपान	२४
कौमारभूत्य	"	गुट्टची अनुपान ...	२९
अगदतन्त्र ..	७	नेत्ररोगपर गुट्टचीस्वरसका	
रसायनतन्त्र	"	औषध	२६
चाजीकरणतन्त्र ..	"	नेत्ररोगमें पुनर्नवानुपान	२७
आयुर्वेदनिरुक्ति	"	त्रिफलानुपान	"
अथ मानविवेक	८	मृत्युजयादि रसधातूपधा-	
औषधमात्राका मान	९	तुओंका अनुपानविवेक	२९
नारीविवेक ..	१०	वसतकुसुमाकर रसको	
अनुपानविवेक	१२	अनुपान	"
अनुपानविशेषवर्णन ...	१४	लोकनाथ रसका अनुपान	३०
मदिरादि अनुपानवर्णन	१५	स्वर्णमालिनीवसत रसके	
वर्कर्कापा पृथक् पृथक्		अनुपान ...	३२
अनुपान वर्णन	"	बृहन्मालिनी वसतरसके	
अनुपान पिनेकी प्रशसा	१६	अनुपान	"
अनुपानविधिकी योग्या-		पाशुपत रसके अनुपान ..	३३
योग्यता ..	१८	पर्वतीरसके अनुपान ...	"

प्रस्तावना ।



शरीरके आरोग्य होनेको औषध सेवन करना चाहिये, सो बात आबाल दृष्टोंको मालूम है, परतु कौनसी दवाई किस अनुपानके साथ लेनी यह बात साधारण वैद्योंकोभी समझती होंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि, अमुक रोग हुआ होय तो अमुक औषध लेना, परतु वह औषध यथायोग्य अनुपानके साथ नहीं लिया जाय तो उससे यथोक्त गुण आता नहीं, इसवास्ते हमने श्रीमद्धार्धाच्चवद्धाभूषण श्रीचिलदेवसूनु श्रीज्ञात्सरामजी पडितवर्यजीसे सुश्रुतआदिक विविध आयुर्वेदीय प्रथोंके प्रमाणेंसहित यह “अनुपानदर्पण” नामक नवीन प्रथरचना कराय स्वकीय “श्रीवेंकटेश्वर” छापाखानामें छापकर प्रसिद्ध किया है ।

समस्त वैद्य और सर्व लोगोंको प्रार्थना कीजातीहै कि, महाशयो ! इस प्रथमें कहेहुयेके अनुसार उस उस रोगमें औषध सेवनमें अनुपानकी यथोक्त योजना करके औषधका सेवन करके रोगको नष्ट करो, और शरीरका आरोग्य पाकर इस शरीरके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, तथा मोक्ष इन पुरुषार्थोंका साधन करो, और उक्त पडितजीके परिश्रमोंको सफल करो, किमधिकम् ।

आपका कृपाकाक्षी—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेंकटेश्वर” छापाखाना—मुंबई.

॥ श्रीः ॥

अनुपानदर्पणस्थविषयानुक्रमणिका



विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
मङ्गलाचरण ग्रन्थारम्भ .	१	कितनेकरोगोमें दुग्धानु	
वैद्यविवेक	२	पान ..	१९
आयुर्वेदविवेक ..	५	योगराज गुग्गुलु अनुपान	२२
शत्यतन्त्र ...	"	नारायणचूर्णानुपान ...	"
शालाक्यनाम	६	निर्णुडीअनुपान... ...	२३
कायचिकित्सा...	"	सकलरोगोंमें हरीतर्कीके	
भूतविद्या ..	"	अनुपान	२४
कौमारभूत्य	"	गुटूची अनुपान ...	२५
अगदतन्त्र .	७	नेत्ररोगपर गुटूचीस्वरसका	
रसायनतन्त्र	"	औषध ..	२६
चार्जीकरणतन्त्र .	"	नेत्ररोगमें पुनर्नवानुपान	२७
आयुर्वेदनिरक्ति ...	"	त्रिफलानुपान	"
अथ मानविवेक	८	मृत्युजयादि रसधातूपधा-	
औषधमात्राया मान	९	तुओंका अनुपानाविवेक	२९
नार्यविवेक	१०	वसतकुमुमाकर रसको	
अनुपानविवेक	१२	अनुपान ..	"
अनुपानविशेषपर्णन ...	१४	लोकनाध रसका अनुपान	३०
मदिरादि अनुपानवर्णन	१५	स्वर्णमालिनीवसत रसके	
यांवर्गीया पृथक् पृथक्		अनुपान	३२
अनुपान वर्णन	"	बृहन्मालिनी वसतरसके	
अनुपान एनेकी प्रशस्ता	१७	अनुपान ..	"
अनुपानविधिकी पोग्या-		पानुपत रसके अनुपान ..	३३
योग्यता ..	१८	पर्षटीरसके अनुपान ...	"

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
जयाजयती इन्होंका अनु- पान	३४	नीलवैक्रातमस्मके अनुपान	९६
सुवर्णभस्मके अनुपान	३६	प्रवालभस्मके अनुपान	„
रौप्यभस्मानुपान °	३७	रोगविशेषमें अनुग्रानविशेष ९७	
ताम्रभस्मानुपान	३९	विषके पृथक् पृथक् अनुपान ९८	
बङ्गभस्मानुपान .. .	"	योगराज गुग्गुलविधि ..	६४
जसदभस्मके अनुपान ...	४१	नारायगचूर्गविधि ..	६६
नागभस्मानुपान	४२	मृत्युजयरसनिर्माणविधि ...	६७
लोहभस्मानुपान	४३	वसतकुमुमाकरसनि- र्माणविधि	६९
स्वर्णमाल्किक अनुपान	४४	लोकनाथरसनिर्माणविधि	„
रौप्यमाल्किक अनुपान ...	"	स्वर्णमालिनीवस्तरस- निर्माणविधि	७३
तुत्य भस्मके अनुपान ...	४९	वृहन्मालिनीवस्तरस- निर्माणविधि	„
शिलाजतुके अनुपान ... ,		पाशुपतरसनिर्माणविधि ...	७४
पारदभस्मके अनुपान ...	४६	पर्षटीरसनिर्माणविधि	७५
रसोसदूरके अनुपान ...	४८	जयावटीनिर्माणविधि	७७
रसकर्पूरके अनुपान	"	जयतविटीनिर्माणविधि	„
गधकके अनुपान	४९	धातूपवातुरसोपरसरल्नोप- रलनियोपविधियोंका	
हिंगुलके अनुपान ...	५०	शोधनमारणविवेक ...	७८
अधकके अनुपान ...	"	सप्तवातुनामानि .	„
हरितालके अनुपान	५२	सप्तउपवातुनामानि ...	„
मनशिलके अनुपान ...	५३	रस वर्णन .. .	७९
सीत्रीरके अनुपान	५४	उपरसनामानि	„
रार्पके अनुग्रान . . .	"		
हीरकभम्मके अनुपान	५५		
भैत्रातभस्मके अनुपान	"		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
नवरत्ननामानि ७९	हसमदूरविधि	.. ९९
उपरत्ननामानि "	रसमारण	९६
विषभेद .	. "	रससिंदूरविधि .	. ९७
उपत्रिष्पकथन "	रसकर्पूरविधि ...	"
सप्तधातुशोधन	... ८१	हिंगुलमारण	९८
उपधातुशोधन ...	"	अस्फकमारण	९९
रससत्कार	८३	अन्यप्रकारसे अस्फकमारण	"
रसशोधन ८४	हारितालमारण	"
टपरसशोधन ८५	वज्रमारण	१००
रत्नशोधन ...	८८	प्रवालमारण ...	१०१
विषशोधन "	पक्ष सुवर्णभस्मका गुण	"
उपविषशोधन	"	अपक्ष स्वर्णभस्मका दोष	"
जैपालशोधन	... "	पक्ष रूपेके भस्मका गुण	१०२
स्वर्णका मारणविधि	... ८९	अपक्षरूपेके भस्मका दोष	"
रौप्यमारणविधि	... ९०	पक्ष तास्रभस्मके गुण	"
तास्रमारणविधि	. "	अपक्ष तास्रभस्मके दोष ...	"
वगमारणविधि ९२	पक्षवगभस्मके गुण .	१०३
जसदमारणविधि	. ९३	अपक्ष वगभस्मके दोष .	"
नागमारणविधि	. "	पक्ष जसदभस्मके गुण .	"
लोहमारणविधि	... "	अपक्ष जसदभस्मके दोष...	"
स्वर्णमाध्यिकमारणविधि	९४	पक्षनागभस्मके गुण ...	"
रौप्यमाध्यिकमारणविधि ...	"	अपक्षनागभस्मके दोष ..	१०४
तृथमारणविधि "	पक्षलोहभस्मके गुण	"
सिदूरमारणनिषेध	... "	अपक्षलोहभस्मके दोष ...	१०९
शिलाजतुमारणविधि	... "	पक्षसुवर्णमाध्यिक भस्मके गुण	"
मद्रविधि ९५	अपक्षस्वर्णमाध्यिक भस्मके दोष "	

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
जयाजयती इन्होंका अनु- पान	३४	नीलैवैक्रातभस्मके अनुपान	९६
सुवर्णभस्मके अनुपान	३६	प्रवालभस्मके अनुपान	„
रौप्यभस्मानुपान °	३७	रोगविशेषमें अनुग्रन्थविशेष	९७
ताम्रभस्मानुपान	३९	विषके पृथक् पृथक् अनुपान	९८
वज्ञभस्मानुपान .. .	”	योगराज गुगुलविधि	६४
जसदभस्मके अनुपान ...	४१	नारायगचूर्णविधि ...	६६
नागभस्मानुपान	४२	मृत्युजयरसनिर्माणविधि ...	६७
लोहभस्मानुपान	४३	वस्तकुमुमकरसनि- र्माणविधि	६९
स्वर्णमाक्षिक अनुपान	४४	लोकनाथरसनिर्माणविधि	”
रौप्यमाक्षिक अनुपान ...	”	स्वर्णमालिनीवस्तररस- निर्माणविधि	७३
तुल्य भस्मके अनुपान ...	४५	वृहन्भालिनीवस्तररस- निर्माणविधि ...	”
गिलाजतुके अनुपान ... ,		पाशुपतरसनिर्माणविधि ...	७४
पारदभस्मके अनुपान ...	४६	पर्षटीरसनिर्माणविधि	७९
रसासदूरके अनुपान ...	४८	जयवटीनिर्माणविधि ...	७७
रसकर्पूरके अनुपान	”	जयनवटीनिर्माणविधि	”
गधकके अनुपान	४९	धातूपदातुरसोपरसखनोप- रत्नविषोपविषोंका	
हिंगुलके अनुपान ...	५०	शोधनमारणविवेक ...	७८
अध्रकके अनुपान ...	”	सतधातुनामानि ..	”
हरितालके अनुपान .. .	९२	सतउपधातुनामानि ...	”
मनशिलके अनुपान ...	९३	रस वर्णन ..	७९
नीबीरके अनुपान	९४	उपरसनामानि ...	”
रार्पके अनुपान ...	”		
हीरकभस्मके अनुपान	९५		
वेक्रातभस्मके अनुपान ..	”		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ
नवरत्ननामानि ७९	हसमदूरविधि ..	९९
उपरत्ननामानि , "	रसमारण .	९६
विषभेद .	, "	रससिंदूरविधि ..	९७
उपविषकथन , "	रसकर्दूरविधि	"
सत्तधातुशोधन .	. <१	हिंगुलमारण	९८
उपधातुशोधन ...	"	अधकमारण	९९
रससस्त्कार <३	अन्यप्रकारसे अधकमारण	"
रसशोधन <४	हरितालमारण	"
उपरसशोधन <५	बज्रमारण . ..	१००
रत्नशोधन	<<	प्रवालमारण .	१०१
विषशोधन "	पक सुवर्णभस्मका गुण	"
उपविषशोधन .	. "	अपक स्वर्णभस्मका दोष	"
जैपालशोधन "	पक खेके भस्मका गुण	१०२
स्वर्णका मारणविधि	... <९	अपकखेके भस्मका दोष	"
रौप्यमारणविधि	... ९०	पक ताम्रभस्मके गुण	"
ताम्रमारणविधि	. "	अपक ताम्रभस्मके दोष ..	"
वगमारणविधि ९२	पकवगभस्मके गुण .	१०३
जसदमारणविधि	. ९३	अपक वगभस्मके दोष .	"
नागमारणविधि	.. "	पक जसदभस्मके गुण ...	"
लोहमारणविधि	... "	अपक जसदभस्मके दोष...	"
स्वर्णमाक्षिकमारणविधि .	९४	पवल्लागभस्मके गुण ...	"
रौप्यमाक्षिकमारणविधि	... "	अपक्लानागभस्मके दोष	१०४
तुथमारणविधि "	पकलोहभस्मके गुण	"
सिंदूरमारणनिपेद	... "	अपकलोहभस्मके दोष ...	१०५
शिलाजतुमारणविधि	... , "	पवलुवर्णमाक्षिक भस्मके गुण	"
मदूरविधि ९९	अपवलुवर्णमाक्षिक भस्मके दोष	"

विषय	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
पक रोप्यमाक्षिक भस्म- के गुण	१०५	शुद्धसीवीरके गुण ११०
अपकरौप्यमाक्षिक भस्मके दोष	१०६	अशुद्ध सीवीरके दोष	... ,
पक तथा अपक तुत्थभस्मके गुण तथा दोष	"	शुद्ध खर्परके गुण	... १११
शुद्ध शिलाजितके गुण ...	"	अशुद्धखर्परके दोष	,
अशुद्ध शिलाजितके दोष	"	पक वज्रभस्मके गुण ...	,"
कप पारदभस्मके गुण ...	१०७	अशुद्ध अपक वज्रभस्मके दोष	... ११२
अशुद्ध अपक पारदभ- स्मके दोष	"	पक वैक्रातभस्मके गुण ..	,"
शुद्ध रससिंदूरके गुण ...	"	अशुद्ध अपक वैक्रातमस्मके दोष ,
अशुद्ध रससिंदूरके दोष	१०८	शुद्ध प्रवालभस्मके गुण	,"
शुद्ध रसकर्पूरके गुण .	"	अशुद्ध प्रवालके दोष	,,
अशुद्ध रसकर्पूरके दोष ..	"	विषके गुणागुण...	११३
शुद्ध गधकके गुण	"	अथ धात्वादिदोषशाति-	
अशुद्ध गधकके दोष	"	विवेक ..	११४
शुद्धहिंगुलके गुण .	"	अपक स्वर्ण दोषशाति ...	,,
अशुद्धहिंगुलके दोष	"	अपक रोप्यदोषशाति	,,
पक अधक भस्मके गुण	१०९	अपक वज्रदोषशाति	,,
अपक अधक भस्मके दोष	"	अपक ताम्रदोषशाति	,,
पक हरितालभस्मके गुण	११०	अपक जसददोषशाति ...	,,
अपक हरितालभस्मके दोष	"	अपक नागदोषशाति ..	,,
शुद्ध मनशिल भस्मके गुण ...	"	अपक लोहदोषशाति ...	,,
अशुद्ध मनशिलभस्मके दोष	११०	अपकलोहजन्यकठिशाति,	,,
		अपक स्वर्णमाक्षिकदोष- शाति ११९	

विषय.	पृष्ठ	विषय.	पृष्ठ.
अपक्त रौप्यमाक्षिकदोष-		अशुद्धमनशिलादोष-	
शाति ११६		शाति ११७	
अपक्तुत्थदोषशाति ... ,		अशुद्धसौवीरदोषशाति ... ,	
अशुद्ध शिलाजितदोषशाति ,		अशुद्ध खर्परदोषशाति . ११८	
अशुद्ध तथा अपक्तपारेकी दोषशाति,,		अशुद्ध अपक्त वज्रभस्म-	
अशुद्ध रससिंदूरके दोष-		दोषशाति ११९	
शाति . . , "		अशुद्ध अपक्त वैक्रात भस्म-	
अशुद्ध रस कर्पुरदोष-		दोषशाति ... "	
शाति ११७		अशुद्ध प्रवाल दोषशाति "	
अशुद्ध गधकदोषशाति . ,		अशुद्ध विषदोषशाति... "	
अशुद्ध हिंगुलदोषशाति . ,		जैपाल दोषशाति .. "	
अपक्त अधकदोषशाति . ,		ग्रथसमासि १२०	
अपक्त हरितालभस्म-		ग्रथकर्त्ताका जन्मसवत्स-	
शाति , "		रादिवर्णन ,	

इत्यनुक्रमणिका ॥

जाहिरात.

नाम.		की	रु	आ.ट.म.रु.आ.
१ अपरोक्षानुभूतिसस्कृतटीका भाषाटीका सहित	...	०-१०	०-१	
२ आत्मबोध भाषाटीका ०-४		०-॥	
३ तत्वबोध भाषाटीका ०-२॥		०-॥	
४ वेदात्मग्रथपचकम् (वाक्यप्रदीप वाक्यसुधारसः हस्तामलक.निर्वाणपचक मनीपापचके) स०		०-८	०-१	
५ वेदस्तुति भाषाटीका सह ०-८		०-१	
६ रामगीता मूल ०-२		०-॥	
७ श्रीमद्भगवद्गीतापचरत्नअक्षरमेटागुटकोरेशमी १-४		०-४	
८ " पचरत्न अक्षरवडा खुलापत्रा छोटीसच्ची १-८		०-३	
९ " पचरत्न अक्षरवडा लवासिच्ची खुला		१-०	०-३	
१० गीता श्रीधरीटीकासहित १-४		०-३	
११ गीता बडे अक्षरकी १६ पेजी गुटका ..	. १-०		०-२	
१२ गीता बडे अक्षरकी खुली १२ पेजी ०-१२		०-२	
१३ गीता गुटका विष्णुसहस्रनाम सहित ०-८		०-१	
१४ गीता पचरत्न और एकादशरत्न ०-१२		०-२	
१५ " पचरत्न द्वादशरत्न ०-१०		०-१॥	
१६ गीतापचरत्न नवरत्न पाकिट बुक ०-७		०-१	
१७ गीता गुटका पाकिट बुक		०-६	०-॥	
१८ पाण्डवगीता भाषाटीका सह		०-३	०-॥	
१९ पाडवगीतादि ४ रत्न अक्षर वडा ०-३		०-॥	

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“ श्रीवेङ्कटेश्वर ” छापाखाना (मुंबई)

॥ श्रीः ॥

अथानुपानदर्पणनामायंग्रन्थः ।

—०५३०—

प्रणस्य श्रीगणेश्वरं हरिं हरं दिवाकरं शिवा
गुरुश्च लक्ष्मणाग्रजाहृयं भिषग्वरम् ॥ गुणाकरं
सुधाकरं गतस्पृहं दयाधरं करोम्यहं सतां मुदेऽ
नुपानदर्पणं परम् ॥ १ ॥

प्रारब्धप्रथम निर्विन्नेन परिसमाप्त्यर्थं सपञ्चामरगुरुलमस्कारात्मकं मङ्गलमात-
नोति पञ्चामरवृत्तेन ग्रन्थकर्ता कवि.—अह (ज्ञारसराम) त्रा ‘अववोधने’--
क्या० प०—जानातीति त्रा बुद्धिः—रस आस्वादने—चुराद्यदन्तश्चास्माद्वातो—
“अकर्तरिं च कारकं सज्जायाम् ३—३—१९ ।” सूत्रेणानेन घञ्—रस्यते इति
रस स्वादो हर्पो वा ‘रसो गवरसे स्वादे’ इति विश्व.—‘रसस्वादे जले वीर्ये’—
इति हेम—‘रसो जल रसो हर्पे’—इत्यनकार्यव्यनि—रसु क्रीडायामस्माद्वातो—
“व्यलतिकमन्तेभ्यो ण ३—१—१४०” सूत्रेणानेन ण—रसते इति राम—
त्रा बुद्धिमत्स्या रसोऽववोवात्मकस्वादो हर्पो वा तस्मिन् रसते इति (ज्ञारसराम)
अनुपानदर्पण (अनुपानग्रथाना मध्ये दर्पणमादर्शसमम्) परम् (उत्तम ग्रन्थ)
करामि—कि वृत्त्वा—श्रीगणेश्वर (श्रिया ओमया युक्ताना गणाना प्रमथानामी-
श्वरस्त गणाविषयम्) हरि—(विष्णु) हरिविष्णुर्हरिमरुदित्यनेकार्थव्यनि । हर
(महादेव हरस्मरहरो भर्ग इत्यमर) दिवाकर—(सूर्य सूरमृर्द्यर्थमादित्यद्वाद-
शामदिवाकरा इत्यमर) शिवा (दुर्गा—) च (पुनः) गुरु (गृणाति हिन-
मुषीदिशातीति गुरुनमायुर्वेदोपदेष्टारमित्यर्थ) प्रणम्य (नमस्तृत्य) कीदृश
गुरु—रक्षणाग्रजाट्य (रक्षणाग्रजां रघुनाथ जाहयो यम्य स त रघुनाथ-
शर्माण रामिनमि यर्थ) ।

पुन.कीदृशा—भिषग्वर (वैद्यश्रेष्ठ भिषग्वेदोन्निकित्सके—इत्यमरः) पुन—
कीदृशा—गुणोकर (गुणानामाकरस्त सद्गुणसम्पन्नमित्यर्थ) पुन.कीदृश—
सुधाकर (सुधा—अमृत करे यस्य स तपीयूपपाणिंसिद्धहस्तमित्यर्थः । पीयूपममृत—
सुधा—इत्यमर) पुन.कीदृश—गतस्पृह (गता स्पृहा दीनेभ्यो धनप्राप्तिवाचा
यस्यस. त सतुष्टमनसमित्यर्थः) पुन.कीदृश—दयाघर (धरतीतिवर—दयायाधरो
दयाघरस्त कृपालु दुःखिनेष्वनुकम्पाशीलम् (कृपादयानुकम्पास्यादित्यमर.)
कस्मै प्रयोजनाय—सता (विदुपासाधूनावा—सत्येसाधीविद्यमानेप्रशस्तेऽन्यर्हिते
चसदित्यमरः—सत्साधौधीरशस्तयोरिति मेदिनी) अनेन खलाना हर्षीभाव
सूचितः । मुदे (हर्षीय—मुत्तीति प्रमदोहर्ष प्रमोदामोदसम्मदाइत्यमरः)
भवति चात्र—नंदनिति भोजनैर्विप्रा मयूरा धनगर्जनैः । साधव.प्रकल्पाणै खला
परविपत्तिभिः । परोत्कर्पाऽसहनत्वमेवासावुधर्मत्वमिति भावः ॥ १ ॥

भापानुवाद—इस ग्रथकी निर्विघ्नसे समाप्तिकोलिये ग्रथकर्ताकवि पचचाम
रछदसे—गणेशादि पञ्चदेवतोंसहित अपने गुरुको नमस्कार रूप मङ्गल करता है
ब्रुद्धिके विचाररूपी हर्षमे जो रमण करे उसे ज्ञारसराम कहते हैं सो मे—गणेश—
विष्णु—महेश—सूर्य—देवी—और वैद्योमे श्रेष्ठ—सद्गुणसपन्न—अमृतके समान
जिनका हाथ—लोभरहित—दयासहित जो पडित श्री १०९ रवुनाथशास्मी
स्वामीजी दोसोदनिवासी जिन्होंने मुझे आयुर्वेद (वैद्यविद्या) पढाई उन
गुरुजीको नमन करके सज्जनके आनदार्य अति उत्तम अनुपानदर्पणनामव
ग्रन्थको बनाता है ॥ १ ॥

अथातो वैद्यविवेकं व्याख्यास्यामः ॥ २ ॥

शास्त्रं गुरुमुखोद्दीर्णमादायोपास्य चासकृत् ॥
यःक-र्म्म कुरुते वैद्यस्सैव्योऽन्ये तु तस्कराः ॥३॥

२ सत्यशीचदयाक्षातिस्त्यागस्तोप आर्जवम् ॥ शमोदमस्तपस्साभ्यतितिक्षोपरति
त्रुतम् ॥ जानविरचिरेद्वय्यशौर्येतेजोवलस्मृतिः ॥ स्वातंत्र्यकीश्वल कातिर्द्वय्यमार्दव
भेनचेत्यादयोगुणाः ।

सुश्रुतसंहितायां सूक्तस्थाने अ० ४ । एकं शास्त्रसधी
यानो न विद्याच्छास्त्रनिश्चयम् ॥ तस्माद्वहुश्रुतः
शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ॥ ४ ॥ सुश्रू०
सू० अ० ४ । अधिगतसप्त्यध्ययनसप्तभाषितम-
र्थतः । खरस्य चन्दनभार इव केवलं परिश्रम-
कर्त भवति ॥ यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य
बेत्ता न तु चन्दनस्य ॥ एवं हि शास्त्राणि बहू-
न्यधीत्य चार्थेषु मूढाः खरवद्वहन्ति ॥ ५ ॥ सुश्रू०
अ० ४ । भवन्ति चात्र-यस्तु केवलशास्त्रज्ञः
कर्मस्वपरिनिष्ठितः ॥ स सुद्धत्यातुरं प्राप्य
प्राप्य भीरुरिवाहवम् ॥ ६ ॥ यस्तु कर्मसु
निष्ठातो धापूर्यच्छास्त्रवहिष्कृतः ॥ स सत्सु
पूजा नास्त्रोति वधश्चार्हति राजतः ॥ ७ ॥ सुश्रू०
सू० अ० ३ ॥

भापानुवाद- यज्ञ वैद्यक विवक (विचार) को वर्णन करेगे ॥ २ ॥ जो गुरु-
मुखद्वारा ग्रावद्रहण करके वारवार विचार, क्रियामें निपुण होकर चिकित्सा
(ल्यायिशमनोपाय) करतांह वही वैद्य है औग जो गुरुसे सर्वों ग्रन्थको
प्रिनपहे ही वेद वनजाये वैवैद्य नहीं किन्तु वे चोर हैं ऐसा वन्दंतरिज्जिने मुश्रुतसे
फहारै ॥ ८ ॥ गुरुक मुखद्वारार्भी एकही शास्त्र पटनेवाला शास्त्रके सारको
नहीं जानसक्ता इन लिंय वैद्यकों उचितहै कि नव शास्त्रोंके विषयको पट सुन
पाँर विचारकर जवरस्य जानलेवे ॥ ९ ॥ जो पुरप सब शास्त्रकोर्भी पटले और
उसे वर्ध अनर्धका ज्ञान न हो तो वह कवल शास्त्रोंका भार उठानेवाला है उसे

शास्त्री सद्वैद्य कहनायोग्य नहीं, जैसे गधेपर चटन लादनेसे वह केवल चदनं भार (बोझ) को जानताहै परन्तु उसकी सुगन्धको नहीं जानता,इसलिये वैद्यक शास्त्र पढनेवालेको व्याकरण (पाणिनीयसूत्रो) का बोध अवश्य चाहिये जिससे अर्थान्तर्थको जानलेवे ॥ ९ ॥ भाषानुवाद—जो केवल वैद्यशास्त्रको जानताहै औ कर्म (अनुपानादिक्रिया) में निपुण न हो वह वैद्य रोगीको प्राप्तहोकर मोहित (घबडाय) जाताहै जैसे कायर रण (सप्राम) पाकर घबरा जाताहै तैसे ॥ ६ ॥ और जो क्रियाको जानताहै परन्तु शास्त्रके बोधसे रहित हो वह वैद्य सज्जनोमें आदर नहीं पाता और राजाको उचितहै कि उस अनपद वैद्यको अपनेराज्यसे बाहर करदे—वा मरवाडाले नहीं तो वह बहुतसी प्रजाको नष्टकरदेगा ॥ ७ ॥

उभावेतावनिपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि ॥ अर्छ
वैदधरावेतावेकपक्षाविव द्विजौ ॥ ८ ॥ औप-
ध्योऽमृतकल्पास्तु शस्त्राशनिविषोपमाः ॥
भवन्त्यज्ञैरुपहृतास्तस्मादेतौ विवर्जयेत् ॥ ९ ॥
यस्तूभयज्ञोमतिमान्ससमर्थौऽर्थसाधने ॥ आहवे
कर्मनिर्वोहुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ १० ॥
मुश्रु० सू० अ० ३-४ ॥

भाषानुवाद—उक्त दोनों प्रकारके वैद्य अशिक्षित होनेसे चिकित्सा करनें असमर्थ होतेहैं, जैसे एकपखवाले पक्षी उडनेको असमर्थ होतेहैं तेसे अथवा जैसे इन दोनोंमें अर्थात् क्रिया और शास्त्रमें अशिक्षित हैं वे पक्षोंराहितं पक्षीके समान दु खित और असमर्थ होतेहैं ॥ ८ ॥ जो ओपाधि अमृतके समानहैं वे उनअशिक्षित (विनपदेहुवे मूर्ख) वैद्योंके हाथसे-शास्त्र वज्र और विपक्षे समान होजानी इसलिये सत्रको उचित है कि मूर्ख वैद्योंसे औपव कदापि न लेवे ॥ ९ ॥ जैसे बुद्धिमान शास्त्र और क्रियामें निपुणहै वही प्रयोजन सिद्धकरताहै अर्थात् उसीरे रोग निवृत्त होताहै जैसे युद्धमें दोपहियेके रथसे कार्यसिद्ध होताहै तैसे

इसलिये अष्टाग आयुर्वेदको पढ़ेहुए और क्रियामे निष्पुण ऐसे वैद्यसे ही सबने औपध सेवन करना चाहिये, ये सब सुश्रुतके सूत्रस्थानके ३ रे तथा ४ थे अध्यायमें लिखा है ॥ १० ॥

इति श्रीमत्पडितज्ञारसरामविरचितेसुभापानुवादविभूषितेऽनुपान
दर्पणे वैद्यविवेककथने प्रथम.प्रमोद ॥ १ ॥

अथायुर्वेदविवेकं व्याख्यास्यामः १ ।

इहखल्वायुर्वेदो नास यदुपाङ्गमर्थर्ववेदस्यानु-
त्पाद्यैव प्रजाःश्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च
कृतवान् ॥ स्वयंभूस्ततोऽल्पायुष्ट्वसल्पमेधस्त्व-
आवलोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीतवान् ॥३॥
शल्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौ-
मारभृत्यस्तगदतन्त्रं रसायनतंत्रं वाजीकरणतंत्र-
सिति ॥ ३ ॥ अथास्य प्रत्यङ्गलक्षणसमाप्तः ॥ ४ ॥
तत्र १ शल्यं नास-विविधकाष्ठपाषाणपांशुलो-
हलोष्टास्थिवाल-नखपूयास्त्रावान्तर्गर्भशल्योद्ध-
रणार्थयंत्रशस्त्रक्षाराद्यिप्राणिधानब्रणविनिश्चया-
र्थश्च ॥ ५ ॥ सुश्रू० सू० स्था० अ० १ ॥

भापानुवाद-अब आयुर्वेदविवेकको वर्णन-करेंगे ॥ यह आयुर्वेद जो अर्धवेदद्वा उपाङ्गहै उसको सृष्टिसे पूर्वही परमात्माने एक लक्ष श्लोक और एकसहस्र अध्यायमें निर्मित किया ॥ १ ॥ इतना बनानेके पश्चात् मनुष्योंकी अन्पायु और अल्पयुद्धि देखकर उस आयुर्वेदके पुन आठभाग किये ॥ २ ॥ उन आठभागोंके ये नाम हैं- १ शल्य २ शालाक्य ३ कायचिकित्सा ४ भूत-
रिदा ५ कौमारभृत्य ६ अगदतत्र ७ रसायनतत्र और ८ वाजीकरणतत्र ॥३॥
जब इस आयुर्वेदगे प्रत्येकभागका पृथकपृथक लक्षण कहतेहै ॥ ४ ॥

शास्त्री सद्रेश कहनायोग्य नहीं, जैसे गधेपर चढ़न लादनमें वह केवल चढ़नामें भार (बोझ) को जानता है परन्तु उसकी मुगच्छको नहीं जानता, इसलिये वैद्यक शास्त्र पढ़नेवालेको व्याकरण (पाणिनीयसूत्रों) का बोध अवश्य चाहिये जिससे अर्थार्थको जानलेवे ॥ ५ ॥ भाषानुवाद—जो केवल वैद्यशास्त्रको जानताहो और कर्म (अनुपानादिक्रिया) में निपुण न हो वह वैद्य रोगीको प्रासहोकर मोहित (घबड़ाय) जाताहै जिसे कायर रण (सम्राम) पाकर घब्रा जाताहै तेसे ॥ ६ ॥ और जो क्रियाको जानताहो परन्तु शास्त्रके बोधसे रहित हो वह वैद्य सज्जनोंमें आदर नहीं पाता और राजाको उचितहै कि उस अनपढ़ वैद्यको अपनेराज्यसे बाहर करदे—वा मरवाड़ाले नहीं तो वह बहुतसी प्रजाको नष्टकरदेगा ॥ ७ ॥

उभावेतावनिपुणावसमर्थौ स्वकर्मणि ॥ अर्द्ध
 वेदधरावेतावेकपक्षाविव द्विजौ ॥ ८ ॥ औप-
 ध्योऽमृतकल्पास्तु शास्त्राशनिविषेपमाः ॥
 भवन्त्यज्ञैरुपहृतास्तस्मादेतौ विवर्जयेत् ॥ ९ ॥
 यस्तुभयज्ञोमतिमान्ससमर्थोऽर्थसाधने ॥ आहवे
 कर्मनिर्वोद्धुं द्विचक्रः स्यन्दनो यथा ॥ १० ॥
 सुश्रू० सू० अ० ३-४ ॥

भाषानुवाद—उक्त दोनों प्रकारके वैद्य अशिक्षित होनेसे चिकित्सा करनेमें असमर्थ होतेहैं, जैसे एकपखबाले पक्षी उड़नेको असमर्थ होतेहैं तेसे अथवा जो इन दोनोंमें अर्थात् क्रिया और शास्त्रमें अशिक्षित हैं वे पक्षोंराहित पक्षीके समान दुखित और असमर्थ होतेहैं ॥ ८ ॥ जो औपधि अमृतके समानहैं वे उनअशिक्षित (विनपदेहुवे मूर्ख) वैद्योंके हाथसे-शास्त्र वज्र और विषके समान होजातीहैं इसलिये सबको उचित है कि मूर्ख वैद्योंसे औपधि कदापि न लेवे ॥ ९ ॥ जो बुद्धिमान शास्त्र और क्रियामें निपुणहै वही प्रयोजन सिद्धकरताहै अर्थात् उसीसे रोग निवृत्त होताहै जैसे युद्धमें दोपहियेके रथसे कार्यसिद्ध होताहै तेसे

[सलिये अष्टाग आयुर्वेदको पढेहुए और कियामे निषुण ऐसे वैद्यसे ही सबने औपध सेवन करना चाहिये, ये सब सुश्रुतके सूत्रस्थानके ३ रे तथा ४ थे अध्यायमें लिखा है ॥ १० ॥

इति श्रीमत्पठितज्ञारसरामविरचितेसुभाप्रानुवादविभूषितेऽनुपान
दर्पणे वैद्यविवेककथने प्रथम.प्रमोद. ॥ १ ॥

अथायुर्वेदविवेकं व्याख्यास्यामः १ ।

इहखल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमर्थवेदस्यानु-
त्पाद्यैव प्रजाःश्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च
कृतवान् ॥ स्वयंभूस्ततोऽल्पायुष्टमल्पमेधस्त्व-
आवलोक्य नराणां भूयोऽष्टधा प्रणीतवान् ॥२॥
शत्यं शालाक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौ-
मारभृत्यस्त्रगदतन्त्रं रसायनतंत्रं वाजीकरणतंत्र-
स्मिति ॥ ३ ॥ अथास्य प्रत्यङ्गलक्षणसमाप्तः ॥ ४ ॥
तत्र १ शत्यं नाम—विविधकाष्टपाषाणपांशुलो-
हलोष्टास्थिवाल—नखपूयास्वावान्तर्गर्भशाल्योष्ट-
रणार्थयंत्रशस्त्रक्षाराद्यिप्राणिधानब्रणविनिश्चया-
र्थञ्च ॥ ५ ॥ सुश्रू० सू० स्था० अ० १ ॥

भापानुवाद—अब आयुर्वेदविवेकको वर्णन—करेंगे ॥ यह आयुर्वेद जो अर्थवेदका उपाङ्ग है उसको सृष्टिसे पूर्वही परमात्माने एक लक्ष श्लोक और एकमहत्र अध्यायमें निर्मित किया ॥ १ ॥ इतना बनानेके पश्चात् मनुष्योंकी अत्पायु और अत्पवुक्ति देखकर उस आयुर्वेदके पुन आठभाग किये ॥ २ ॥ उन आठभागोंके ये नाम हैं—१ शत्य २ शालाक्य ३ कायचिकित्सा ४ भूत-
विद्या ५ कौमारभृत्य ६ अगदतत्र ७ रसायनतत्र और ८ वाजीकरणतत्र ॥३॥
उद्द इस आयुर्वेदके प्रत्येकभागका पृथक्पृथक् लक्षण कहतेहै ॥ ४ ॥

शाल्यका लक्षण—अनेक प्रकारके तृण (कठोरधास वा गोखरू—नागफनी आदिकेकाटे) काष्ठ (टकडीकी फासआदि) लोहेकी कील—हड्डी—गाल—नख—आदिके लगनेसे जो घाव होजाताहै अथवा उक्त वस्तुओंका कुछभाग (अग) घावमे रहजानेसे जो घाव विगटजातहै उसके दूरकरनेको जो गत्र वा यन्त्रद्वारा उन वस्तुओंका निकालना या गर्भमेसे मरेहुवे वालकरो शम्ख वा यन्त्रद्वारा निकालना अथवा घावके उत्तगप्रकारसे जाननेके हेतु जो यत्र कियाजाताहै उसको शाल्यचिकित्सा कहतेहैं ॥ ५ ॥

२ शालाक्यनाम-उर्ध्वजनुगतानां रोगाणां श्रवणनयनवदनघ्राणादिसंश्रितानां व्याधीनामुपशमनार्थम् ॥ ६ ॥ ३ कायचिकित्सानाम-सर्वाङ्गसंसृतानां व्याधीनां ज्वरातिसाररक्तपित्तशोषोन्मादापस्मारकुष्मेहादीनामुपशमनार्थम् ॥ ७ ॥ मुश्रु० सू० स्था० अ० १ । ४ भूतविद्यानाम-देवासु-रगन्धर्वयक्षरक्षःपितृपिशाच्चनागग्रहाद्युपसृष्टचेतसां शान्तिकर्मवलिहरणादिग्रहोपशमनार्थम् ॥ ८ ॥ सुश्रु० सू० स्था० अ० १ । ५ कौमारभृत्यं नाम-कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थं दुष्टस्तन्य-ग्रहसमुत्थानाच्च व्याधीनामुपशमनार्थम् ॥ ९ ॥

भाषानुवाद—२ शालाक्यल० जो कण्ठसे ऊपरके अङ्ग जैसे—मुख—नाव नेत्र औष्ठ कानआदिमें उत्पन्न हुवे रोगोंके दूरकरनेको यत्र कियाजाताहै उशालाक्य कहतेहैं ॥ ६ ॥ ३ कायचिकित्सा ल० जो सपूर्ण अग (शरीर—देह में हुवे ज्वर—अतिसार—रक्तविकार—पित्तरोग—शोष (खुशकी) उन्माद (खपता पगला) अपस्मार (मृगी) कुष्ठ प्रेमह (परगा) आदि रोगोंके दूरकरने यत्रकिया जाताहै उसे कायचिकित्सा कहतेहैं ॥ ७ ॥ ४ भूतविद्याल० जो देवता

अमुर—गर्व—यक्ष—राक्षस—पितर—पिशाच—सर्प और नवप्रह आदिमे चित्त लगनेसे अनेक भ्रमजन्य पीड़ा होतीहै उनकी शान्ति करनेको यन्त्र किया जाताहै उसको भूतविद्या कहते हैं ॥ ८ ॥ ९ कौमारभृत्यल० बालकोंका पालन पोषण—धायके दूधमें जो दोष होते हैं उनके तथा उस विगडेहुवे दूधके पीनेमे जो बालकोंको रोग होतहैं उनके दूरकरनेके यत्नोको कौमारभृत्य तत्र कहतेहैं ॥ ९ ॥

६ अगदतन्त्रनामस्सर्पकीटलूतावृश्चिकमूषिकादि-
दृष्टविषव्यञ्जनार्थं विविधविषसंयोगविषोपहतो-
पश्चमनार्थम् ॥ १० ॥ ७ रसायनतन्त्रनाम—वयः-
स्थापनसायुसेधावलकरंरोगापहरणससर्थम् ॥ ११ ॥
सुश्रु० सू० स्था० अ० १ । ८ वाजीकरणतन्त्रं नाम-
अल्पदुष्टविशुष्कक्षीणरेतसासाप्यायनप्रसादोप-
चयजनननिमित्तं प्रहर्पजननार्थश्च, एवसयमायु
र्वेदोऽष्टाङ्ग उपदिश्यते ॥ १२ ॥ इहखल्वायुर्वेदप्रयो-
जननंव्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य
रक्षणश्च आयुरस्मिन् विद्यतेऽनेन वा आयुर्विन्द-
तीत्यायुर्वेदः ॥ १३ ॥ सुश्रु० सू० स्था० अ० १ ॥

भाषानुवाद—६ अगदतत्रल० साप—कीडे—बन्दर—मूसे—आदिविषेले जीवोंके काटनेसे जो मनुष्योंके शरीरमें विष फैल जाताहै उसको दूरकरनेको जो उपाय कियाजाताहै उसे अगदतत्र कहतहै ॥ १० ॥ ७ रसायनतत्रल० जिससे मनुष्योंकी आयु पूर्ण हो और वह शुद्धिकी वृद्धि तथा सम्मन रोग निवृत्त हो उस उपायको रसायनतत्र कहतहै ॥ ११ ॥ ८ वाजीकरणतत्रल० जिसमे धोहे वीर्यवाले पुरुषकी वीर्ये वही विठाटे वीर्यगले की वीर्यशुद्धि और क्षीणरीर्यशानेकी पून वीर्यांतिति हो

और उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंको जो आनन्द देनेवाला उपाय हो उसे वाजी-करणतंत्र कहते हैं, इसप्रकारसे यह आयुर्वेद थष्टाङ्ग कहलाता है ॥१२॥ इस जगत्में आयुर्वेदके प्रकाश करनेका यही प्रयोजन है कि रोगयुक्त मनुष्योंको रोगसे छुड़ाना और रोगरहित मनुष्योंकी रोगसे रक्षा करना (वचाना) आयुर्वेदका अर्थ यह है कि, आमु अर्यात् शरीर इन्द्रिय और जीव इन तीनोंका स्वस्थतापूर्वक संयोग हो जिसमें उसे आयुर्वेद कहते हैं अथवा २ आयुका जिससे विचार हो उसे आयुर्वेद कहते हैं अथवा ३ आयु जिसके द्वारा जानीजाय दसे आयुर्वेद कहते हैं अथवा ४ जिससे आयुःप्राप्त हो उसे आयुर्वेद कहते हैं ये सब सुशुनके मूलस्थानके पहिले अध्यायमें लिखा है ॥ १३-१॥

इति श्रीमत्पण्डितज्ञारसरामविरचिते सुमापानुवादविभूषितेऽनुपानदर्पणे
आयुर्वेदविवेककथने द्वितीय प्रमोद ॥ २ ॥

अथ मानविवेक व्याख्यास्यामः ॥१॥

न मानेन विनायुक्तिर्द्रव्याणां ज्ञायते कचित् ॥
अतःप्रयोगकार्यार्थं मानमत्रोच्यते मया ॥२॥ यतो
मन्दाभयो हस्त्वा हीनसत्त्वा नराः कलौ ॥ अतस्तु
मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सुज्ञसम्मता ॥३॥ यत्रो
द्वादशभिर्गाँरसर्षपैः प्रोच्यते वधैः ॥ यद्वद्येन
गुंजा स्याद्विगुंजो वल्ल उच्यते ॥४॥ माषो गुञ्जा
भिरष्टाभिस्सप्तभिर्वा भवेत्कचित् ॥ स्याच्चतु
सांषकैश्शाणस्स निष्कं टंकं एव च ॥५॥ गद्याणो
माषकैः पङ्कभिः कर्षः स्याद्वशमाषकः ॥ चतुःकर्षैः
पलं प्रोक्तं दशशाणमितं बुधैः ॥ चतुःपलैश्च
कुडवं प्रस्थाद्याः पूर्ववन्मताः ॥ ६ ॥ शार्ङ्गधर
संहितायां सं० १ अ० १ ॥

भाषानुवाद—अब इसके आगे मानविवेक वर्णन करेगे ॥ १ ॥ मान (तोला) विनाद्रव्य (औपध) आदिकी योजना (युक्ति) नहींहो सकती इसलिये इस प्रथमे प्रथम मान परिभाषा लिखतेहै ॥ २ ॥ यद्यपि वैद्यकप्रथमें १ मागध और २ कालिंग, ये दोप्रकारके मान दियेहैं परन्तु हम प्रथविस्तारभयसे तथा कलियुगमे मदाश्चि छोटे और हीनवल मनुष्य होनेसे उनके योग्य कालिंग मानानुसारही मात्रा वैद्योको मन्तव्य होनेके कारण इसप्रथमे कालिंगमानही वर्णन करतेहै ॥ ३ ॥ १२ सपेद सरसोंका १ यव २ यवोंकी १ गुजा ३ गुजा (चिरभी) का १ वलू ॥ ४ ॥ ८ गुजा अथवा ७ गुजाका १ मासा ४ मासेका १ शाण जिसे निष्क तथा टकभी कहतेहै ॥ ५ ॥ ६ मासेका १ गद्याण १० मासेका १ कर्ष ४ कर्पका १ पल उस १ पलके १० शाण (४० मासे) होतेहै और ४ पलका एक कुडव होताहै । इसके आगे प्रस्थआदि मान मागध परिभाषानुसारही प्रथातरसे जानना चाहिये ॥ ६ ॥ यह मान शार्ङ्गधरसहिताके प्रथम खटके (पहले) अध्यायमें लिखाहै ॥

स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमर्थिं वयोवलम् ॥
 प्रकृतिं दोषदेशौ च दृष्ट्वा मात्रां प्रकल्पयेत् ॥ ७ ॥
 नाल्पं हन्त्यौषधं व्याधिं यथास्मभोऽल्पं महानलम्
 अतिमात्रं च दोषाय यथा सस्ये वहूदकम् ॥ ८ ॥
 भावप्रकाशस्यपूर्वखंडस्यद्वितीयभागे चोक्तमिदम् ॥

भाषानुवाद—अब औपध मात्राका मान दर्शातेहै—यद्यपि १ स्वरस २ काथ ३ फाट ४ हिम ५ कल्क ६ गुटिका ७ चूर्ण ८ अवरेह ९ खेह (तंल घृत) १० आसव ११ और रस (वातुमग्ग) आदिकी मात्रा पथोंमें पृथक् २ वर्णनकीभी हैं, तथापि समस्त क्रपि मुन्यादि वैद्यक प्रथकर्ताओंका अनिम यही सिज्जातहै कि प्रथाक्तमात्रापरही वैद्य निश्चय न रखये

किन्तु काल (समय) रोगीकी अग्नि—अपस्था—बउ—प्रह्लाद—दोष (वात—पित्त—कफ) और देश (अनूपादि) को देखकर अपनी बुद्धि अनुसार ओपव गात्राकी योजना करे ॥७॥ क्योंकि जैसे बढ़ाहुई अग्नि धोडे पानीसे शमन नहीं होती तैसेही बढ़ाहुआ रोगभी नियतमात्रासे दूर नहीं होता तो वहा रोगानु-सार मात्राको बढ़ाना चाहिये और जहा अल्परोग जानपडे वहा नियत मात्रा कोभी अल्प (धोड़ी) करदेनी चाहिये क्योंकि जैसे यव आदिअन्नके छोटे २ अकुरोपर अधिक जल गिरनेसे वे अकुर गल जाते हैं तैसेही धोडे रोगपर अधिक मात्रा होनेसे वह हानिही पहुचातीहै इसालिये वैद्यको लाचितहै कि मात्रा को विचारके देवे ॥८॥ ऐसा भावप्रकाशके पूर्व खड़के दूसरे भागमें लिखा है ॥

अथ नाडीविवेकं व्याख्यास्याम् ।

करस्यांगुष्ठमूलेयाधमनीजीदसाक्षिणी ॥ तच्चेष्ट
यासुखदुःखंज्ञेयंकायस्यपणिडतैः ॥ ९॥ नाडीध
त्तेमरुत्कोपेजलौकासर्पयार्गतिम् ॥ कंलिंगकाक
मण्डूकगतिंपित्तस्यकोपतः ॥ १० ॥ हंसपारावत
गतिंधत्तेश्लेष्मप्रकोपतः॥लावातित्तिरवर्तीनां गम
नेसन्निपाततः ॥ ११ ॥ कदाचिन्मंदगमनाकदा
चिद्रेगवाहिनी ॥ द्विदोषकोपतोज्ञेयाहन्तिचस्था
नविच्युता ॥ १२ ॥ स्थित्वास्थित्वाचलतिथासा
स्मृताप्राणनाशिनी ॥ अतिक्षीणाचशीताचजी
वितंहन्त्यसंशयम् ॥ १३ ॥

भाषानुवाद—अब नाडीविवेक वर्णन करते हैं । रोगीको नाडी देखनेके समय वैद्य प्रसन्नबुद्धि स्थिरचित्तहोकर खींके वाम (वाये) और पुरुषके दाहन हाथके अगूठके मूलमे प्राणवायुकी साक्षीभूत जो नाडी है उसपर अपने सीधे हाथकी तर्जनी आदि ३ अगुली रखके उस नाडीकी चेष्टा (गति) से शरीरके सुखदुखको जाने ॥ ९ ॥ वातप्रकोपमें सर्प और जोककी गति-समान पित्तप्रकोपसे कालिंग (पक्षिविशेष—वा—वुलबुल) काक और मेडुककी गति सद्वा ॥ १० ॥ कफप्रकोपसे हस तथा कबूतरकी गतिसमान सन्निपात (त्रिदोष) प्रकोपसे लवा तित्तिर तथा बटेरकी गतिसम ॥ ११ ॥ और द्विदोष (वातपित्त—वातकफ—पित्तकफ) प्रकोपसे कभी मद और कभी बेगसे नाडी चलतीहै और जो नाडी अपने स्थानको छोड़ देतीहै वह रोगीको नष्ट करदेतीहै ॥ १२ ॥ ठहर २ के चलनेवाली तथा अत्यत क्षीण और जो ढांची पड़ जावे सो नाडीभी रोगीके प्राणनाशिनीही जानो ॥ १३ ॥

ज्वरकोपेनधमनीसोषणावेगवतीभवेत् ॥ काम
क्रोधाद्भवेद्वेगाक्षीणाचिन्ताभयाप्लुता ॥ १४ ॥
मन्दाद्येःक्षीणधातोश्चनाडीमन्दतराभवेत् ॥ असृ-
कपूर्णभवेत्कोषणागुर्वीसामागरीयसी ॥ १५ ॥
लघ्वीवहतिदीसाद्येस्तथावेगवतीभवेत् ॥ सुखित
स्यरिथराज्ञेयातथावलवतीमता ॥ चपलाक्षुधि
तरयापितृस्यवहतिस्थिरा ॥ १६ ॥

भाष्यम्—नाडीपरीक्षार्थमेतेक्षणका शार्ङ्गधरस्य प्रधमखडस्य तृतीयाद्याये कथिता अताऽधिकाक्षापिसन्त्यनेकाभायुर्दीर्यप्रन्थेपुश्येका । परञ्च तत्रतेषां लेखन तद्ग्रथस्य विस्तारार्थमेव कुतो यथा रग्निनिधयो निदानेन भवति न भवति तथा नाटया तदेवाह भिषग्वरंवाग्भट कर्वीश्वरोलोलिंव्राजध्य ॥

यीभवन्ति ॥ तथाम्लयोगे अधुरेण तृष्णास्तेषाय
थेष्टं प्रवदंति पथ्यम् ॥ २ ॥ शीतोष्णतोयास
वमद्ययूषफलाम्लधान्याम्लपयोरसानाम् ॥ यस्या
नुपानंतुहितंभवेयत्तस्मै प्रदेयंत्विहमात्रयात् ॥
॥ ३ ॥ व्याधिश्वकालश्वविभाव्यधीरैद्रव्याणि
योज्यानिचतानितानि ॥ सर्वानुपानेषुवरंवदंति
मेधयंयदंभःशुचिभाजनस्थम् ॥ ४ ॥ लोकस्यज
न्मप्रभृतिप्रशस्तं तोयात्मकाःसर्वरसाश्वदृष्टाः ॥
संक्षेपएषोऽभिहितोऽनुपानेष्वतःपरंविस्तरतोऽ
भिधास्ये ॥ ५ ॥

भापानुवाद—अब इसके आगे अनुपानविवेक वर्णन करेंगे—अन्न औपध
और रस आदिके पीछे या सगही जो सेवन (पान) किया जावे उसे अनु-
पान कहते हैं ॥ १ ॥ कई मनुष्य खटाईसे विरक्त (अप्रसन्न) भीर मिठाईसे
अनुरक्त (प्रसन्न) रहते हैं और कई मिठाईसे विरक्त और खटाईसे अनुरक्त
रहते हैं उनको यथायोग्य (उनके स्वभावानुसार) पथ्य होना उचित है ॥ २ ॥ ठंडा
तथा उष्ण पानी आसव (अर्क) मय / मदिरा , यूप / मूग आदि वस्तुओं
का ओटाके निकालाहुवा सारखर्पी रस , फलकी खटाई—काजी—दूध—रस
' जो कि गोली औपधसे निकालागया हो , इनमेंसे जिस मनुष्यको जो हित
समझावे वही उसीको मात्रा / प्रमाणमि , अनुपान देना चाहिये ॥ ३ ॥ रोग तथा
समयके अनुकूल खानेका वस्तुओंको विचारकर दें और शुद्ध व स्वच्छ पात्रमें
रखाहुवा पानी मव अनुपानमें ब्रेष्ट होनेमें पीनेको देना चाहिये ॥ ४ ॥ ससारको
जग्मरे गरणपर्यन्त पानी हितही है क्यों कि सव रसादि पानीसे ही होते हैं
इस लिये किसी अनुपानमें पानी वर्जित नहीं यह सक्षेपसे अनुपान कह अब
इसके आगे विस्तारसे कहते हैं ॥ ५ ॥

रोगमादौपरीक्षेततदनंतरमौषधम् ॥ ततःकर्म
 भिषक्तपश्चाज्ञानपूर्वसमाचरेत् ॥ १७ ॥ वा० भ०
 आदौनिदानविधिनाविदध्याद्वयाधिनिश्चयम् ॥
 ततस्साध्यंसमीक्षेतपश्चाद्विषयगुपाचरेत् ॥ १८ ॥
 वै० जी० वि० १ ॥

मापानुवाद—सामान्य ज्वरप्रकोपसे नाडी उष्णतापूर्वक अविक वेग चलतीहै, काम और क्रोधसेभी नाडी अत्यत वेगसे चलतीहै, चिन्ता तथा भय युक्त मनुष्योंकी नाडी क्षीण (वलहीन) चलतीहै ॥ १४ ॥ जिसकी अग्नि म हो तथा धातु क्षीण हो उस मनुष्यकी नाडी अत्यत मद चलतीहै, रक्तप्रकोप युक्त नाडी कुछ २ उष्ण जड और भारी चलतीहै ॥ १५ ॥ जिस मनुष्यकी प्रदीप हो उसकी नाडी हल्की और वेगसे चलतीहै, रोगरहित मनुष्यकी नाडी स्थिर और बलयुक्त चलतीहै, भूखे मनुष्यकी नाडी चबल औ भोजनादिसे तृप्त हुवे मनुष्यकी निश्चल (स्थिरतायुक्त) नाडी चलती हैं ॥ १६ ॥ नाडीपरीक्षार्थ ये सब क्षोक शार्ङ्गधरके प्रथमखड़के तीसरे अव्यायमें वर्ण कियेहैं इनसे अधिकभी क्षोक कई वैद्यक प्रयोगमें लिखेहैं परन्तु उनका लिखन केवल उसप्रथके विस्तारार्थी है क्यों कि रोगनिश्चय जैसा निदानसे होता वैसा नाडीसे नहीं होता अत एव वैद्यश्रेष्ठ वाग्भटजी तथा कवीश्वर लोलिंबराजीने भी कहाहै कि प्रथम वैद्य निदानविधिसे रोगका निश्चयकरे फिर साथ असाध्यका निश्चयकरे तदनंतर ज्ञानपूर्वक चिकित्सा करे अर्थात् साध्यहो ते उसका यत्न और असाध्य रोग हो तो उसका लाग करदेवे ॥ १७—१८ ॥

इति श्रीमत्पद्मिनज्ञारसरामविरचिते सुभापानुवादविभूषितेऽनुपानदर्पणे
 मानविवेकनाडीविवेककथने तृतीय प्रमोद ॥ ३ ॥

अथातोऽनुपानविवेकं व्याख्यास्यामः १

अस्लेन केचिद्विहितामनुष्या माधुर्ययोगेप्रण

उष्णोदकानुपानं तु स्नेहानामथशस्यते ॥ ऋते
 भल्लातकस्नेहात्स्नेहात्तौवरकात्तथा ॥ ६ ॥ अ
 नुपानं वदन्त्येकेतैले यूपाम्लकांजिके ॥ शीतोद
 कंमाक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च सर्वशः ॥ ७ ॥ दधि-
 पाय संमद्यार्तिं विषजुष्टेतथैव च ॥ केचित्पिष्टमय-
 स्याहुरनुपानं सुखोदकम् ॥ ८ ॥ पयोमां सरसोवा-
 पिशालिमुद्गादिभोजिनाम् ॥ युद्धाध्वातपरंताप-
 विषमद्यरुजासु च ॥ ९ ॥ माषादेरनुपानं तु धान्या-
 म्लं दधिमस्तु वा ॥ मद्यं मद्योचितानां तु सर्वमांसे
 षुपूजितम् ॥ १० ॥ अमद्यपानामुदकं फलाम्लं वा
 प्रशस्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यस्त्रीकृन्तानाम-
 मृतोपमम् ॥ ११ ॥

भाषानुवाद- भिलावा और तुर (-जिसके केशरके समान पत्ते और उड़दके समान होते हैं) तेलको छोड़कर समस्त तैलादि चिकने पदाथोंके भक्षणमें उष्णपानी अनुपान है ॥ ६ ॥ कई आचार्य कहते हैं कि तैल—यूप—खटाई—काजी—सहत और पीसेहुए अन्न (सज्जुआदि के भक्षणमें ठडा पानी अनुपान है) ॥ ७ ॥ मद्यपानजन्य पीडा और विषभक्षणमें दही और दूध अनुपान है कई आचार्य पीसे अन्नभक्षणका अनुपान सुखोदक (थोड़ा उष्णपानी) कहते हैं ॥ ८ ॥ वान, मूरा आदि भक्षण करनेवालोंको दूध या मासरस अनुपान है, युद्धमार्ग धूप अग्निज्वाला इनसे वकेहुवोंको और विषज तथा मद्यजरोग युक्त पुरुषोंको भी दूध या मासरसही अनुपान है ॥ ९ ॥ उड्ड आदि का अनुपान कॉर्जी अथवा मट्ठा है, मासभक्षणमें मद्यपीनेवालोंको मद्यही अनुपान है ॥ १० ॥ मद्य न पीनेवालोंको जल या फलकी खटाई अनुपान है, घाम (धूप) मार्ग (वाट—पथ—रस्ता) पढ़ाने या पढ़ने और विषोंसे वकेहुवे मनुष्यको दूध अमृतके समान अनुपान है ॥ ११ ॥

सुराक्षिशानास्थूलानामनुपानंसधूदकम् ॥ निरा-
मयानांचित्रंतुभुक्तमध्येष्ठकीर्तितम् ॥ १२ ॥ स्त्रि-
ग्नोषणंमारुतेपथ्यंकफैरुक्षोषणमिष्यते ॥ अनु-
पानंहितंचापिपित्तेसधुरशीतलम् ॥ १३ ॥ हितं
शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥ अर्कही-
लुक्षिरीषाणामासवस्तुविपार्तिंषु ॥ १४ ॥ अतः
परं तुवर्गाणामनुपानंपृथक्पृथक् ॥ ग्रवक्ष्यास्यनु-
पूर्वेणसर्वेषामेवमेवृणु ॥ १५ ॥

भाषानुवाद—मध्य (मदिरा—दास्त—शराब—वराडी) से दुबले और अत्यंत
को जलयुक्त मध्य (सहत) अनुपान है रोगरहित मनुष्योंको अनेक
रकी दम्नु भोजनके मध्य २ (वीच २) मे खिलानाही अनुपान है ॥ १२ ॥
रोगमें चिकना उष्ण कफरोगमें उष्ण म्ख्या और पित्तमें मीठा तथा ठढा
प्रापन पथ्य है ॥ १३ ॥ रक्तपित्तमें दूध और ऊस (साठे) का रस
प्रापन पथ्य है, विषजनित रोगमें अर्क (आकडा—अकौवा) रीठा और
सका आसव अनुपान है ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् वर्ग वर्गका पृथक् २
प्रापन वर्णन करते हैं ॥ १५ ॥

१ तत्रपूर्वसस्यजातीनांवदरास्त्वैदलानांधा-
न्यास्त्वम् ॥ १६ ॥

२ अस्त्वैदलानांफलानापद्मोत्पलकन्दासवः ॥ १७ ॥

३ कपायाणांदाडिमवेत्रासवः ॥ १८ ॥

४ सधुराणांत्रिकटुकयुक्तः कन्दासवः ॥ १९ ॥

५ तालफलादीनांधान्यास्त्वम् ॥ २० ॥

६ कटुकानादूर्वानिलवेत्रासवः ॥ २१ ॥

७ पिप्पल्यादीनांदद्युष्टावसुकासवः ॥ २२ ॥

८ कृष्णापडादीनांदार्विकरीरासवः ॥ २३ ॥

९ चंचुप्रभृतीनांलोध्रासवः ॥ २४ ॥

उष्णोदकानुपानं तु स्नेहानामथशस्यते ॥ ऋते
 भल्लातकस्नेहात्स्नेहात्तोवरकात्तथा ॥ ६ ॥ अ
 नुपानं वदन्त्येकेतत्त्वे यूपाम्लकांजिके ॥ शीतोद
 कं माक्षिकस्य पिष्टान्नस्य च सर्ववशः ॥ ७ ॥ दधि-
 पायसंमयात्तिं विषजुष्टेतथैव च ॥ केचित्पिष्टमय-
 स्याहुरनुपानं सुखोदकम् ॥ ८ ॥ पयोमां सरसोवा-
 पिशालिमुद्गादिभोजिनाम् ॥ युद्धाध्वातपरंताप-
 विषमयरुजासुच ॥ ९ ॥ माषादेरनुपानं तु धान्या-
 रुलं दधिमस्तु वा ॥ मध्यं मयोचितानां तु सर्वमांसे
 षुपूजितम् ॥ १० ॥ अमयपानामुदकं फलाम्लंवा
 ग्रजास्यते ॥ क्षीरं घर्माध्वभाष्यखीकृतानाम-
 मृतोपमम् ॥ ११ ॥

भाषानुवाद-भिलावा और तुर (जिसके केशरके समान पत्ते और उड़दके समान होते हैं) तेलको छोड़कर समस्त तैलादि चिकने पदार्थोंके भक्षण में उष्णपानी अनुपान है ॥ ६ ॥ कई आचार्य कहते हैं कि तैल—यूप—खटाई—काजी—सहत और पीसेहुए अन्न (सत्तुआदि के भक्षणमें ठढा पानी अनुपान है ॥ ७ ॥) मध्यपानजन्य पीडा और विषभक्षणमें दही और दूध अनुपान है कई आचार्य पीसे अन्नभक्षणका अनुपान सुखोदक (योडा उष्णपानी) कहते हैं ॥ ८ ॥ धान, मूग आदि भक्षण करनेवालोंको दूध या मासरस अनुपान है, युद्धमार्ग धूप अग्निज्वाला इनसे थकेहुवोंको और विपज तथा मध्यज रोग युक्त पुरुषोंको भी दूध या मासरस ही अनुपान है ॥ ९ ॥ उडद आदि का अनुपान कौंजी अथवा मट्ठा है, मासभक्षणमें मध्यपीनेवालोंको मध्यही अनुपान है ॥ १० ॥ मध्य न पीनेवालोंको जल या फलकी खटाई अनुपान है, घाम (धूप) मार्ग (वाट-पथ-स्ता) पढ़ाने या पढ़ने और खियोंसे यकेहुवे मनुष्यको दूध अमृतके समान अनुपान है ॥ ११ ॥

मुराक्षुशानासधूलाननुपानंसधूलकम् ॥ निरा-
मयानांचित्रंतुभुक्तमध्येप्रकीर्तिम् ॥ १२ ॥ स्ति-
मधोष्णंसारुतेपथ्यंकफेरुक्षोजणमिष्यते ॥ अनु-
पानंहितंचापिपित्तेमधुरशीतलम् ॥ १३ ॥ हितं
शोणितपित्तिभ्यः क्षीरमिक्षुरसस्तथा ॥ अर्कशे-
लुक्षिरीषाणामासवास्तुविपार्तिषु ॥ १४ ॥ अतः
परं तुवर्गाणामनुपानंपृथक्पृथक् ॥ प्रवक्ष्यास्यनु-
पूर्वेणसर्वेषासेवमेश्वरृणु ॥ १५ ॥

भाषानुवाद—मध्य (मदिरा—दाख्ल—शराव—वराडी) से दुबले और अत्यंत मोटोको जलयुक्त मधु (सहत) अनुपान है रोगरहित मनुष्योंको अनेक प्रकारकी दम्तु भोजनके मध्य २ (बीच २) में खिलानाही अनुपान है ॥ १२ ॥ वातरोगमे चिकना उण कफरोगमे उण न्यखा और पित्तमें मीठा तथा ठढा अनुपान पर्य है ॥ १३ ॥ रक्तपित्तमें दूध और ऊस (साठे) का रस अनुपान पर्य है, विषजनित रोगमें अर्क (आकडा—अकौवा) रीठा और सिरसका आसव अनुपान है ॥ १४ ॥ इसके पश्चात् वर्ग वर्गका पृथक् २ अनुपान वर्णन करते हैं ॥ १५ ॥

१ तत्रपूर्वसस्यजातीनांबद्रास्लवैदलानांधा-
न्यास्लम् ॥ १६ ॥

२ अस्लानांफलानापद्मोत्पलकन्दासवः ॥ १७ ॥

३ कपायाणांदाडिमवेत्रासवः ॥ १८ ॥

४ सधुराणांत्रिकटुकयुक्तः कन्दासवः ॥ १९ ॥

५ तालफलादीनांधान्यास्लम् ॥ २० ॥

६ कटुकानादूर्वनिलवेत्रासवः ॥ २१ ॥

७ पिपल्यादीनांदवङ्गेषुकसुकासवः ॥ २२ ॥

८ कृष्णाणडादीनांदावर्किरीरासवः ॥ २३ ॥

९ चंचुप्रभृतीनांलोधासवः ॥ २४ ॥

१० जीवन्त्यादीनांत्रिफलासवः ॥ २५ ॥

११ कुसुंभशाकस्यसप्तव ॥ २६ ॥

भाषानुवाद—१ सस्यजाति (शूकधान्य—कुंवान्य—गर्भी वान्य) खड्डेर और वेदल (जिनकी ढाल बनती है जैसे, सूर, उड्ड, मसूर, मटर, तूबर, चने, आदि) इनका काजी अनुपान है ॥ १६ ॥

२ खड्डफलोंका नीलेकमलके कदका आसव अनुपान है ॥ १७ ॥

३ कषेले भोजनका दाढिम तथा वेतका आसव अनुपान है ॥ १८ ॥

४ मीठे भोजनका सोंठ मिरच पीपल युक्त कदोंका आरत्र अनुपान है ॥ १९ ॥

५ ताडफल—नारियल—कटहर और केलेका काजी अनुपान है ॥ २० ॥

६ चिरपरे भोजनका दूब—नल—(देवनल) और वेत्र (वेत) आसव अनुपान है ॥ २१ ॥

७ पीपल पीपलामूल—चव्य—(चाभ) चित्रक (चीता) अदरक काली मिर्च—गजपीपल—रेणुक—अजमोदा—इन्द्रजव—पाठ—जीरा—सरसों—पहाड़ी नींव फल हींग—भारगी—महुआ—अतीस—वच—वायविडग और कटुकी इस पिण्ठलाडि वर्गका गोखरू वसुक (बुक केदारगिरी वगहुलप्रसिद्ध) का आसव अनुपान है ॥ २२ ॥

८ कूमाड (कटु) लौकी (सफेद फ़लका कटु) और तरबूज आदि शाकोंका दार्ढी और करीनलका आसव अनुपान है ॥ २३ ॥

९ चचु (लाली) जाई जुही जीवती (शाकभेद) कुदरु करहारी भिलावा वृद्धदारुक वृक्षादनी (वृक्षभेद) फजी (वाड) सेमर रीठा बनसपति प्रसव (वृक्षभेद) शण (अवाडेकी भाजी दक्षिणमें प्रसिद्ध) और कचनार इनस-वोंका लोदका आसव अनुपान है ॥ २४ ॥

१०—११ जीवत्यादि वर्गका और कसूभ सागका त्रिफलेका आसव अनुपान हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥

१ शूकधान्य और ।

२ कुघान्य कोटु सावा वासके बीज और मियगु आदिको कहते हैं ।

३ शमीधान्य उसको कहते हैं जो कि विनही क्रतुमें उत्पन्न है ।

४ जीवत्यादिवर्ग विस्तारपूर्वक सुश्रुतये देखो ।

१२ सण्डुकपर्यादीनांमहापञ्चमूलासवः ॥ २७ ॥

१३ तालमस्तकादीनामस्त्वलफलासवः ॥ २८ ॥

१४ सैन्धवादीनांसुरासवआरनालंच ॥ २९ ॥

१५ तोयं वा सर्वत्रेति ॥ ३० ॥

भवन्तिचात्र—सर्वेषासनुपानानांमाहेन्द्रंतोयमु-
त्तमम् । सात्म्यंयस्यतुयत्तोयंतत्समौहितमुच्यते
॥ ३१ ॥ उषणंवातेकफेतोयंपित्तेरक्तेचशीतलम् ॥
दोषवहुरुवाभुक्तमतिसात्रसथापिवा ॥ ३२ ॥
यथोक्तेनानुपानेनसुखमन्नप्रजीर्यति ॥ रोचनंबृं-
हणंबृष्यंदोषसंघातभेदनम् ॥ ३३ ॥

भाषानुवाद—१२ ब्राह्मी हुलहुल पीपल गुरुच गोभी वावची मटर दोनो
कटियाली वैगन करेला एरड पित्तपापटा चिरायता ककोडा नीमतुरै वेतका
अप्रभाग और घ्यादिका बृहत्पञ्चमूलका आसव अनुपान है ॥ २७ ॥

१३ ताटके गूदे आदिका खेटे फलोंका आसव अनुपान है ॥ २८ ॥

१४ सेधानोन ममुद्दनोन विटनोन सौचलनोन साभरानोन और उद्दिनोन
(जो कही खारकी भूमीमेंसे निकाला हुआ पानी सूर्य की उण्णतासे या अग्निसे
जमाया जाता है) इन सबोंका मध्य आसव और आरनाल अनुपान है ॥ २९ ॥

१५ अयवा सर्वत्र केवल जलही अनुपान उत्तम है ॥ ३० ॥

यहाँ ऐसा जानो कि सब अनुपानोंमें अतरिक्ष (जो वर्षताहुवा पानीही पात्रमें
लेहिया जावे) वह उत्तम है या जिसको जो पानी अनुकूल हो उसको वही हित
है ॥ ३१ ॥ वात और कफजनित रोगमें उण पानी पित्त जौ रक्तज रोगमें ठडा
पानी अनुपानमें देना उचितहै, दोपयुक्त या प्रमाणसे अविक खायाहुवा अन्नभी
॥ ३२ ॥ उचित अनुपानसे नुखूर्दक पचजाताहै और उचित अनुपान
गच्छर्हक—तृष्ण (वीर्यवर्हक) परात्रसविकाशक दोपनाशक ॥ ३३ ॥

तर्पणं मार्दवकरं श्रमकृमहरं सुखम् ॥ दीपनं दोषश-
 मनं पिपासो च्छेदनं परम् ॥ ३४ ॥ वल्यं वर्णकरं
 सम्यग्नुपानं सदोच्यते ॥ तदा दौकर्शयेत्पीतं स्था-
 पयेन्मध्यसेवितम् ॥ ३५ ॥ पश्चात्पीतं बृंहयतित-
 स्माद्विक्षयप्रयोजयेत् ॥ स्थिरतां गतमाक्लिन्नमन्न
 मद्रवपायिनाम् ॥ ३६ ॥ भवत्यावाधजननमनु
 पानमतः पिवेत् ॥ नपिवेच्छासकासार्तोरोगेचा
 ध्यूर्ध्वजञ्जुगे ॥ ३७ ॥ क्षतोरस्कः प्रसेकीचयस्य
 चोपहतस्त्वरः ॥ पीत्वाऽध्वभाष्याध्ययनगेयस्व
 प्नान्नशीलयेत् ॥ ३८ ॥ प्रदूष्यामाशयं तञ्चितस्य
 कंठोरसि स्थितम् ॥ स्यन्दान्निसादच्छर्यादीना
 मयाञ्जनयेद्दहून् ॥ ३९ ॥

भाषानुवाद— तृप्ति तथा कोमलताकारक— श्रम भ्रमहारक— सुखदायक— अस्ति
 उन्नायक दोष (वात— पित्त— कफ) कोपसहारक तृप्ता (प्यास) दारक ॥ ३४ ॥ और
 वल तथा वर्णकारक होता है सो अनुपान यदि भोजनके पहलेही पान किया जावे
 तो शरीरको टुर्बल और मध्यमें जैसाका तैसा (घटावे न बढ़ावे) ॥ ३५ ॥ और
 अतमें पीनेसे शरीरको पुष्ट करता है इसलिये विचारके अनुपान देवे जल आदि
 पीयेविन भक्षित अन्न स्थिर और कडा रहनेसे तृप्ति देनेवाला नहीं होता ॥ ३६ ॥
 वरन् पीडाकारक हो जाता है इसलिये भोजनके पश्चात् अनुपान पीनाही चाहिये
 इवास कासवाला ठुड़ीसे ऊपरके अगमें जिसके रोग हो वह ॥ ३७ ॥ उर क्षती
 (जिसके हृदयमें धाव हो गया हो) प्रसेकी (जिसके मुखसे लोरे गिरे वा
 पसीनेमें भीगाहुवा) और जिसका स्वर (शब्द) वैठगया हो ये मनुष्य अनु-
 पान न पीवे और इनसे व्यतिरिक्त (रोगरहित मनुष्य) भी अनुपान पीकर
 मार्गका चलना आधिक बोलना पढना गाना और सोना ये कर्म कदापि न करें
 ३८ ॥ उक्तकर्मोंके करनेसे वट अनुपान आमाशयको दूषित करके उस-

मनुष्यके कठ और हृदयमें प्राप्त होकर कफस्ताव मदाग्नि और वमन (उलटा)
आदि रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ३९ ॥

गुरुरुलाघवचिन्तेयं स्वभावं नातिवर्तते ॥ तथासं-
रकारमात्रांतकालांश्चाप्युत्तरोत्तरम् ॥ ४० ॥ संद
कर्मनिलारोग्याः सुकुमारसुखोचिताः ॥ ज-
न्तवोयेतुतेषांहि चिन्तेयं परिकीर्तिता ॥ ४१ ॥ व
लिनःखरभक्षाश्चयेचदीप्ताव्योनराः ॥ कर्मनि
त्याश्चये तेषां नावश्यं परिकीर्तयेत् ॥ ४२ ॥ इदं
मखिलसुक्तं सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थानेषद् चत्वा
रिंद्रोऽध्याये ॥

भाषानुवाद—दन्योंका भारीपन—हृलकापन—स्वभाव-स्त्रकार—मात्रा और समय
ये कर्मी नहीं छूटते और सब एकसे दूसरा बलवान् हैं ॥ ४० ॥ इसलिये विचार
के वैद्यन अनुपान देना चाहिये, क्यों कि आलसी मदाग्निवाले सुकुमार और
मुखमें गहनेवाले मनुष्योंके लिये उक्त अनुपान विविका विचारना है ॥ ४१ ॥ और
जो वर्गान् काठिन भोजन करनेवाले तीव्राग्नि (तेज अग्नि) वाले तथा प्रति
दिन परिश्रम करनेवाले पुरुषोंके लिये उक्त विविके विशेष विचारकी कोई
जावद्यकता नहीं यह अनुपानविवि सुश्रुतसंहिताके मूत्रस्थानके ४६ वें अध्या-
यमें लिखीहै ॥ ४२ ॥

अथ कतिपयरोगेषु दुग्धानुपानान्याह ।

क्षीरोचितस्य प्रक्षीणश्लेषणोदाहतृङ्गतः ॥ क्षीर-
पित्तानिलार्तस्य पश्यतिसारिणः ॥ ४३ ॥
तद्धुर्दूर्घनोत्ततं प्लुष्टं वनसिवाग्निना ॥ विद्यां चु
जीवयेत्स्यज्वरं चाद्युनियच्छति ॥ ४४ ॥ सं
स्फुरतशीति सुप्तिं वातसाज्जारोणमेववा ॥ विभ

ज्यकालेयुंजीतज्वरिणंहंत्यतोऽन्यथा ॥ ४५ ॥ प
यःसशुंठीखर्जूरमृद्धीकाशर्कराघृतम् ॥ शृतशी
तंमधुयुतंतृङ्गदाहज्वरनाशनम् ॥ ४६ ॥ तद्व्वा-
क्षावलायष्टीसारिवाकणचंद्रनैः ॥ चतुर्गुणेनांभ
सावापिप्पल्यावाशृतंपिवेत् ॥ ४७ ॥

भाषानुवाद—अब कितनेक रोगोंपर दूधके अनुमान कहतेहैं, दूध देने योग्य (जिसके शरीरको दूध अनुकूल हो) उसको—क्षीण - कफवालेको—दाह तथा तृष्णावाले को—पित्तवात्से पीडितको और अतिसाख्वाले मनुष्यको दूध देना पश्य है ॥ ४३ ॥ वह दूध जैसे ग्रीष्मग्रिसे तस बनके समान लब्बनेसे तपायमान रोगके शरीरको वर्षाके जलकी नाई जिला देताहै और उसके ज्वरकोभी शीघ्रही नाश करदेताहै ॥ ४४ ॥ औषधोंसे सिद्ध किया हुवा-ठढा अथवा उण्णा गरम या धारेण्ण (धारोंसे ही निकलाहुवा गरम २) दूधको भमयके अनुकूल रोगात्सार विचारकर जिसको जैसा हित समझे उसको वैसाही वैधने देना चाहिये, अन्यथा देनेसे अमृत समान दूध विपपानसदृश होकर ज्वरयुक्त मनुष्यको नष्ट करदेताहै ॥ ४९ ॥ सोंठ-खजूर (खारक) मुनका-मिश्री (खाड) और धी इन्होंसे युक्त दूधको औटाकर ठढा करे और उसमें सहत मिलाकर पिलावे तो वह दूध दाह तृपा और ज्वरका नाश करताहै ॥ ४६ ॥ इसीप्रकार दाख खरेटी मुलहटी सारिवा छोटी पीपल और चदन इन सर्वसहित औटाकर ठढा कियाहुवा दूध अथवा इनके काथमें सिद्ध कियाहुवा दूध अथवा चौगुने पानी करके सिंद्र कियाहुवा दूध या केवल पिप्पलीसे सिद्ध किया हुवा दूध पिलानेसे वह दूध दाह तृपा और ज्वर का नाश करताहै ॥ ४७ ॥

कासाच्छ्वासाच्छ्विरःशूलात्पार्श्वशूलाच्चिरज्वरात् ॥
मुच्यतेज्वरितःपीत्वापञ्चमूलीशृतंपयः ॥ ४८ ॥
शृतसेरण्डमूलेनवालविलवेनवाज्वरात् ॥ धारेण
वा पयःपीत्वाविवङ्गानिलवर्चसः ॥ ४९ ॥ सरक्तं

पित्तातिसूतेस्सतृद्व्युलप्रवाहिकात् ॥ सिद्धंशु-
षठी वलाद्याग्निगोकपटकगुडैः पयः ॥ ५० ॥
शोफसूत्रशङ्खातविवन्धज्वरकासजित् ॥ वृश्ची-
वविल्ववर्षभूसाधितंज्वरशोफनुत् ॥ शिशि-
पासारसिञ्चं वाक्षीरसाशुज्वरापहम् ॥ ५१ ॥ वा-
रभटेचिकित्सा स्थानेद्वितीयेऽध्याये ॥

भाषानुवाद—पञ्चमूलमें सिद्ध किये हुवे दूधके पिलानेसे ज्वरयुक्त रोगीभी
कास इवास शिरकी शूल पार्श्वशूल और पुराने ज्वरसे छूट जाताहै ॥ ४८ ॥
एरण्डमूलमें अथवा कच्चे वेलेके गुदमें ओटाकर सिद्ध किये हुये दुग्धपानसे रोगी
ज्वरसे छूट जाताहै, वारोण दूधके पीनेसे अधोवायुका रुक्ना—मलकी रुक्नावट
॥ ४९ ॥ रक्त तथा फेनयुक्त आतिसार-और तृप्ता तथा शूलयुक्त प्रवाहिका ये सब
रोग दूर होजातेहैं सोठ—खरेटी कटियाली गोखरू और गुड इनकरके सिद्ध
किया (खीटाया) हुआ दूध पिलानेसे ॥ ५० ॥ शोथ (सूजन) मूत्र तथा मलका
रुक्ना—ज्वर और खासी इन सबका नाश करताहै तथा वृश्चिव, विल्व, सॉटी
इनसे भिन्न दूध सासमर्के गोदमें भिन्न कियाहुवा दूध ज्वरको शीघ्रही नाश
करताहै ऐसा वार्भटमें चिकित्सास्थानके दुसरे अव्यायमें लिखा है ॥ ५१ ॥

सौभाग्यपुष्टिवलशुक्रविवर्धनानिकिंसन्तिनोभु
विवहृनिरसायनानि ॥ कन्दर्पवर्धिनिपरंतुसि
ताज्य युक्तादुरधावतेनमसकोपिसतःप्रयोगः
॥ ५२ ॥ वै० जी० चि० ५ । इतिदुरधानुपानानि ॥

भाषानुवाद—गोलिनराजजी यपनी छीसे कहते हैं कि हे कदर्पवर्धनि (काम-
देवकोंवटानेशालीक्षी) मुद्रता—पुष्टना—वल और वीर्यकों वटानेयाली रसायन
रूप व्या चहुतमी वस्तुये पृथ्वीमें नहीं हैं किन्तु वहतेरी हैं परन्तु मिश्री और

१ शालपाणी (जिसे गांडदेशमें नालपाणीभी कहते हैं) २ पृथ्विपाणी (जिसे मध्य-
दग्धमें ज्वरगेतु और पीटपनी) ३ छोटी कटियाली ४ बटी नटियाली और ५
गोरख इसे ल्पुमद्गूल कहते हैं ।

वृत्तसहित दूध जैसा सुंदरता—पुष्टा—बठ और वीर्यको बढ़ानेवाला है तंसा मेरा गतमें कोई दूसरा प्रयोग (उपाय) नहीं है ॥१२॥ ये दूधके अनुपान वर्णन किये ।

अथ योगगजगुगुल्वनुपानानि ।

राज्ञादिकाथसंयुक्तोविविधंहन्तिभारुतम् ॥ काँ
कोल्यादिशृतात्पित्तंकफमारभवधादिना ॥ ५३ ॥
दार्विशृतेनमेहांश्चगोमूत्रेणैवपाण्डुताम् ॥ मेदो
वृद्धिं चमधुनाकुष्ठेनिंवशृतेनवा ॥ ५४ ॥ छिन्ना
काथेनवातासंशोथंशूलं कणाशृतात् ॥ पाट
लाकाथसहितोविषंसूषकजंजयेत् ॥ ५५ ॥ त्रि
फलाकाथसहितोनेत्रार्तिंहन्तिदारुणाम् ॥ पुनर्नवादेः
काथेनहन्यात्सर्वोदराण्यपि ॥ ५६ ॥
शार्ङ्ग० खं० २ अ० ७ । इतियोगराजगुगुल्वनु
पानानि ॥

अब योगराजगुगुल्वके अनुपानोंको वर्णन करतेहैं। राज्ञादि काथ सग वातरोगको, काकोल्यादि काथ सग पित्तरोगको, आरभवधाधि काथ सग कफरोगको ५३। दारुहल्दीके काढे सग प्रमेहको गोमूत्र सग पाण्डुरोगको, सटत सग मेदोवृद्धिको निवाके काथ सग कुष्ठको ॥५४॥ गुर्च (गुडबेल) के काथसग रक्तवातको, पिपलीके काथसग शोथ तथा शूलको, सिरसके काथसग मूपकदशा विषको ॥५५॥ त्रिफलाके काथसग नेत्ररोगको और पुनर्नवा (साठी) के काथ सग देनेमें समस्त उदररोगको योगराज गुगुल्व नाशकरता है ॥ ५६ ॥ ऐसा शार्ङ्गवर्त्तने दूसरे खण्डके सातवें अव्यायमें लिखा है ये योगराज गुगुल्वके अनुपान कहे ॥

अथ नारायणचूर्णनुपानान्याह ।

दद्याद्युवत्वानुपानेनतथाध्मानेसुरादिभिः ॥ गुल्मे
वदरनीरेणविद्संगेदधिमस्तुना ॥ ५७ ॥ उप्णा

बुभिश्चजीर्णेचवृक्षास्लैःपारिकर्तृषु ॥ उध्रीदुष्ठेनो
द्वे बुतथातकेणवागवाम् ॥ ५८ ॥ प्रसन्नयावात्
रोगेदाडिसांसोनिरर्शसि ॥ द्विविधेचविषेदव्याद्
द्वृतेनविष्णवाशनम् ॥ चूर्णनारायणं नासदुष्टरोग
गणापहम् ॥ ५९ ॥ शार्ङ्ग० सं० २ अध्याय ६ ॥

भापानुवाद-अब नारायणचूर्णके अनुपानोको वर्णन करते हैं, आधान
(पेटफूलने) मे मदिरा आदिके सग गुलमें वेरके काथ संग मलबद्धमे दही
के पानींनंग ॥ ५७ ॥ अजीर्णमें उष्ण (गरम) पानीसग पारिकर्ता (गुदामे कत-
रनेके समान पीडा करनेवाले) रोगमें अमर्लिके काथसग, उदररोगमे ऊटनीके
दूधसग अथवा गजकी छाछसग ॥ ५८ ॥ वातरोगमें सुरा मडसग अर्शा (मूल-
छायि, मे अनारके रससग और स्थावर तथा जगमविषमें धीके सग और
उक्तरोगोमे व्यतिरिक्त रोगोमें जैसा योग्य अनुपान समझे टस्के सग देनेसे यह
नारायणचूर्ण उक्त रोगाडिसमस्त दुष्टरोगोका नाश करता है ॥ ५९ ॥ ऐसा शार्ङ्ग-
धरसहिताके दूसरे खड़के उठवे अध्यायमें लिखा है ॥ इति नारायणचूर्णानुपानानि ।

बथ निर्गुण्डव्यनुपानानि ।

प्रस्थंनिर्गुण्डीचूर्णस्यगोसूत्रेणस्तसंपिवेत् ॥
दशरात्रप्रयोगेणकुष्ठनाशोसवेद्धुवम् ॥ ६० ॥
निर्गुण्डीचूर्णसादाय द्वृतेन सहस्रक्षयेत् ॥ कृशस्तु
दुर्वलोवापिवलवीर्ययुतोभवेत् ॥ ६१ ॥ निर्गुण्डी
चूर्णसादायपिवेदुष्णेनवारिणा ॥ सत्तरात्रप्रयो-
गेणरोगसुक्तोभवेन्नरः ॥ ६२ ॥ निर्गुण्डीमूलसु-
दृत्यय्हेचधारयेहुधः ॥ नद्यन्तिसर्वविम्बानिगृहा-
क्षागाथसर्वशः ॥ ६३ ॥ इति निर्गुण्डव्यनुपानानि ॥

१ शरदोषपत्त तडजेयमन्त्र विचक्षणं ॥ गरावाभ्या भवेत्प्रस्थनु प्रस्थस्तया-
प्तम् ॥ १ ॥ ३०

अथभृंगराजानुपानानि ॥ भृंगराजपत्ररसं कृष्ण-
जीरसमांपिवेत् ॥ तैलेनसहसंद्वाद्वलीपिलितव
जिंतः ॥ ६४ ॥ भृंगराजरसंचैवगुड्डचीरससंयुतम् ॥
सासमात्रप्रयोगेणसर्वव्याधिर्विनश्यति ॥ ६५ ॥
॥ इति भृंगराजानुपानानि ॥

भाषानुवाद—अब निर्गुण्डीके अनुपान कहते हैं १ प्रस्थ (५३ तोले ४ मासे भर) निर्गुण्डीके चूर्णको गोमूत्र सग दशरात्रि पर्यन्त पिलानेसे कुप्र ('कोढ') दूर होजाता है ॥ ६० ॥ निर्गुण्डी चूर्णको धी के सग सेवन करनेसे कृश तथा वलहीनभी मनुष्य वलवर्यियुक्त हो जाता है ॥ ६१ ॥ निर्गुण्डी चूर्णको गरम २ पानीके सग सात रात्रिपर्यत सेवन करनेसे रोगरहित मनुष्य होजाता है ॥ ६२ ॥ निर्गुण्डीके मूल (जड को उखाड़के यदि गृहस्थ अपने घरमें रखेतो उसके घरमें सर्प नहीं रहता और सब प्रकारके विष दूर होजाते हैं ॥ ६३ ॥ अब भृंगराजके अनुपान कहते हैं, भृंगराजके पत्तोके रसको कालेजीरेके अथवा तैलके सग पान करे तो वह मनुष्य वृद्धावस्थामें भी तरुणके समान बलवान् रहे ॥ ६४ ॥ भृंगराजके रसको गुर्चके रस सग १ मास पर्यन्त पीवे तो सब प्रकारके रोग दूर होय ॥ ६५ ॥

अथ सकलरेगेषु हरीतक्यनुपानानि ।

सितायुक्ताचशरदिहेमन्तेनागरेणच ॥ शिशिरेपि
प्पलीयुक्तावसन्तेमधुनासह ॥ ६६ ॥ श्रीष्मेचगुड-
संयुक्तावर्षासुलवणेनच ॥ अनेनैवविधानेन भक्ष-
येद्योहरीतकीम् ॥ ६७ ॥ तस्यवृद्धिर्वेलंवीर्यमा-
रोर्यस्थिरयौवनम् ॥ अन्निर्दहतिकाष्ठानितनुरो-
गान्हरीतकी ॥ ६८ ॥ कदाचित्कुप्यतेमातानो-
दरस्थाहरीतकी ॥ मातेवसर्वदाज्ञेया हितदात्री
हरीतकी ॥ ६९ ॥ इदमस्तिलमुक्तं गौरिकांचलि-

कातंत्रे ॥ अन्यच्च ॥ ग्रीष्मेतुल्यगुडांसुसैन्धवयु-
तांसेघावनहोस्वरे तुल्यां शर्करयाशरव्यमलयाशु-
णठथातुपारागमे ॥ पिप्पल्याशिशिरेवसन्तसमये
क्षौद्रेणसंयोजिताराजन्प्राप्यहरीतकीभिवरुजो
नद्यन्तुतेशत्रवः ॥ ७० ॥ मदनपालनिघटौ ॥

भाषानुवाद—अब सब रोगोपर हरीतकी (हर्ड) के अनुपानोंको कहते हैं.
शरद्क्रतुमें मिश्रिके सग हेमतमें सोंठके सग शिशिरमें छोटी पीपलके सग वस-
न्तमें सहतके सग ॥६६॥ ग्रीष्मक्रतुमें गुडके सग और वर्षामें सैन्धव (सेवानोन)
के सग हरीतकी (हिरडा, हर्ड) को खानेसे ॥ ६७ ॥ मनुष्य रोगरहित और
बलवीर्य सहित आयुर्पर्यन्त रहता है, जैसे अग्नि काष्ठको दग्ध करदेती है तैसेही
शरीरके समस्त रोगोंको हरीतकी नाश करदेती है ॥ ६८ ॥ कोई समय अपने
बालकपर माता प्रोत्तित हो जाती है पर ऐसें हरीतकी जाकर कुपित नहीं
होती इस लिये माताके समान-हित करनेवाली हरीतकी (हर्ड) को जानना
चाहिये ॥६९॥ ये निर्गुडी भूगराज और हरीतकी के उक्त अनुपान गोरिका-
चलिका तत्रमें लिखे हैं और हरीतकीके अनुपान इसी प्रकार मदनपालनिघटुमें
भी लिखे हैं ॥ ७० ॥

गुहूच्यनुपानान्याह ।

घृतेनवातंसगुडाविवंधंपित्तसिताद्यामधुनाकफ
ञ्च ॥ वातास्त्रमुग्रंस्वतैलमिश्राशुणठथामवातंश
मयेहुदूच्ची ॥ ७१ ॥ मद० निघं० अमृतास्वर
सोहन्तिक्षौद्रयुक्तोहिकामलाम् ॥ शार्ङ्गधरेण
चोक्त्वाच्छ्रोक्तेयंरचितोमया ॥ ७२ ॥ समधु
च्छन्नास्वरसोनानामेहनिवारणः ॥ वदन्तिभि
पजः सर्वेशरदिन्दुनिभानने ॥ ७३ ॥ वै० जी०

विलासे ४। जीर्णज्वरं कफकृतं कणयासमेतद्विद्धि
न्नोद्भवोऽद्भवकषायक एष हन्ति ॥ रामोदशास्य-
भिवरामङ्गवप्रलंबं रामोयथासमरमूर्धनिकार्तवी-
र्यम् ॥ ७४॥ वै० जी० वि० १। अमृताकाथकलका-
भ्यां सक्षीरं विपचेद्वृतम् ॥ वातरक्तं जयत्याशुकु-
ष्टं जयतिदुस्तरम् ॥ ७५॥ शार्ङ्ग० खं० २ अ० १॥

भाषानुवाद-गुडूचीके अनुपानोंको वर्णन करते हैं धृतके सग वादीके गुडके सग विवध (मलके रुकने) को मिश्रीके सग पित्तको मधु (सहत के सग कफको एरडतैल सग वातरक्तको और सोंठ सग देनेसे आमयातके गुडूची (गुरुच) दूर करती है, ऐसा मदनपाल निघटुमें लिखा है ॥ ७१॥ गुडूचीक स्वरस (गिलीगुरुचसे निकाला हुआ रस) सहतके साथ पिलानेसे कामल (कमल—पीलिया) का नाश करदेताहै ऐसा शार्ङ्गधरजीने स्वसहितामे द्वितीय खडमें किसी एक लोकके चरणमें कहा है, इसलिये यहा हमने लोक वनाव लिखा है ॥ ७२॥ लोलिवराजजी अपनी हीरासे कहते हैं कि हे शरदकृतुके चढ़ मान मुखवाली हीरा ! समस्त वैद्योंका तथा मेराभी यही कहना है कि गुडूचीक स्वरस सहतके सग सेवन करनेसे नाना प्रकारके प्रमेह (परमे) नाना हो जाते हैं ॥ ७३॥ और गुडूची (गुरुच) का काय छोटी पीपलके चूर्ण सग लेने कफकृत जीर्णज्वरको तैसे नाश करता है जैसे रामचन्द्रजी रावणका वरदेवज प्रथं वासुरका और परशुरामजी सहस्रार्णुका नाश करते भये यह वैद्यजीवन लिखा है ॥ ७४॥ गुरुचके काय या कल्कमे दूध सहत वृतको ओटावे जब धी (धी, मात्र शय रह जावे उसे छान डे इसे गुडूचीवृत (अमृतावृत) कहते हैं इसके सेवनसे वातरक्त और कुष्ठ दूर होताहै ऐसा शार्ङ्गधरमे लिखा है ॥ ७५॥

गुडूचीस्वरसः कर्पक्षौ द्रंस्यान्माषको निमित्तम् ॥ से-
न्धवं धौ द्रतुल्यं स्यात्सर्वमेकत्रमर्दयेत् ॥ ७६ ॥
अंजयन्नयनं तेन पिण्डामर्तिभिरंजयेत् ॥ काचं

कंडूलिंगनाशंशुक्लकृष्णगतात्गदान् ॥ ७७ ॥

शार्ङ्ग० खं० ३ अ० १३ ॥

भाषानुवाद—गुरचके १ कर्ष (१० मासे) रसमे १ मासा सहत और १ मासा सेधानोंन मिलाकर खरलकरे और इसको नेत्रमे लगावे तो ॥७६॥ पिछार्म रोग तिमिर (दिनोधी) काचविदु खुजाल लिगनाश और नेत्रके श्वेत तथा काले विभागमे जो बुछ नेत्र रोगहो सो सब दूर होय ॥७७॥ ऐसा शार्ङ्गधरके ३ खटके ॥ १३ ॥ वे अव्यायमे लिखा है ॥

अथ नेत्ररोगेपुनर्नवानुपानानि ।

दुर्घेनकंडूक्षौद्रेणनेत्रस्त्रावंचसर्पिंषा ॥ पुष्पंतैले
ततिमिरंकांजिकेननिशांधताम् ॥ पुनर्नवाजय
त्याशुभास्करस्तिमिरंयथा ॥ ७८ ॥ शार्ङ्ग०
खं० ३ अ० १३ ॥

भाषा०—अब नेत्ररोगपर पुनर्नवा राठी के अनुपानोंकोभी कहते हैं, पुनर्न-
वा को दूधमे धमके नेत्रमे लगानेसे नेत्रोंका खुजाल सहतमे धसकर लगानेसे
नेत्रस्त्राव (नेत्रोंसे जाका वहाव , धीमे धसकर लगानेसे फूँटी तेलमे
झगानेमे तिमिर (दिनोधी) ओर कार्जामे धीसकर लगानेसे नक्काध / रतोधी)
रे सब नेत्रोंके रोग दूर होने हैं ॥७८॥ ये भी शार्ङ्गधरके ३ रे खटके १३ वे
अव्यायमे लिखा है ॥

अथ त्रिफलानुपानानि ।

एकाहरीतकीयोज्याद्वौचयोज्योविभीतिको ॥

चत्वार्यासलकान्येवत्रिफलैषाप्रकीर्तिता ॥ ७९ ॥

त्रिफलाशोथमेहमीनाशयेद्विप्रसज्जवरान् ॥ दीप
तीश्वरप्रित्तमीकुष्ठंहन्त्रीसत्यायनी ॥ सर्पिर्मधुभ्यां
संयुक्तगासेवनेत्रासमयाञ्चयेत् ॥ ८०॥ शार्ङ्ग० खं० २
अ० २। पालत्रिकोद्धवंकाथंगोमूत्रेणोवपाययेत् ॥

वातश्लेष्मकृतं हन्तिशोथं वृष्णि संभवम् ॥ ८१ ॥
 शार्ङ्गं० खं० २ अ० २। क्षौद्रेण त्रिफला काथः
 पीतो मे दोहरः स्मृतः ॥ शीतीभूतं तथोषणां बुमे दोह
 त्क्षौद्रसंयुतम् ॥ ८२ ॥ शार्ङ्गं० खं० २ अ० २।
 त्रिफला रग्वध काथ इशकरा क्षौद्रसंयुतः ॥ रक्त-
 पित्त हरोदाह पित्तशूल निवारणः ॥ ८३ ॥ शा०
 खं० २ अ० २। त्रिफला यारसः क्षौद्रयुक्तो जय
 ति कामलाम् ॥ शार्ङ्गं धरेण चोक्तवाच्छ्वो कोयं-
 चितो मया ॥ ८४ ॥ सृताय त्रिफला यष्टि चूर्णम-
 धु वृत्तान्वितम् ॥ दिनांते लेडि नित्यं सरतौ चटक
 वज्ज्वेत् ॥ ८५ ॥ इति ग्रंथांतरात् ॥

भाषानुवाद—अब त्रिफलाके अनुपान वर्णन करते हैं— १ हरीतर्की (हर्डे
 २ बहेडे ४ आवलेके योग को त्रिफला कहते हैं, अथवा १ भाग हर्ड उससे दून
 बहेडा—उससे दूना आवला इनके योगको त्रिफला कहते हैं ॥ ७९ ॥ त्रिफला चूर्णको नित्य सेवन करनेसे शोथ—प्रमेह—विषमज्वर—कफ—पित्त—कुष्ठ इन सबक
 नाश होता है और अग्निदीप होती है तथा रोगरहित वह मनुष्य होकर अपन
 वृण्णीयुको प्राप्त होता है और उसका वलवर्ती नित्य वर्द्धित हो जाता है इस
 त्रिफला चूर्णको नित्य रात्रि समय सहत और धूके सग यदि सेवन करे
 समस्त नेत्ररोग दूर हो जाते हैं ॥ ८० ॥ और त्रिफलाके काथको गोमूत्र सग पीने
 वादी तथा कफसे उत्पन्न भई पोतोंकी शोथ (सूजन) भी दूर हो जाती है ॥ ८१ ॥
 त्रिफला काथ सहत सग पिलानेसे मेदोवृद्धि दूर करता है और इसी प्रव
 गरम पानीभी ठढ़ा होनेपर सहत सग पीनेसे मेदका नाश करता है ॥ ८२ ॥ ये
 त्रिफलाके काथको बहेटकी भीतरकी गुठली (मींगी बीजा) शर्करा और सग
 पिलावे तो रक्तपित्त दाह और पित्तशूल ये सब दूर होय ॥ ८३ ॥ ये
 शार्ङ्गधरके २ रे खड़के २ रे अध्यायमे लिखा है, यदि त्रिफल

काथको केवल सहत सग विलवे तो कामला दूर होय ऐसाभी शार्ङ्गध-
रजीने अपने ग्रथमे कहीं लिखाहै इस लिये हमने यहा श्लोक बनाकर लिखाहै ॥
॥८४॥ त्रिफला चूर्ण सहत, धी और कातिसार इन तीनोंके सग नित्य रात्रिको
सेवन करे तो वह पुरुष मैथुन (खीसग) जैसे चटक (लाल) मुनियाके सग
करताहै तैसे करे अर्धात् कभी थके नहीं ॥ ८५ ॥

इति श्रीमत्यादितज्ञारसरामात्रिचित्तेसुभाषादविभूषितेऽनुपानद-
र्पणेऽन्नीपद्यनुपानविवेककथने चतुर्थं प्रमोद ॥ ९ ॥

अथातोमृत्युञ्जयादिरसानांधातूपधातूनाश्वानुपा-
नविवेकंव्याख्यास्यासः ॥१॥ मृत्युर्विनिर्जितोय-
स्मात्तेनमृत्युंजयोरसः ॥ मधुनालेहनंप्रोक्तंसर्वज्वर
निवृत्तये ॥ २ ॥ दध्युद्कानुपानेनवातज्वरनिवर्ह
णः ॥ आर्द्रकस्यरत्नैःपानंदासुणेसन्निपातके ॥ ३ ॥
जस्वीरद्रवयोरेनह्यर्जीर्णज्वरनाशनः ॥ अजाजी-
गुडसंयुक्तोविषमज्वरनाशनः ॥ ४ ॥ रसेन्द्रसार
संग्रहेजनराधिकोरचोक्तमिदम् ॥

भाषानुवाद—अब इसके लागे मृत्युजयादि रसोंका तथा सस धातु और
उसोपधातुवोका अनुपानविवेक वर्णन करेंगे ॥ १ ॥ मृत्युको जीतनेसे मृत्युजय
उस कहलायाहै, मृत्युजय रसको मृत्यु (सहत) सग देनेसे सब प्रकारके ज्वर
दूर होते हैं ॥ २ ॥ दहीके जल सग देनेसे वातज्वरका—अदरकके रससग देनेसे
मधुकर सन्निपात वात ॥ ३ ॥ जर्वारद्रव—(जर्वारीका यत्रसे निकालाहुआ अर्क)
उस देनेसे अजीर्णज्वरका और जीरा व गुडसग देनेसे मृत्युजय रस विषम
ज्वरका नाश करताहै ॥ ४ ॥ ऐसा रसेन्द्रसारसग्रहमें ज्वराधिकरणमें लिखाहै ॥

अथवसन्तकुसुमाकररसस्यानुपानानि ।

शिलाजतुमधृपणैः क्षयगदेपुसर्वेष्वपिप्रसेहसजि
रात्रिभिस्तमधुशक्तराभिस्तह ॥ सितामलयजड़

वैर्महतिरक्तपित्तेऽथवासितामधुसमन्वितैर्वृषभपल्ल-
वानां द्रवैः ॥ ५ ॥ त्रिजातगजचन्दनैरपिचतुष्टिपु-
ष्टिप्रदोमनोभवकरः परोवमिषुशंखपुष्पीरसैः ॥
अभीरुरसशक्करामधुभिरस्लपित्तामये परेषु तुयथो
चित्तननुगदेषु संयोजयेत् ॥ ६ ॥ उक्तमिदं ग्रन्थांतरे ॥

भाषानुवाद- अब वसन्तकुसुमाकर रसके अनुपान वर्णन करते हैं- शिलार्जीत
और कालीमिरचके चूर्ण सहित सहतर्म मिलाकर देनेसे समस्त धयरोगोंका-
हल्दी, सहत और मिश्रीसग देनेसे समस्त प्रमेहोंका-मिश्री और चंदनके क्रायसग
देनेसे अथवा मिश्री, मधु और अडूसेके रससग देनेसे अत्यत बढ़तुवे रक्तपित्तका
वसतकुसुमाकर रस नाश करता है ॥ ५ ॥ त्रिजात (तज-पत्रज-इलायची)
गजपीपल और चदनके साथ वसन्तकुसुमाकरको सेवन करानेसे तुष्टि
(हर्ष) पुष्टि (प्रवलता) को देता है और कामदेवको बढ़ाता है, शखाहेलीके
रससग देनेसे घमनका शतावरीके रस मिश्री और सहतसग देनेसे अस्लपित्तका
वसतकुसुमार नाश करता है उक्त रोगोंसे अन्यरोगोंमें वैद्यने अपनी बुद्ध्यनुसार
अनुपानोंकी योजना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ ऐसा प्रथातरमे लिखा है ॥

अथ लोकनाथरसस्यानुपानानि ।

अरुचौनिस्तुषंधान्यं घृतभृष्टं सशक्करम् ॥ दद्यात्-
थाज्वरेधान्यं गुडूचीकाथमाहरेत् ॥ ७ ॥ उशीर
वासककाथं दद्यात्समधुशक्करम् ॥ रक्तपित्तेकफेत्वा
सेकासेच स्वरसंक्षये ॥ ८ ॥ अग्निभृष्टजयाचूर्ण
मधुनानिशिदीयते ॥ निद्रानाशोऽतिसारेच ग्रह-
ण्यामंदपावके ॥ ९ ॥ सौवर्चलाभयाकृष्णाचूर्ण
मुष्णजलैः पिवेत् ॥ शूलेजीर्णेतथाकृष्णामधुयुक्ता
ज्वरेहिता ॥ १० ॥ प्लीहोदरेवातरक्तेछद्यांचैव

गुदांकुरे ॥ नासिकादिषु रक्तेषु रसदाडिमपुष्प
जम् ॥ ११ ॥ दूर्वायास्सवरसंनस्यं दद्याच्छर्कर
यायुतम् ॥ कोलमज्जाकणं वर्हिं पक्षभस्ससशर्कर
म् ॥ १२ ॥ सधुनालेहये च्छर्दिं हिक्काकोपस्यशा
न्तये ॥ विधिरेपश्चयोज्यस्तु सर्वास्मिन्पोटलीरसे
॥ १३ ॥ मृगांकेहेमगर्भेचमौक्तिकाख्येरसेतथा ॥
इत्ययंलोकनाथारख्योरसः सर्वरुजोजयेत् ॥ १४ ॥
शार्ङ्ग० खं० २ अ० १२ ॥

मापानुवाद—अब लोकनाथरसके अनुपानोंको वर्णन चरते हैं । लोकनाथ
इसको अगचिंगगो निस्तुप्रधान्य (छिलहुवे धनियो को धीमे भूजिके उसमे
दाप्र मिलाकर उसके सग देवे, ज्वरमे धनिया और गुरचके क्षायसग देवे
ह ॥ ७ ॥) रक्तपित्त—बफ—धाम—कास—और स्वरभग इनरोगोंमें सहतशक्तयुक्त
खस और जट्टसेके ज्वायसग देवे ॥ ८ ॥ निडानाश अतिसार—सप्रहणी और
भग्नियेम रेमाद्दुर्दि भागके चूर्णको सहतमें मिलाकर उसके सग रात्रिके समय
देवे ॥ ९ ॥ रहू और अजीर्णमे सोचरनोंन हृद और पीपलके चूर्णसग उच्चा-
जलमें देवे, व्यरमें सहत और छांटीपीपलसग देवे ॥ १० ॥ प्रीहोदर—वातरक्त—
दग्धी—गुदावूर और नवासीर (नासिकासे रक्त गिरना), इन रोगोंमें टाटिम-
पुष्परमसग देवे ॥ ११ ॥ तथा नासिकासे रुधिरम्बावमे द्रूवका रस शब्दर
महित नाकमे सुप्रावे, वेरकी मीरी पीपल—मोरपखके चदबोकी भरग इन
सप्रवा मरीनचूर्ण शर्करा सहित ॥ १२ ॥ सहतमें मिलाकर इसके सग
लोकनाथरसको उलटी (वाति) रोग और टुचकोमें देवे तो इन अनुपानोंसे
उत्ता समग्ररोगोंका यह लोकनाथरस नाश करता है, जैसी अनुपानविधि
लोकनाथरसकी करती है वेमीही पोटलीरमकी ॥ १३ ॥ मृगाककी जार
प्रातिष्ठरमकी गी जानो, यह लोकनाथरस समस्त रोगोंको दूर करनेवाला
है ॥ १४ ॥ ऐसा शार्ङ्ग० भरसहिताके दूसरे खट्के १२ वे अन्यायमें लिखा है ॥

अथ स्वर्णमालिनीवसन्तरसस्यानुपानानि ।
जीर्णज्वरेधातुगतेऽतिसारेरक्तान्वितेरक्तजद्विष-
रोगे ॥ घोरेद्यथेपित्तकृतेऽथरोगेवलप्रदोदुग्धयुतं
चृपथ्यम् ॥ १५ ॥ वसन्तोमालिनीपूर्वःसर्वरोग
हरः शिशोः ॥ गर्भिण्यादेयमेतच्चजयन्तीपुष्पकै
र्युतम् ॥ सर्वज्वरहरंश्रेष्ठंगर्भपालनमुक्तमम् ॥ १६ ॥
ग्रंथांतरेचोक्तमिदम् ॥

भाषानुवाद—अब स्वर्णमालिनीवसन्त (जिसे अनभिज्ञ लोग सुवर्णवसन्त मालतीभी कहते हैं उस) के अनुपानोंको वर्णन करते हैं—स्वर्णमालिनीवसन्तके छोटी पीपल और सहत सग सेवन करनेसे जीर्णज्वर धातुगतज्वर रक्तातिसार अत्यन्त पीड़ायुक्त रक्तज नेत्ररोग और पित्तजनित सर्व रोग दूर होकर बलयुक्त वह मनुष्य होजाता है इससे दुग्ध युक्त पथ्य देना चाहिये ॥ १९ ॥ यह स्वर्ण-मालिनीवसन्त रस उक्त अनुपानसेही वालकोंके रोगोंको दूर करता है और जयन्ती पुष्पके साथ देनेसे गर्भिणी स्त्रीके ज्वरको दूर करके गर्भकी रक्षा करता है ॥ १६ ॥ ऐसा प्रथान्तरमें लिखा है ॥

अथ वृहन्मालिनीवसन्तरसस्यानुपानानि ।
वल्लप्रमाणंमधुपिष्पलीभ्यांजीर्णज्वरेधातुगतेप्रदेयः ॥
छिन्नोद्धवासत्त्वसितायुतश्वसर्वप्रमेहेषुचयोजनीयः ॥
॥ १७ ॥ कृच्छ्रात्मरीनिहन्त्यागुमातुलुंगार्दकद्रवैः ॥
रसोवसन्तनामायंमालिनीपदपूर्वकः ॥ १८ ॥ भैष-
ज्यसारामृतसांहितायामुक्तम् ॥

भाषानु०—अब वृहन्मालिनीवसन्तरसके अनुपानोंको वर्णन करते हैं—रतीभर वृहन्मालिनीवसन्तरसको सहत और छोटी पीपलके सग सेवन कराने जीर्णज्वर और धातुगतज्वर दूर होय गुरच (गिलोय) सत्त्व और मिश्रीसं

देनेसे प्रमेहमात्र दूर होय ॥ १७ ॥ अदरकका रस और विजोरेके रसके साथ देनेसे मूत्रकुच्छ और पथरी दूर होय ॥ १८ ॥ यह वृहन्मालिनीवसन्तरस भेषज्यसारामृतसाहितामें लिखा है ॥

अथ पाशुपतरसस्यानुपानानि ।

तालमूलीरसेनैवह्युद्रामयनाशनः ॥ मोचारसे
नातिसारंग्रहणीतक्रसैधवैः ॥ १९॥ सौवर्चलकणा
शुंठीयुतशूलंविनाशयेत् ॥ अर्शासिहन्तितक्रे
णपिप्पल्याराजयक्षसकम् ॥ २० ॥ वातरोगानिहं
त्याशुशुण्ठीसौवर्चलान्वितः ॥ २१॥ शर्कराधान्य
योगेन श्लेष्मरोगञ्चतत्क्षणात् ॥ अतः परतरोगा
स्तिधन्वंतरिमतोरसः ॥ २२ ॥ रसेन्द्रसारसंग्रहे
जीर्णाधिकारेचोक्तम् ॥

भाषानुवाद—अब पाशुपतरसके अनुपानोंको वर्णन करते हैं—तालमूलके रससग उदररोगका—मोचरससग अतिसारका—छाछ और सेधेनोंन सग संग्रहणीका ॥ १९॥ सोंचरनोंन—पीपल और सोंठ सग शुलका केवल छाछसग अर्श (मसे—मूलब्यावि—बवासीर, का छोटीपीपल सग राजयक्षमा (क्षयी), का ॥ २०॥ सोंठ और सोंचरनोंन सग वातरोगका—मिश्री और धनियेसग पित्तरोगका॥ २१॥ छोटीपीपल और सहत सग देनेसे कफरोगका पाशुपतरस नाश करता है, इससे उत्तम बोई दूसरा रस नहीं ह इसे धन्वंतरिजीने सर्वोत्तम रस माना है॥ २२॥ ऐसा रसेन्द्रसारसप्रहमे अजीर्णाधिकारमें लिखा है ॥

अथ पर्षटीरणस्यानुपानानि ।

सहिंगुजीरकव्योपैश्शामयेन्द्रहणीरसः ॥ दशमू.
- लांभसावात्त्वरंत्रिकट्टुनाशकम् ॥ २३॥ ज्वरंमधु
- कृतरंगपंचकालेन्तर्देजम् ॥ यद्माणंमधुपिप्पल्या
- गोमृत्रेणगुदाकुरान् ॥ २४॥ शूलेचैर्डतेलेनपाण्डु

शोथंसगुगुलुः ॥ कुष्टानिभंगभल्लातवाकुचीपञ्च
निंवकैः ॥ २५ ॥ धत्तूरवीजसंयोगान्महोन्मादवि
नाशिनी ॥ अपस्मारंनिहन्त्याशुद्योपनिंवदलै
स्सह ॥ २६ ॥ स्तनंधयशिशूनांतुनितरांपर्पटीहि
ता ॥ पथ्यायाश्रूणसंयुक्ताव्याधींश्चान्यान्सुदुस्त
रान् ॥ २७ ॥ ग्रंथातरेचेदमुक्तम् ॥

भाषानुवाद—अब पर्पटीरसके अनुपानोंको वर्णन करते हैं—हींग—जीरा
और त्रिकटु (सोंठ मिरच पीपल) सग देनेसे सप्रहणीको दशमूलके काय
संग देनेसे वातज्वरको त्रिकटु सग देनेसे कफको ॥ २३ ॥ मुलहटीके सारसग
देनेसे ज्वरको पचकोलके काढे सग देनेसे सब प्रकारके ज्वरको सहत और
छोटी पीपल सग देनेसे क्षयीको गोमूत्र सग देनेसे अर्शको ॥ २४ ॥ एरड तेल
सग देनेसे शूलको गुगुल सग देनेसे पादु और शोथको भगरा भिलावा बावची
ओर नींवका पचांग इनके सग देनेसे कोढको ॥ २५ ॥ धत्तूरेके वीजों सग देनेसे
उन्मादको त्रिकटु और नींवके पत्तों सग देनेसे मृगीको पर्पटी रस दूर करता
है ॥ २६ ॥ यह रस दूध पीनेवाले वालकोंको अत्यत हितकारीहै और हिडेंके चूर्ण
सग सेवन करनेसे यह पर्पटी रस अनेक प्रकारकी व्याधियोंका नाश करता है
॥ २७ ॥ ऐसा ग्रंथातरमे लिखा है ॥

अथ जयाजयन्त्योरनुपानानि ।

जयन्तीवाजयावाथक्षीरैः पित्तज्वरापहा ॥ मुद्दा
मलक्यूपेणपथ्यंदेयंघृतंविना ॥ २८ ॥ जयन्तीवा
जयावाथसक्षीद्रमरिचान्विता ॥ सन्निपातज्वरंह
न्तिरसश्चानंदभैरवः ॥ २९ ॥ जयन्तीवाजयावाथ
विषमज्वरनुद्घृतैः ॥ सर्वज्वरंमधुव्योर्धेगवांमूत्रेण
शीतकम् ॥ ३० ॥ चन्दनस्यकपायेणरक्तपित्तज्व

रापहा ॥ जयंतीवाजयावाथसाक्षिकेणचकास
जित् ॥ ३१ ॥ जयन्तीवाजयावाथतण्डुलोदकपा
नतः ॥ अश्मरींहन्तिनोचित्रंसूत्रकूच्छन्तुदारुण
म् ॥ ३२ ॥ जयन्तींवाजयावाथगोमूत्रेणयुतां
पिवेत् ॥ हन्त्याशुकाकणंकुष्ठंसुलेपेनचतद्दुतम्
॥ ३३ ॥ द्विनिष्कंकेतकीमूलंपिष्ठातोयेनपाययेत् ॥
जयंतीवाजयावाथमेहंहन्तिसुराहृथम् ॥ ३४ ॥
जयन्तीवाजयावाथ मधुनामेहजिञ्चवेत् ॥ लोध
मुस्ताभयात्तुल्यंकटफलंचजलैःसह ॥ ३५ ॥ का
थयित्वापिवेच्चानुसधुनासर्वमेहजित् ॥ जयंती
वाजयावाथगुडैःकोष्णजलैःपिवेत् ॥ ३६ ॥ त्रि
दोपोत्थंहरेदुलसं रसश्चानन्दभैरवः ॥ जयंतीवा
जयाहन्तिशुंछ्यासर्वभगंदरम् ॥ ३७ ॥ जयंती
वाजयावाथ तक्रेणप्रहणीप्रिणुत् ॥ जयंती-
वाजयावाथरसश्चानन्दभैरवः ॥ ३८ ॥ रक्त
पित्तेत्रिदोपोत्थेशीततोयेनपाययेत् ॥ जयन्तीवा
जयावाथभृंगद्रावैर्निशांध्यनुत् ॥ ३९ ॥ जयन्ती
वाजयावाथघृप्तास्तन्येनचांजयेत् ॥ स्नावणंसर्व
दोपोत्थंसांसवृष्टिचत्ताशयेत् ॥ ४० ॥ कृत्स्नमिदं
सुक्तंरसेन्द्रसारसंयंहज्वराधिकारे ॥

भाषानुवाद—अब जयाजयनी वटीके अनुपानोंको वर्णन करते हैं—जया तथा
जयती वटी दूधके सग देनेसे पित्तज्वरका नाश करती है, इसपर घृत विनापथा
गृग और जामनोंके गूम्फाव देना चाहिये ॥ २८ ॥ काली मिरच और
तटत नग जया तथा जयतीको देनेमें नन्निपातज्वर दूर होय और इसी अनु-

पानसे आनदभैरव रसभी सज्जिरातका नाश करता है ॥ २९ ॥ वृत्तसग विषम उरका त्रिकटु चूर्ण और सहत सग समस्त उरमात्रका गोमूत्र सग गीतउरका ॥ ३० ॥ चदन क्वाथसग रक्तपित्तउरका सहतसग खांसाका ॥ ३१ ॥ दूध सग पाडु और शोथका चावलोंके पानीसंग देनेसे पथरी और मूत्रकुच्छका जया तथा जयती वटी नाश करती है ॥ ३२ ॥ यदि जया अथवा जयतीको गोमूत्र सग सेवन करावे और गोमूत्रमें घसकर कुष्ठपर लेप लगावे तो काकणकुष्ठ दूर होय ॥ ३३ ॥ दो निष्क (८ मासे) केतकी मूलको पानीमें पीसकर उसके संग जया तथा जयतीको देवे तो सुराप्रमेह दूर होय ॥ ३४ ॥ सहतसग अथवा लोट नागर-मोथा हड्ड और कट्टफल ॥ ३५ ॥ इनके मधुयुत क्वाथ सग जया तथा जयतीका सेवन करानेसे समस्त प्रमेह मात्र दूर होय गुड और कुछ२ गरम पानीके सग जया या जयतीका सेवन करानेसे ॥ ३६ ॥ त्रिदोषज गुल्म दूर होय, और इसी अनुपानसे आनदभैरव रसभी नाश करता है. जया तथा जयतीको सोंठ सग देनेसे भगदर मात्र दूर होय ॥ ३७ ॥ जया तथा जयतीका छाछ सग सेवन करानेसे सप्रहणी दूर होय जयन्ती जया तथा आनदभैरव ॥ ३८ ॥ इनमेंसे किसी एककं ठडे जलके साथ देवे तो त्रिदोषज रक्तपित्त दूरहोय और जया तथा जयन्तीको भगरेके रस सग देनेसे रतोधीका नाश होय ॥ ३९ ॥ जया तथा जयन्तीको स्त्रीके दूधमें घसकर नेत्रमें लगानेसे नेत्रस्थाव मासवृद्धि और सर्व दोषज कर्णरोगभी दूरहोय ॥ ४० ॥ ये सब रसेंड्रसार सप्रहमें ज्वराधिकारमें लिखा है ॥

अथ सुवर्णभस्मानुपानानि ।

मत्स्यपित्तस्ययोगेनस्वर्णतत्कालदाहजित् ॥ भृ
ङ्गयोगाच्चतद्वप्यन्दुरधयोगाद्वलप्रदम् ॥ ४१ ॥ पुन
र्नेवायुतंनेत्र्यंधृतयोगेरसायनम् ॥ स्मृत्यादिकृ
द्वचायोगात्कान्तिकृत्कुमेनच ॥ ४२ ॥ राजय
ध्माणंपयसानिर्विष्याचविषंहरेत् ॥ शुण्ठीलवंग
मारचैस्त्रदोषोन्मादहारकम् ॥ ४३ ॥ मध्वाम
लकचृणन्तुसुवर्णचेतितत्रयम् ॥ प्राद्यारिष्टगृही

तोपिं मुच्यते शाण संकटात् ॥ शंख पुष्प्या वयोर्धच
विदार्थ्या च प्रजार्थकः ॥ ४४ ॥ इति ग्रन्थान्तरात् ॥

भाषानुवाद—अब सुवर्णभस्मके अनुपान वर्णन करतहै—स्वर्ण भस्म मत्स्य-
पित्ता औपधीके साथ सेवन करनेमें तत्क्षण दाहको दूरकरे भगरेके रससग सेवन
करनेमें स्वीप्रसग (मैथुन—मभोग—महवास) में हितप्रद होय दुग्ध सग सेवनसे
बल बढ़ावे ॥ ४१ ॥ साठीके साथ नेत्रोंको हित करे घृतसग सेवनसे
वयस्यापन—आयु—त्रल—बुद्धिकी बृद्धि और समस्त रोगनिवृत्ति करे वचके
साथ मेवनमें बुद्धि बढ़ावे केशर सग सेवनसे काति (तेज) को करे ॥ ४२ ॥
दुग्धसग राजयक्षमा (क्षयी) को हरे निर्विषी निर्विष सग विषरोगको और
मोठ—लोंग—काली मिरचीके साथ सेवनसे त्रिदोषजन्य उन्माद (खपतीपने)
को दूर करे ॥ ४३ ॥ आमलेके चूर्ण और सहत सग स्वर्णभस्म सेवन
करनेसे प्रवल व्यापिगृहीत रोगीभी प्राणसकटसे छूट जावे अर्थात् आरोग्य
होय शखाहुलीके साथ सेवन करनेसे आयु बढ़ावे और विदारीकदके साथ
सेवनसे स्वर्णभस्म पुत्रप्रद हाताहै ॥ ४४ ॥ ऐसा ग्रन्थातरमें लिखा है ।

अथ रौप्यभस्मानुपानानि ।

भस्मीभूतं रजतमस्मलं तत्समं व्योमभानुः सर्वैस्तु
ल्यं त्रिकटुरसवरं सारमाज्येन युक्तम् ॥ लीढं प्रातः
अपयति नृणां यक्षमपाण्डूदरार्द्धश्वासान्कासान्न
यनति मिरं पित्तरोगानशेषान् ॥ ४५ ॥ इति
ग्रन्थान्तरात् ॥

भाषानुवाद—अब रौप्य (चारीकी) भस्मके अनुपान वर्णन करतहै चारीकी
भस्म सगान अस्त्र और ताष्ठभस्म लेंवे और इन सवके समान त्रिकुटाका
एन अयगा चूर्ण लेंवे और इन सवमें कुछ अनुपानानुमार लोह भस्म योजित
परके इन सवको घृतमें मिला कर प्रातःकाल सेवन करे तो क्षयी—पाहु—
भर्ग—श्वास—कास नेत्रोंका तिमिर और पित्तरोग ये सब दूर होंगे ॥ ४५ ॥
ऐसा ग्रन्थातरमें लिखा है ॥

इतऊर्ध्वमथताभ्रभस्मानुपानानीतः प्राग्नेकायु
 वेदीयं थाशयान्मन्त्रिर्मिताः श्लोकाः ॥ दाहं
 शर्करया हन्त्यनिलं पित्तं च श्रेष्ठया ॥ त्रिजाते न प्रमे
 हांश्च गुल्मान्क्षारे णहन्ति वै ॥ ४६ ॥ कासेकफेवा
 सकस्यरसेत्यूषण संयुते ॥ उवासेपद्माविश्वयुतं
 क्षयजिद्विरिजेन वै ॥ ४७ ॥ रजतं भस्मीभूतं क्षीणे
 पयसासदासमं पेयम् ॥ पलभोजिनां च पुंसां पिशि
 तरसेन भिषजाथ वादेयम् ॥ ४८ ॥ मृतरौप्यं
 वराकृष्णासंयुतं नात्र संशयः ॥ यकृत्पीह हरं प्रोक्तं
 यथाबलहराबला ॥ ४९ ॥ शोफेपृथ्वीकेन देयं सु
 वै वैः पांडौ मंडूरे णसार्च्छतूर्णम् ॥ भस्मीभूतं रौ
 प्यमाज्येन युक्तं ज्ञेयं कांति क्षुत्करं विस्त्रिसा हम् ॥ ५० ॥

भाषानुवाद-—अब इसके आगे ताम्रभस्मके अनुपानसे पूर्व जितने क्षोकहैं वे सब अनेक वैद्यक ग्रथोंके मतसे हमने बनाये हैं—मिश्री सग टाहका—त्रिफला सग वात और पित्तका—तज, पत्रज इलायचीके चूर्णसंग प्रमेहका—क्षार सग गुल्मका ॥ ४६ ॥ सोंठ—मिरच और पिपलके चूर्ण युक्त अडूसेंके रससग कासी और कफका भारणी और सोंठ सग श्वासका और शिलाजीत सग रौप्यभस्म क्षयका नाश करता है ॥ ४७ ॥ क्षीणतामें रौप्यभस्म दुग्धके साथ पिलावे और मास भक्षण करनेवाले मनुष्योंको क्षीणताम मासरसके साथ रौप्य भस्म वैद्य देवे तो क्षीणता दूर होय ॥ ४८ ॥ त्रिफला और छोटी पीपलके चूर्णसहित रौप्यभस्म यकून और शीहारोगका नाश करता है जिसे क्रीटासे पुरुषके बलका नाश स्त्री कर देता है तैसे ॥ ४९ ॥ शोथरोगमें पुनर्नवा (साठी) के साथ और पाढ़ुमें मटूरके सग रौप्यभस्मको वैद्यने देना चाहिये और घृतयुक्त रौप्यभस्म काति तथा क्षुत्वाक घृद्वि और जरा [वुढापे] का नाश करता है ॥ ५० ॥

अथ ताम्रभस्मानुपानानि ।

दुर्धंखण्डश्चालुपानंश्चदद्यात्साज्यंभोज्यंत्याज्यस्म
स्लेनयुक्तस् ॥ वीर्यपुष्टिदीपनंदेहहदार्थदिव्याद्वा
ष्टिर्जायिते कासरूपस् ॥ ५१ ॥ पूर्वेषास्तसा
लोक्यवैद्यशाधुनिकैर्वृधैः ॥ स्वबुद्ध्यादापयेत्ता
झंरोगनाशनवस्तुभिः ॥ ५२ ॥ इतिग्रंथान्तरात् ।

भापानुवाद.—अब ताम्रभस्मके अनुपान वर्णन करते हैं-एक रत्ती ताम्रभस्म
क्षमरसके रस सग सहत और धृतयुक्त नित्य सेवन करके ऊपरसे मिश्वीयुक्त दूध
पीवे तथा धृतयुक्त मिष्टपक्वान्न खावे और खड़े पदार्थोंको न खावे तो वीर्यपुष्ट—
अग्नि दीपन देहदृढ़-दिव्यदृष्टि और कामदेवके समान सुदरता होय ॥ १ ॥ ताम्र-
भस्मको नमरतरांगोपर छोटी पीपल और सहत संग देवे अथवा प्राचीन
वैद्योंके मतानुसार अपनी बुद्धिसे रोगनाशक वस्तुओंक साथ आधुनिक वैद्यने
ताम्रभस्मको देना चाहिये ऐसा यथातरमे लिखा है ॥ २ ॥

अथ वङ्गभस्मानुपानानि ।

जातीफलेनेतिकरोतिपुष्टिवक्तेसुगंधिस्फटिकेनचो
क्तम् ॥ प्राचीनवैद्यमृतरङ्गकोऽतःश्लोकोमयाऽ
यरंचितोऽत्रनूतस् ॥ ५३ ॥ तुलसीपत्रसंयु
क्तः प्रसेहनाशयेद्धुवस् ॥ धृतेतपांडुरोगंचटंक
णौरुल्सनाशनस् ॥ ५४ ॥ निशायारक्तपित्त
भृमधुनावलवृद्धिकृत् ॥ खंडयासहपित्तमनाग
वल्लयाचवन्धनस् ॥ ५५ ॥ पिप्पल्याचामिसां
दत्त्वंनिशयाचोर्ध्वद्वासहत् ॥ चंपकस्वरसेनैव
दुर्गंधिनाशयेद्धुवस् ॥ ५६ ॥ निंवकस्वरसेना
दपंदेहेद्वनशांतये ॥ वस्तूरीसंयुक्तवंगभक्षणा

द्वीर्यरोधकृत् ॥ ५७ ॥ खदिरकाथयोगेनचम्म
 पाक्षेमलैस्सह ॥ पूर्णफलेनसाञ्चाऽजीर्णनाश
 यतेक्षणात् ॥ ५८ ॥ नवनीतसमायुक्तमस्थिजीर्ण
 नवंभवेत् ॥ दुर्घसाञ्चंभवेत्तुष्टिर्जययास्तंभनंभ
 वेत् ॥ ५९ ॥ लशुनैर्वातजांपीडांनाशयेन्नात्रसं
 शयः ॥ समुद्रफलसंयोगान्निर्गुणज्यासहभक्ष
 णात् ॥ ६० ॥ कुष्ठनाशयतेक्षिप्रांसिंहनादेमृगा
 इव ॥ आघाटजटिकायोगात्षण्डत्वंनाशये
 दध्रुवम् ॥ ६१ ॥ देवपुष्पस्यसंयोगात्समुद्रफल
 योगतः ॥ नागपत्ररसैलेपालिंगवृद्धिःप्रजायते
 ॥ ६२ ॥ गोरोचनलवंगेनतिलकान्मोहनंभवे
 त् ॥ एरंडजटिकायोगेधर्षयित्वाचवंगकम् ॥ ६३ ॥
 लेपयेच्चललाटैवैतदाशीर्षगदंजयेत् ॥ कौबजेऽपा
 मार्गमूलेनप्लीहेटंकणसंयुतम् ॥ ६४ ॥ रसोनैल
 युड्जनस्यमपस्मारनिषूदनम् ॥ पुत्राप्त्यैरासभीक्षी
 रैस्तक्राढ्यंवातगुल्मनुत् ॥ ६५ ॥ यवानिकायुतं
 वातेवाजिगंधायुतंतुवा ॥ जलोदरेत्वजाक्षी
 रसंयुतंगुणकृञ्चवेत् ॥ जातीफलाश्वगंधाभ्यांकटि
 पीडानिवारणम् ॥ ६६ ॥ इति ग्रंथांतरात् ॥

भाषा ०—अब वगभस्मके अनुपान वर्णन करते हैं प्राचीन वैद्योंने ऐसा
 कहता है—कि वगभस्म जायफलके सग पुष्टा और कपूरके सग मुखमें सुगधि
 करता है इसलिये हमने यहां यह क्षोक बनाकर लिखा है ॥ ६३ ॥ तुलसीपत्र सग प्रमे-
 हका वृत्तसग पाँडुका—मुहागे सग गुल्मका ॥ ६४ ॥ और हलदी सग देनेसे वग

भस्म रक्तपित्तका नाश करता है, सहतसग देनेसे वल बढ़ता है मिश्री सग पित्तका नागरवेलके पानसग दहक जकड़नेका ॥५५॥ पिष्ठली सग अग्निदका-हलदी सग ऊर्ध्व श्वासका—चपाके रससग दुर्गधिका ॥५६॥ और निंबके या नीबूके रस सग दाहका नाश करता है, कस्तूरीके भग वगभस्म सेवनसे वीर्यस्तम होता है ॥५७॥ खैरके क्षाथ और पक्षिमल सग देनेसे चर्मरोगका-सुपारीसग अजर्णिका ॥५८॥ और मवखन सग अस्थिजीर्ण (हड्डियोंकी जीर्णता) का नाश करता है, दुग्ध सग तुष्टि और भाग सग देनेसे वगभस्म स्तम्भन करता है ॥५९॥ लहसुनसग वातव्याधि समुद्रफल और सभाद्धके सग देनेसे ॥६०॥ कुष्ठका और चिरचिद्वाकी जड़के साध देनेसे नपुसकताका नाश करता है ॥६१॥ लोंग—समुद्रफल और वगभस्मको नागरवेलके पानके रसमें खलकरके लिंगपर लेप करे तो लिंग वृक्ष होय ॥६२॥ वगभस्मको गोरोचन और लवगमे मिलाकर तिलक करनेसे समोहन होय और एटमूलसग वगभस्म घसकर ॥६३॥ ललाटपर लगानेसे शिरपीटा दूरहोय, कुञ्ज (कुवडेपनके) रोगमें ऊगा (आधाझाडे) की जड सग तापतिल्लिमें सुहागेके सग ॥६४॥ यदि लहसुनके तैलमें वगभस्म मिलाकर नास देवे तो मृगी (अपस्मार) दूर होय, पुत्र प्राप्तिके लिये गधीके दूध सग वायगोलेमें छाउसग ॥६५॥ वादोमें अजवान अथवा आसगध सग जलोदरमें बकरीके दूध सग और कटि (कमर) के दुखनेमें जायफल और आसगध सग वगभस्म देना चाहिये ॥६६॥ ऐसा प्रथातरमे लिखा है ॥

अथ जसदभस्मानुपानानि ।

दृणुसखेजसदस्यवदास्यहंसुखकरंह्यनुपानमरंवर
म् ॥ विविधतंत्रमतंसुविचार्यैवैनिधनगस्यगदाप
हरंनृणाम् ॥ ६७॥ जसदभस्मजयेत्रिसुगंधिनान
लुसखेत्रिमलोद्धवसासयम् ॥ हरतिशालिहिसेन
तथाज्वरंसहमृदुच्छद्यालघुसायुजम् ॥ ६८॥ शिख
रदीप्ययुतंशमयेज्ज्वरंजसदभस्मसखेदृणुशीत

जम् ॥ रुधिरजंत्वतिसारगदंवर्मिकणसितायुतमा
शुनिहन्तिवै ॥ ६९ ॥ मथरसेनधनंजयमन्दतानय
नरोगमथोषसिचांजितम् ॥ सृष्टिकथाध्वुवमाशुस
खेथवाहरतिगोहविषाप्रतनेनवै ॥ ७० ॥ सुभसितं
ह्यशितंजसदंयदालघुनिहन्तचमेहगदंतदा ॥ अ
हिलतादलयुक्तमिदंसदासहसखेमहिषीहविपा-
थवा ॥ ७१ ॥ शिखरदीप्यकणौश्वसशकरैर्हरतिशू
लगदंहिभयानकम् ॥ सहकवोषणयवानिकयास
खेजयतिचाशुविवंधगदध्वुवम् ॥ ७२ ॥

भाषानुवादः—जसदभस्मअनुपान—हे मित्र ! मनुष्यके रोग हरनेवाला और
सुख करनेवाला जो जसदभस्मका अनुपान उसे मैं अनेक ग्रथोंके मतको विचार-
के वर्णन करताहूँ तू सुन ॥ ६७ ॥ तज, पत्रज और इलायचीके साथ विदो-
पका चापलोंके हिम और खर्जूरके साथ पित्तज्वरका जसदभस्म नाश करताहै ॥ ६८ ॥ हे मित्र । औरभी सुनिये ल्वग और अजवान सग शीत ज्वरका तथा
जीरा और शक्ति सग जसदभस्म रक्तातिसार और नमन (उलटी) का शीघ्रही
नाश करताहै ॥ ६९ ॥ अग्नी (धग्निमय) के रससग मदाम्रिका और प्रात-
न खाड़ वा सीमुके सग अथवा पुराने गोवृत्त सग अजन करनेमें नेत्ररोगका
जसदभस्म नाश करताहै ॥ ७० ॥ हे मित्र ! तांगुल (नागरबेलके पान) सा-
प्तया भैमके पीसग सेवन करनेमें जसदभस्म शीघ्रही प्रमह (परमा) का
नाश करताहै ॥ ७१ ॥ वर्षगासहित ल्वग अजवान और जीरे साथ भयानक
शूद्र तथा अजवान वीर कुछ उण्यानी सग विनरोग (मलकी रक्तान्त-
कर्त्ती) का जसदभस्म नाश करताहै ॥ ७२ ॥

वथ नागानुपानानि ।

मृतंनागंवायुंहरतिमहमायुश्चमितया शिरोरोगं
वाहंव्यन्वचिमयनेत्रामयमगम ॥ प्रलापंसन्तापं

विविधगदत्तापंजयतिवै सखे देयं वैद्यैर्ननुगदग
णेऽन्येस्वस्मतिना ॥ ७३ ॥

भाषा०--अब नागभस्मके अनुपान वर्णन करते हैं—मिश्री साथ वातपिन एपीटा दाह अस्चि नेत्ररोग प्रलाप सन्ताप और अनेक रोगजन्य पीड़ाको भास्म दर करता है और हे मित्र ! इनसे व्यतिरिक्त रोगोपर वैद्योने ध्वनी द्वेषे विचारके अनुपानके साथ नागभस्मको देना चाहिये ॥ ७३ ॥

अथ लोहानुपानानि ।

लोहंसृतंसर्वगदेषुदेयंसदासुवैद्यश्वपलेनसाकम् ।
भार्ज्ञीमधुव्योषयुतंजयेद्वृक्त्स्नंतथाधातुविकार
माशु ॥ ७४ ॥ पुनर्नवाकाथयुतश्वपाण्डुमेहनिशा-
क्षोद्वयुतंजयेद्वै ॥ कणासधुभ्यासथवानराणांशौ-
लेययुक्तंननुसूत्रकृच्छस् ॥ ७५ ॥ नूनंकफंगंधर
सेन्द्रसाधिकैस्सार्ज्ञचतुर्जातिसितान्वितंजयेत् ॥
वेरक्तपित्तंसृतलोहसाशुकुर्यात्पुनर्भूपयसात-
थावलम् ॥ ५६ ॥ द्राक्षाकणासिंहकमाधिकैः
कृताश्वासंजयेद्वृशुटिकासुखेधृता ॥ पारावतस्या
धसृतस्यसेवनान्सत्योभवेच्चासयहीनविग्रहः ॥
॥ ७७ ॥ जसदानुपानादारभ्यलोहानुपानपर्यं
न्तंसत्खृतिरियंज्ञेयाऽनेकायुर्वेदीयध्रुथाशयात् ॥

भाषा०—अब लोहभस्मके अनुपान वर्ण करते हैं—वैद्योने लोहभस्मको सब रोगोंसे समस्त मम्बार छुड़ पारे भग जधवा पारदभस्म सग सदा देना याहिये और नारगी—महत—ज्योप (सोंठ-मिरच-पीपल) इन सहित लोहभस्म समस्त पातुविशारको दूर करता है ॥ ७४ ॥ पुनर्नवा (साठी , के छाथ सग पार्खों हलडी और महत सग जधवा पीपल और सहत सग प्रमेहको और

शिलाजीत सग मूत्रकृच्छ्रको लोहभस्म दूर करता है ॥ ७५ ॥ शुद्ध गधक शुद्ध पारा और सहत सग कफका तज-पत्रज-इलायची-नागकेशर और मिश्री सग लोहभस्म रक्तपित्तका नाश करता है और साँठी (पुनर्नवा) के चूर्णयुक्त दूध सग बलरीयकी वृद्धि करता है ॥ ७६ ॥ दाख (मनुका) पीपल अरुणा और सहत सग लोहभस्मकी गोली बनाकर उखमें रखनेसे सब प्रकारका श्वास दूर होजाता है और सर्वदा ताबूलादियुक्तानुपान सग लोहभस्मके सेवनसे मनुष्य रोगरहित आरोग्यसहित होजाता है ॥ ७७ ॥ जसदभस्मके अनुपानसे लेकर लोहभस्मानुपानतक ये सब श्योक मैंने अनेक वैद्यक प्रन्थानुसार बनायेहैं ॥

अथ स्वर्णमाक्षिकानुपानानि ।

अनुपानं वराव्योषं तीक्ष्णं साज्यं हिमाक्षिकम् ॥ ७८ ॥

भापानुवादः—अब स्वर्णमाक्षिकके अनुपान वर्णन करते हैं—त्रिफला (हर्ट-बहेडा—आमडा) व्योप (सोठ-मिरच-पीपल) केवल काली मिरच मक्खन और सहत ये सोनामक्खीके अनुपान हैं अर्थात् किसी रोगपर सोनामक्खी को देना हो तो उक्तमनुओंके साथ दे ॥ ७८ ॥

अथ रौप्यमाक्षिकानुपानानि ।

लीढोव्योमवरान्वितोविमलकोयुक्तोवृत्तैस्सेवि
तोहन्याद्वुर्भग्नुज्जवराज्जवयथुकं पांडुप्रमेहारु
चिम् ॥ मूलान्तियहणीथशूलमतुलंयक्षमामयं
कामलां सर्वान्पित्तमरुददान्कमपरैयोग्नेरशेषा
मयान् ॥ ७९ ॥ विपव्योपवराज्येनविमलः सेवि
तोवदि ॥ भग्नदरादिकारोगानृणां गच्छन्ति दु-
म्नगः ॥ ८० ॥ इति ग्रंथांतरात् ॥

माया०—अब रौप्यनायिकके अनुपान वर्णन करते हैं—अधक—त्रिफला-
मीठे नक्खनके सब स्पानमर्दाकी भम्फो मानसे—स्वव्यपका नाम

करनेवाली जरा (वृद्धापन) शोथ पाहु-प्रसेह-अरुचि-अर्श (ववासीर , सग्रहणी-भयकरशूल-राजयक्षमा / थपी कामला (पीलिया , और सर्व पित्तज तथा वातज रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार पृथक् २ अनुपानेसे रुपामकखीकी भस्म समस्त रोगमात्रोंको दूर करतीहै ॥ ७९ ॥ तथा सिगियाविष-त्रिकटु त्रिफला और धीके साथ रुपामकखीकी भस्म सेवन करनेसे भगदर आदि असाध्य रोगभी दूर होय ॥ ८० ॥ ऐसा ग्रथांतरमें उक्त अनुपान लिखे हे ॥

अथ तुत्थानुपानानि ।

पृतेनकण्डुविषकुष्ठरोगास्तांबूलयोगेनकफंतथो
ग्रम् ॥ कृसिंकृसिम्बेनचतुत्थभस्मक्षौद्रांजितंनेत्र
गदंजयेद्वै ॥ ८१ ॥ सत्कृतिरियम् ॥

भाषानुवादः—गोवृत या माखनसग—कड़ (खाज) विष और कुष्टोंको तावूल सग कफको वायविडग साथ कृमिको तुत्थभस्म दूर करता है और महत सग नेत्रोंमें अंजनेसे नेत्ररोगोंका नाश करता है ॥ ८१ ॥ यह छोक वैद्यक ग्रथाशयानुसार मेरा बनाया हुवाहै ॥

अथ शिलाजत्वनुपानानि ।

एलापिप्पलिसंयुक्तंसासमात्रंतुभक्षयेत् ॥ मूत्र
बृच्छ्रुंमूत्ररोधंहन्तिमेहंतथाक्षयम् ॥ ८२ ॥ स
र्वानुपानैःसर्वत्ररोगेषुविनियोजिते ॥ जयत्यभ्या
सतोनृनंतांस्तान्तरोगान्वसंशयः ॥ ८३ ॥

भाषानुवाद—अब शिलाजीतका अनुपान कहते हैं—छोटी डलायची और पीपलके नग एकमहीने पर्यन्त शिलाजीतका सेवन करनेसे मृत्रकृच्छ्रु, मृत्ररोध, प्रेमत सौर क्षणी, ये सब दूर होयें ॥ ८२ ॥ और इनसे व्यतिरिक्त रोगोंपर भिन्नारूपरुप पृथक् २ अनुपान सग शिलाजीतका मेनन करनेसे रोगगत्र दूर होजानेहै ॥ ८३ ॥ ऐसा ग्रथांतरमें लिखा है ।

अथ पारदभस्मानुपानानि ।

पिष्पलीमारिचैः शुंठीभारंगीमधुनासहा॥कासश्वा
सप्रशमनः शूलस्यचविनाशनः ॥ ८४ ॥ हरिद्रा
शर्करासार्ढरुधिरस्यविकारनुत् ॥ अयुषणंत्रिफला
वासा कामलापाण्डुरोगजित् ॥ ८५ ॥ शिलाज-
तुतथैलाचसितोपलसमन्वितः ॥ मूत्रकृच्छ्रेप्रश-
स्तोयंसत्यनागार्जुनोदितम् ॥ ८६ ॥ लवंगंकुसुमंप-
त्रीहिंगुलंचाकलंकरा॥पिष्पलीविजयाचैवसमान्ये
तानिकारयेत् ॥ ८७ ॥ कर्पूरादाहिफेनानिनागाङ्गा-
गार्ढकंक्षिपेत् ॥ सर्वमेकत्रसंमर्द्धातुवृद्धौप्रदाप
येत् ॥ ८८ ॥ सौवर्चलंलवंगंचभूनिंवंचहरीतकी ॥
अस्यानुपानयोगेन सर्वज्वरविनाशनः ॥ ८९ ॥
तथारेचकरःप्रोक्तःसौवर्चलफलत्रिकम् ॥ लवंगंकु
सुमंचैवदरदेनचसंयुतम् ॥ ९० ॥ ताम्बूलेनसमंभक्ष्यं
धातुवृद्धिकरंपरम् ॥ विदारीचूर्णयोगेनधातुवृद्धिक
रोमतः ॥ ९१ ॥ विजयादीप्यसंयुक्तोवमनस्यवि-
कारनुत् ॥ सौवर्चलंहरिद्राचविजयादीप्यकंतथा
॥ ९२ ॥ अनेनोदरपीडांचसद्योत्पन्नांविनाशयेत् ॥
चतुर्वल्लीपिलाशस्यबीजंचद्विगुणंगुडः ॥ ९३ ॥ अस्या-
नुपानयोगेनकुमिदोषविनाशनः ॥ अहिफेनलवंगं
चदरदंविजयातथा ॥ ९४ ॥ अस्यानुपानतः सद्यः
सर्वातीसारनाशनः ॥ सौवर्चलेनदीप्येनअग्निमा

ध्यपरःपरः॥१५॥क्षुद्रोधजनकश्वैवसिद्धनागेश्वरो-
दितमागुडूचीसत्त्वयोगेनसर्वपुष्टिकरःस्मृतः॥१६॥

भापानुवादः—अब पारेको भस्मके अनुपान वर्णन करते हैं पीपल, कालीभि-
रच, सोठ, भारगी, और सहतसग, कास, श्वास, और थूल रोगका पारदभस्म
नाश करता है ॥ १४ ॥ हल्डी और शक्तरसग शधिरविकारको, हर्ड, वहेडा, आवला,
सोठ, मिरच पीपल और अडूसेके साथ कामला और पाहुरोगको ॥ १५ ॥
शिलाजीत, छोटी इलायची, और मिश्रीसग मूत्रवृच्छको पारदभस्म दूर
करता है ऐसा नागार्जुनजीने कहा है ॥ १६ ॥ लवग, केशर, तारीसपत्र, शुद्ध
हिंगुल अकल्करा, पीपल ये सब समान लेवे ॥ १७ ॥ तथा कपूर, अफीम
खाधाभाग लेवे नागेश्वर १ भाग लेवे और इन सबके चूर्णसग पारद भस्म सेवन
करे तो धातुवृद्धि होय ॥ १८ ॥ सौचलनोन, लोग, चिरायता, हर्ड इनके चूर्ण
सग सब घरका नाश करता है ॥ १९ ॥ और सौचलनोन, त्रिफला, लोग, केशर
और शुद्ध सिंगरफ़ इनके सग नेवनमें पारदभस्म दस्त लाता है ॥ २० ॥ तावूलसग
अथवा विदारीकढ़के चूर्णनग पारदभस्म धातुवृद्धि करता है ॥ २१ ॥ भाग और
अजवानसग घमन (उलटी) को दूर करता है, सौचलनोन हल्डी, भाग, और
अजवानभग ॥ २२ ॥ पारदभस्म उदरपीटाको शीत्र नाश करता है, चारबहू—
(१२ गुंजा) पत्तासके बीज उनमें दूना गुड ॥ २३ ॥ इस अनुपानमें
पारदभस्मका स्वन करे तो शुमिरोग दूर होय, अफीम, लोग, शुद्ध सिंगरफ़,
जौर भाग ॥ २४ ॥ इस अनुपानके साथ सेवन करनेसे पारद भस्म शीत्रही
नमगत अतिमारोगका नाश करता है और सौचलनोन और अजवान सग
गणधिको दूर करके ॥ २५ ॥ क्षुधा बढ़ाता तथा उत्पन्न करता है, ऐसा
मिहनागेश्वरजीने कहा है और गुरच (गिलोय) के सत्त्व सग सेवनकरनेसे
पारदभस्म पुष्टा करता है ॥ २६ ॥

पित्तशर्वरयामलेनत्तहसावतेचकृपणात्तसंदद्या-
च्छृष्टमाणि शृंगवेरसाहितंजंवीरनीरज्वरे ॥ रक्तोत्थे

मधुनाप्रवाहरुधिरेस्यान्मेघनादोदकेद्याच्चाथकृ
तातिसारविद्वत्तौरोगारत् ॥ ९६ ॥

भाषानुवादः—पित्तरागमें खाडक आर अवरें में चूर्णतग वातरागमें पीपल के सग कफरोगमें अदरककेसग ज्वरमें जबीरिके रससग, रुधिरजन्य पिकारें सहतसग, रक्तसाव तथा प्रवाहिका और अतिसारमें चीलाईंके रससग पारें भस्सको देना चाहिये ॥ ९७ ॥

अथ रससिन्दूरानुपानानि ।

वातेसक्षौद्रपिप्पल्यपिचकफरुजिन्यूषणंसाम्निचू
र्णपित्तशैलासितेन्दुब्रणवतिचवरागुगुलश्चारुव
च्छः ॥ चातुर्जातेनपुष्टौहरनयनफलाशालमलीपु-
ष्पवृन्तंकिंवाकान्ताललाटाभरणरसपतेस्यादनू
पानमेतत् ॥ ९८ ॥

भाषानुवादः—अब रससिंदूरके अनुपान वर्णन करते हैं वातरोगमें पीपल और सहतसग, कफरोगमें त्रिकटु (सोठ—मिरच—पीपल) और चित्रकके चूर्णसव पित्तरोगमें, शिलाजित, मिश्री और कट्टरसग ब्रणरोगमें त्रिफला और गुगुलसब और पुष्टाके लिये, चातुर्जातके अथवा त्रिफला और सेमरकद (शालमलीमूल) के सग रससिंदूरको देवे ॥ ९८ ॥

अथ रसकर्पूरानुपानानि ।

वल्लवल्लार्ढमानेनजीर्णेगुडसमंददेत् ॥ यथोचिता-
नुपानेनसर्वकर्मसुयोजयेत् ॥ ९९ ॥ दुग्धोदनंतुप
श्यंदेयंचासिमंश्रताम्बूलम् ॥ हरतिसमस्तान्रोगा
न्कर्पूराख्योरसोनृणाम् ॥ १०० ॥

भाषानुवादः—अब रसकर्पूरके अनुपान वर्णन करते हैं पुराने गुडके सर्ती अथवा टेढ़ सर्ती प्रमाण रसकर्पूर देवे अथवा रोगानुसार अनुपान वि

अ द ॥ ९९ ॥ और ऊपरसे पानका बीड़ा खिलवे तथा दुग्ध,
गवल, खानेको पथ्य देवे तो समस्त रोगमात्र दूर होय ॥ १०० ॥

अथ गंधकानुपानानि ।

इत्थंविशुद्धस्त्रिफलाज्यभूंगमध्वान्वितश्शाणमि-
तोवलीढः ॥ यथाक्षितुल्यंकुरुतेक्षियुग्मंकरोतिरो
गोजिव्रतदीर्घसायुः [॥ १००] शुद्धंगन्धंनिष्कमात्रं
सदुग्धैस्सेव्यंसासंशौर्यवीर्यप्रवृद्धयै ॥ षणमासा-
त्स्यात्सर्वोगप्रणाशो दिव्यांदृष्टिं दीर्घमायुस्स्व-
रूपम् ॥ १०१ ॥ मोचाफलेनत्वगदोषंचित्रकेणमहा
वलम् ॥ आढ़रूपकषायेणक्षयकासाञ्चयेऽदृशम् ॥
॥ १०२ ॥ मन्दानलत्वंजयतित्रिफलाकाथसंयुतः ॥
ऊर्ध्वगान्तस्कलान्तरोगान्हन्तिशीघ्रंसुगंधकः ॥ १०३ ॥
सर्वमिदंप्रथांतराल्लिखितम् ॥

भाषानुवाद — अब गधकके अनुपान वर्णन करते हैं त्रिफला, वृत और
गरंके रससग ४ मासे शुद्ध आवलासार गधक सेवन करनेसे गुग्ग (गीव-
प्रिका राजा-गुग्गु) के समान दूरतककी वस्तु देखनेवाली दृष्टि (नेत्र) होवे
और वह पुरपरंगरहित दीर्घायु होय [॥ १०० ॥] तथा दूधके सग निष्क
४ मासे) मात्र शुद्ध गधकका एक महीने पर्यन्त सेवन करनेसे शूरता और
र्धियों वृद्धि होय इसी प्रकार ६ मास पर्यन्त खानेसे सब रोगोंका नाश,
उत्तरादृष्टि खाय आयु तथा स्वरपकी वृद्धि होय ॥ १०१ ॥ मोचा फलके
थ खानेसे त्वचाके ठोपेको चित्रसग निर्वलताको अदृसेके छायमग कास-
तसको ॥ १०२ ॥ प्रिफलाके काटेसग मटाग्निको और देहके ऊर्ध्वभागगत-
गोको शुद्ध गधक शीप्रही दूर करताहै ॥ १०३ ॥ ये सब अनुपान प्रथातरमे
त्तें यहा लिखे हैं

सप्तधातुशोधनम् १ ।

स्वर्णतारारताङ्गाणं पत्राण्यग्नौ प्रतापयेत् ॥

निषिञ्चेत्तसत्तानि तैले तक्रेच कांजिके ॥ ११ ॥

गोमूत्रेच कुलत्थानां कषाये च त्रिधात्रिधा ॥

एवं स्वर्णादिलोहानां विशुद्धिसंप्रजायते ॥ १२ ॥

शार्ङ्ग ० सं० खं० २ अ० ११ ।

भापानुवादः—धातुशोधन १ सुवर्णादि धातुओंके पत्रोंको अग्निमें तपातपा कर तेल, छाठ, काजी, गोमूत्र, और कुलथीका काढा इन प्रत्येकमें कमश. तीन तीन बार दुज्ज्ञाओ तो समस्त धातु शुद्ध हो विशेषतः सातधातुओंमें से १ रागा २ सीसा और ३ जस्ता इन तीनों को गला गलाके तैल आदि उक्त पाचों पदार्थोंमें दुज्ज्ञाना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ यह शुद्धि शार्ङ्गधरके २ रे खटकी ११ वी अध्यायमें लिखी है ।

उपधातुशोधनम् २ ।

१ सुवर्णमाक्षिकशो०-मातुलुंगद्रैवैर्वर्थजम्बीरस्यद्रैवैः
पचेत् ॥ चालयेष्टोहजे पत्रेयावत्पात्रं सुलोहितम् ॥

भवेत्ततस्तु संशुद्धिस्वर्णमाक्षिकमृच्छति ॥ १३ ॥

२ रौप्यमाक्षिकशो०-ककोटीमेषशृंगयुत्थैर्द्रैवैर्जंबीरजैर्दिं
नम् ॥ भावयेदातपेतीत्रेविमलाशुद्धयतिध्रुवम् ॥ १४ ॥

३ तुथशो०-विष्टयामर्दयेत्तुथं माजारककपोतयोः ॥
दशांशं टंकणं दत्त्वापचेन्मृदुपुटेततः ॥

पुटं दभ्नापुटं क्षौद्रैदेयं तुथविशुद्धये ॥ १५ ॥

४-५ कांस्यरीतिशो०-शोधनं कांस्यरीत्योथधातुशुद्धि-
समं भवेत् ॥ १६ ॥

६ सिंदूरशो०--दुरधास्त्वयोगतस्तस्यविशुद्धिर्गदितावु
धैः ॥ १७ ॥ भा० प्र० पू० खं० भा० ॥

७ शिलाजतुशोधनम्--शिलाजतुसमानीयग्रीष्मतस्ति
लाच्युतम् ॥ गोदुग्धैस्त्रिफलाक्षाथैर्भृङ्गद्रावैश्चमर्दये
त् ॥ आतपेदिनभैकंकंतच्छुष्कंशुष्कतांब्रजेत् ॥ १८ ॥

उपधातुशोधनम् २ ।

१ सोनामकखी शो०-भाषानुवादः--विजोरे नीवृके रसमें अथवा जवी
रीके रसमें सोनामकखीको डालकर लोहेकी कडाहीमें पकाओ जब रस जलकर
कटाही लाल होजावे तब उतारके शीतल होजानेपर निकालो सोनामकखी
शुद्ध होजावेगी ॥ १३ ॥

२ रूपामकखी शो०--रूपामकखीको, ककोडा, मेंढारिंसगी और जवीरी
इन प्रथेकरे रसमें एक दो दिन घोट घोटकर सूर्यकी तीक्ष्ण तापमे रखो तो
रूपामारी शुद्ध होगी ॥ १४ ॥

३ नीलाथोथा शो०--विहृती और कवृतरकी वीठ (विष्ट्रा) मे नीलेयोथेको
रुठ करे पनात् उसमे उसीका दशाश सुहागा मिलाकर शरावसपुट करे तनतर
जगत्री गोवर्गीकी दृढ़की आच देवे पश्चात् निकालके दहीका पुट देकर पुन
नाच दे इमप्रिकार पुन सहतका पुट देकर आच देवे तो नीलाथोथा शुद्ध
हो ॥ १५ ॥

रससंरकाराः ३ ।

उष्टादशेवसंस्काराऽनविंशतिकाः क्वचित् ॥

संप्रोक्तारसराजस्यवसुसंख्याः क्वचिन्मताः ॥ १९ ॥

१ तत्राप्टादशसंस्काराः—स्यात्स्वेदनंतदनुभर्दनमूर्च्छ
नं च स्यादुत्थितिः पतनरोधनियामनानि ॥ संदी
पनंगगनभक्षणमानमत्र सञ्चारणंतदनुगर्भगति
द्वितिश्च ॥ २० ॥ वाह्यद्रुतिस्सूतकजारणास्याद्रा
सस्तथासारणकर्मपश्चात् ॥ संक्रामणं वेधविधि
शरीरयोगस्तथाप्टादशधातुकर्म ॥ २१ ॥

२—३ अथैकोनविंशतिसंस्कारास्तदन्तरगताश्चाष्टौ
स्वेदनमर्दनमूर्च्छनोत्थापनपातनबोधननियम
न संदीपनानुवासनगगनादिग्रासप्रमाणचारण
गर्भद्रुतिवाह्यद्रुतियोगजारणरंजनसारणक्रामण
वेधनभक्षणाख्या उनविंशतिसंस्कारास्सूतसि
द्विदाभवन्ति दीपनान्ता अष्टौसंस्कारावादेहासि
द्विदाभवन्ति ॥ २२ ॥ अं० त० ।

मापानुवादः—पारेके कही १८ अठाह, कहा १९ उन्नीस और कही ८
आठ सस्कार माने हैं ॥ १९ ॥ पारेके १८—१९—८—सस्कारोंका क्रम—तीसे १
स्वेदन २ मर्दन ३ मूर्च्छन ४ उत्थापन ५ पातन ६ बोधन (बोधन) ७
नियमन ८ सदीपन ९ गगनभक्षण १० सचारण ११ गर्भगति १२ गर्भ-
द्रुति १३ वाह्यद्रुति १४ सूतकजारण १५ म्रास १६ सारणकर्म १७ संक्रा-
मणं वेधविधि और १८ शरीरयोग ये पारेके अठाह सस्कार हैं, इनमें एक
नक्षणाख्य सस्कार योजित करनेसे १२ उन्नीस और १ ले स्वेदनसे १

सदीपन पर्यन्तके आठभी सस्कार माने हैं, ये ८ आठ सस्कार अथवा समस्त सस्कार होनेसे पारा शुद्ध होता है ॥ २०—२१—२२ ॥

रसशोधनम् ३ ।

अथवाहिङ्गुलात्सूतंग्राहयेत्तन्निगच्यते ॥ जस्तीर
निंवुनीरेणमर्दितोहिङ्गुलोदिनम् ॥२३॥ ऊर्ध्वपा
तनयंत्रेणग्राह्यःस्यान्निर्मलोरसः ॥ कंचुकैर्नागवं
गाद्यैर्निर्मुक्तोरसकर्मणि ॥ विनाकर्माष्टकेनैव
सूतोऽयंसर्वकर्मकृत् ॥ २४ ॥ अं० त० ।

भाषानुवादः—सूचना—यद्यपि पूर्वोक्त सस्कारोसे पारा शुद्ध होता है ? रस-
शोधन प्रकार—तथापि उन सस्कारोंको प्रथविस्तारभयसे हम यहा न लिखकर
रा गग्ण प्रकारसेही पारेका शोधन दर्शाते हैं कि जिससे थोड़े परिश्रमके साथ
उस अष्ट वा अष्टादश सस्कार शुद्ध पारेके समानही शुद्ध और गुणप्रद पारा
हो जाए, हींगुद्ध (सिंगरफ) को जब्तीरी अथवा नींबूक रससे एकदिनभर
ए० कर पक्कात् डेमरुयगद्वारा उडाकर उससे निकले हुए पारेको प्रहण करे,
ए० पारा तिना आठ समारंकही सातो कनुकी और नागवग आदि दोष
रहित तभा निर्मित हो जाता है इसे समस्त कायोंमें प्रहण करना योग्यहै ऐसा
भयतरमें लियाहै ॥ २३ ॥ २४ ॥

अन्यच्च—निभूरसैनिम्बपत्ररसैर्वायाममात्रकम् ॥ पि
द्वादरदमृध्वंच पातयेत्सूतयुक्तिवत् ॥ ततशुद्ध
रसं तस्मान्नीत्वाकार्येषुयोजयेत् ॥ २५ ॥ शार्दूल
वं० अ० ११ ॥

अन्यच्च—कुमारिकाचित्रकरक्तसर्पैः कृतैः कषायैर्वृ
हतीविमिश्रितैः ॥ फलत्रिकेणापिविमर्दितोरसो
दिनत्रयं सर्वमलैर्विमुच्यते ॥ २६ ॥ भा० प्र०
प० ख० २ भा० ॥

दूसरा प्रकार—शार्ङ्गधरमे ऐसाभी लिखा है कि शिगरफको नींवूके अथवा
नींवके पत्तोंके रससे १ एक प्रहर पर्यन्त खल करके उमर्ह्यत्रसे २ तथा ३
प्रहरकी आञ्ज देके उडा लेवे और उस शिगरफसे उडकर निकले हुए शुद्ध
पारेको लेकर सर्व कार्योंमें योजित करे ॥ २९ ॥

३ प्रकार—कुमारिका (गवारयाठ) चित्रक, लालसरसों और भटकटैया
इनके क्षायसे और त्रिफलासे तीनदिनपर्यन्त पारेको खल करनेसे समस्त मल
रहित शुद्ध पारा हो जाता है ऐसा सावप्रकाशमें लिखा है ॥ २६ ॥

उपरसशोधनम् ।

१ तत्र गंधकशोधनम्—लोहपात्रोविनिःक्षिप्य धृतमग्नौ
प्रतापयेत् ॥ तसेषु तेतत्समानं क्षिपेद्वन्धकजंरजः ॥
॥ २७ ॥ विद्वुं गन्धकं द्वातनुवस्त्रेविनिःक्षिपेत् ॥
यथावस्त्राद्विनिःसृत्यदुर्घमध्येऽखिलं पतेत् ॥ एवं
सगन्धकशुद्धसर्वकम्मोचितोभवेत् ॥ २८ ॥

२ हिंगुलशो०—मेषीक्षीरेण दरदमम्लवर्गेश्च भावितम् ॥
सप्तवारान्प्रलेपेन शुद्धिमायातिनिश्चितम् ॥ २९ ॥

३ अध्रकशो०—कृष्णाध्रकंधमेष्टहौ ततःक्षीरेविनिःक्षि
पेत् ॥ भिन्नपत्रतुतत्कृत्वातपुलीयाम्लयोर्द्रवैः ॥
भावयेदप्यामतदेवमध्रं विशुद्धयति ॥ ३० ॥

४ हरितालशो०—तालकंकणशः कृत्वा तच्चूर्णकाञ्जिके

पचेत् ॥ दोलायन्त्रेणयामैकंततः कूपमाणउजद्रवेः ॥
 ॥ ३१ ॥ तिलत्तैलेपचेद्यामयामश्चलिफलाजले ॥
 एवंयन्त्रेचतुर्यामिंपकंशुध्यतितालकम् ॥ ३२ ॥
 ५ मनश्शिलशो०—पचेत्यहमजामूत्रे दोलायन्त्रेमन
 शिशलाम् ॥ भावयेत्सप्तधापित्तैरजायाःसापिशुद्ध्य
 ति ॥ ३३ ॥ भा० ग्र० ॥
 अन्यच्च—अगस्तिपत्रतोयनभावितंसप्तवारकम् ॥
 श्रुंगवेररसेवापिविशुद्ध्यतिमनश्शिला ॥ ३४ ॥ ग्रं.त. ।
 ६ खर्षरशो०—नरमूत्रेचगोमूत्रेसप्ताहंरसकंपचेत् ॥ दो
 लायन्त्रेणशुद्धस्स्वात्ततः कार्येषु योजयेत् ॥ २५ ॥
 ७ कंकुषादीनांशोधनम्—कंकुषंगैरिकंशंखः कासीसं
 ददूषंतया ॥ नीलाञ्जनंशुक्तिभेदाःक्षुष्ठकास्सवरा
 टकाः ॥ ३५ ॥ जंवीरिवारिणास्विन्नाः क्षालिताः
 कोषणवारिणा ॥ शुद्धिमायान्त्यमीयोज्याभिषग्भि
 वांगस्तिद्रवे ॥ ३६ ॥ भा० ग्र० ।
 ८ गनोंपागानांशोधनम्—त्रिभारत्यवयेद्यमस्त्वैर्गं
 तिवाचेत् ॥ तदत्त्वोपररात्मशुद्धाजायन्तेऽवव
 जिताः ॥ ३७ ॥ ग्रं० त० ।

डाले ॥ २७ ॥ जब वह गधक धाम विवड जावे तब एक पारम् दूध मरके
उस पात्रके मुहूर्पर महिन कपडा बाधकर उसमे वह पिघला हुआ गधक डाल
दे जिससे गधक छानकर दूधमें गिरे और जो कुछ ककर मढ़ीहो सो सब बद्धमें
रह जाये फिर वह गधक दूधमे गिरकर शीतल होजावे तब उसे लेवे इस प्रकार
गन्धक शुद्ध होता है ॥ २८ ॥

२ हिंगुलशो०—हिंगुल (शिगरफ) को खलमे ढालकर ७ सात पुट
भेड़ीके दूध और ७ पुट नीवूके रसकी देवे तो निश्चय शुद्ध हो ॥ २९ ॥

३ अभ्रक शो०—कलि अभ्रकको अशिमे तपाकर गजके दूधमे बुजाओ
किर चॉलाईके रसमे अथवा चावलोंके पानीमे और इमलीकी खटाईमे आठ
प्रहर (एकदिनरात) भिगोये रखें तो अभ्रक शुद्ध हो ॥ ३० ॥

४ हरतालशो०—हरतालके छोटे २ टुकडे करके १ प्रहर काजीमे
१ प्रहर भूरं कुम्हडेके रसमें १ प्रहर तेलमे और १ प्रहर त्रिफलाके काथमे
दोलैयत्रसे आच देओ तो हरताल शुद्ध हो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

५ मनशिलशो०—मनशिलको वकरीके मूत्रसे दोलायनमें ३ दिन औटावे
पश्चात् खलमे ढालकर वकरीके पित्तेकी ७ मावना देवे तो मनशिल शुद्ध हो,
ये सब शोधन मावप्रकाशमें लिखे हैं ॥ ३३ ॥

दूसरा प्रकार—मनशिलको अनास्तिपत्र रसकी अथवा अदरकके रसकी ७
मापना देवे तो मनशिल शुद्धहो ऐसा प्रथातरमें लिखा है ॥ ३४ ॥

६ खपरियाशो०—खपरियाको मनुष्यके मूत्रमें अथवा गोमूत्रमे दोला
यत्रने ७ सात दिन पकायो तो शुद्ध हो ॥ ३५ ॥

७ सुरदासंग आदि८ उपरसोंका शोधन— १ सुरदारा २ गैरूं
३ थार ४ हीराकसीम ५ सुहारा ६ कालासुरमा और ७ सींप भेदस्तप जो
योगा-कोटी ८ यादि ॥ ३६ ॥ इनको जवीरीके रसमे शोधन करके गरम

१ दोलायन उसे कहते हैं कि जिस पात्रमें काजी आदि उस पात्रके मुखसे
उत्त वगभरके उसम जिस जीपथसे शुद्ध करना हो उसे भोजपत्रमें लपेट तिहेरे
कम्पन पोटली रप्ते वाव उसे एक लकड़ीमे डोरेसे बाधकर वीचोंवीच अधर
एका देवे पश्चात् उस पात्रको भट्ठी या चूल्हेपर चढ़ाके लिखेप्रमाण आच दे ॥

पानो बोडालो तो गे सव . उपरस शुद्ध हो जावेगे ऐसा भा प्रत्याशमे लिपा हे ॥ ३७ ॥

८ शंय उपरसोका अथवा सवोंपरसोंका सक्षिप्त शोधन--सव उपरसों को जवाखार, सज्जीखार, सुहागा, नोन और अम्लवर्ग इन प्रत्येकमें तीन बार पचावे तो समस्त उपरस दोषरहित शुद्ध होवे ऐसा ग्रथातरमें लिखाहै॥३८॥

रत्नशोधनम् ।

तत्रादैवज्ञस्यशो०-कुलत्थकोद्रवकाथेदोलायन्त्रेवि
पाचयेत् ॥ व्याघ्रीकन्दगतंवज्रंत्रिदिनंतद्विद्वा
द्वयति ॥ ३९ ॥

अवशिष्टरत्नानांशो०-वज्रवत्सर्वरत्नानिशोधयेनमा
रयेत्तथा ॥ ४० ॥ भा० प्र० ।

विषशोधनम्-कृत्वाचणकसंस्थानंगोमूलैर्भावयेत्य
हम् ॥ समटङ्गसंपिष्ठमृतमित्युच्यतेविष-
म् ॥ ४१ ॥ रस० सा० ।

उपविषशोधनम्-पञ्चगव्येषुशुद्धानिदेयान्युपविष-
णिच ॥ विषाभावप्रयोगसुगुणस्तुविषसम्भवः॥४२॥

जपालशो०-नविषंविषमित्याहुंजपालोविषमुच्यते॥
जोभिन्नध्विरेकेषुचमल्लुतिकरःपरः ॥ ४३ ॥ जे
शालगहनंत्वगंकुरसैर्जाभिर्मलेसाद्विषे निःशितं
उयहनुप्यनोविषमलंवल्लवस्वासोदिनम् ॥ लितं
नुननवपरेषुविषगतक्षेहोरजःसंनिभो निम्नकां
वुविनाविनध्ववदुशङ्गांगुणाच्छोभवेत् ॥४४॥

भाषानुवादः—अब रत्नोका शोधन लिखते हैं १ हीराशो०—हीरेको छोटा कटियालोके मूलमें रखकर कुलधी और कोरेके काटेसे दोलायत्रमें ३ दिन पर्यन्त पकावे तो हीरा शुद्ध हो ॥ ३९ ॥

शेषरत्नोंका शो०—शेषरत्नोका शोधन और मारण हीरेके समानही जानो ॥ ४० ॥ ऐसा भाव प्रकाशमें लिखा है ।

विषोकाशो०—जिस विषमा शोधन करना हो उसके छोटे २ चंडें समान ढुकडे करके पश्चात् गोमूत्रसे दोलायत्रमें ३ दिनपर्यन्त आच्छंदवे और फिर उसके समान सुहागा मिलाकर खालकर लेवे तो वह विष निर्धिष्य (शुद्ध) हो जाता है ऐसा रसेन्ड्रसारसप्रहमें लिखा है ॥ ४१ ॥

उपविषशो०—समस्त उपविषोको, दूध, दही, वृत, गोमूत्र और गोवरमें शोधन करके जहा विष न भिले वहा शुद्ध उपविषोंको योजित करना चाहिये ॥ ४२ ॥

जमालगोटेका शो०—पटित (सत् असत् विचार करनेवाले, पन्थ जैसा विषको विष नहीं समझते वसा जमालगोटेको विष (बहर) मानते हैं और यही जमालगोटा शुद्ध होनेपर विच्चन (दस्त—जुलाव) में चमत्कार प्रदर्शक अतिश्रेष्ठ हो जाता है ॥ ४३ ॥ जमालगोटेके छिलकोंको दूर करके उसके भीतर एक महीनपत्ती / जो जमालगोटेकी जीभ / होती है उसे निकालडाले पश्चात् एक वस्त्रमें वाधके २ दिनतक भैसके गोवरमें दवायरकर्के, फिर निकालकर गरग-पार्गसे बोटाले फिर दूसरे अच्छे वस्त्रमें वायके युक्तिसे खल करे कि जिससे उमका तेल २ वस्त्र शोपले, पश्चात् नवीन खपरेपर उसका लेपदेवे, जब तेल मात्र उसमें न रहकर वूलीके समान वह हो जावे तब उसे नींबूके रसकी भागना देवे, तो जमालगोटा शुद्ध हो ये सब प्रथातरमें लिखा है ॥ ४४ ॥

अथ स्वर्णदीना मारणम् ।

१ सुवर्णमा०—स्वर्णस्यद्विगुणं सूतमस्तेन सहमईयेत् ॥

तद्गोलकसमंगंधं निदध्यादधरोत्तरम् ॥ ४५ ॥

गोलकं च ततोरुद्धा शरावं दृढसंपुटे ॥ त्रिंशद्

नोपलैर्द्यात्पुटान्येवं चतुर्दशा ॥ ४६ ॥ निरुत्थं

जायते भस्मगन्धोदेयः पुनः पुनः ॥ ४७ ॥

पानांगे वोडालो तो गे सव - उपरस शुद्र हो जावेंगे ऐसा माप्रसाशमें लिखा हे ॥ ३७ ॥

८ शेष उपरसोका अथवा सबोपरसोका संक्षिप्त गोधन--सव उपरसो को जवाखार, सजीखार, सुहागा, नान और अम्लवर्ण इन प्रत्येकमें तीन बार पचावे तो समस्त उपरस दोषरहित शुद्र होवें ऐसा प्रयातरमें लिखाहै॥३८॥

रत्नशोधनम् ।

तत्रादौवज्जस्यशो०-कुलत्थकोद्रवकाथेदोलायन्त्रेवि
पाचयेत् ॥ व्याधीकन्दगतंवज्रंत्रिदिनंतद्विशु
द्धयति ॥ ३९ ॥

अवशिष्टरत्नानांशो०-वज्रवत्सर्वरत्नानिशोधयेन्मा
रयेत्तथा ॥ ४० ॥ भा० प्र० ।

विषशोधनम्-कृत्वाचणकसंख्यानंगोमूलैर्भावयेत्य
हम् ॥ समटङ्कणसंपिष्टमृतमित्युच्यतेविष-
म् ॥ ४१ ॥ रसे० सा० ।

उपविषशोधनम्—पञ्चगव्येषुशुद्धानिदेयान्युपविषा-
णिच ॥ विषाभावप्रयोगेषुगुणस्तुविषसम्भवः॥४२॥

जैपालशो०-नविषंविषमित्याहुर्जपालोविषमुच्यते॥
शोधितश्चविरेकेषुचमत्कृतिकरःपरः ॥ ४३ ॥ जै
पालंरहितंत्वगंकुररसैर्जाभिर्मलेमाहिषे निःक्षिसं
त्यहमुष्णतोयविमलंवल्वेसवासोदितम् ॥ लिसं
नूतनवर्परेषुविगतस्त्रेहोरजःसंनिभो निम्बूकां
वृविभावितश्चत्रहुशशुद्धोगुणाच्छोभवेत् ॥४४॥
यं, त. ।

भापानुवादः—अब रनोका शोधन लिखते हैं १ हीराशो०—हीरेको छोटी कटियालीके मूलमें रखकर कुलथी और कोटोके काढेसे दोलायत्रमें ३ दिन पर्यन्त पकावे तो हीरा शुद्ध हो ॥ ३९ ॥

शेषरत्नोंका शो०—शेषरत्नोंका शोधन और मारण हीरेके समानही जानो ॥ ४० ॥ ऐसा भाव प्रकाशमें लिया है ।

विषोंकाशो०—जिस विषका शोधन करना हो उसके छोटे २ चनेके समान टुकडे करके पश्चात् गोमूत्रसे दोलायत्रमें ३ दिनपर्यन्त आच देवे और फिर उसके समान सुहागा मिलाकर खलकर लेवे तो वह विष निर्विष (शुद्ध) होजाता है ऐसा रसन्दसारसप्रहमें लिया है ॥ ४१ ॥

उपविषशो०—समस्त उपविषोंको, दूध, दही, वृत, गोमूत्र और गोवरमें शोधन करके जहा विष न मिले वहा शुद्ध उपविषोंको योजिन करना चाहिए ॥ ४२ ॥

जमालगोटेका शो०—पठित । सत् असत् विचार करनेवाले वय जैसा विषको विष नहीं समझते वसा जमालगोटेको विष (जहर) मानते हैं और यही जमालगोटा शुद्ध होनेपर विरचन (दस्त—जुलाव) में चमत्कार प्रदर्शक अतिश्रेष्ठ होजाता है ॥ ४३ ॥ जमालगोटेके छिलकोंको दूर करके उसके भीतर एक महीनपत्ती (जो जमालगोटेकी जीभ), होती है उसे निकालडाले पश्चात् एक बच्चमें वाघके ३ दिनतक भैसके गोवरमें दबायरक्खे, फिर निकालकर गरम-पानीसे बोटाले फिर दूसरे अच्छे बच्चमें वाघके युक्तिसे खल करे कि जिससे उसका तेल २ बच्च शोपले, पश्चात् नवीन खपरेपर उसका लेपदेवे, जब तेल मात्र उसमें न रखकर बूलीके समान वह होजावे तब उसे नींवूके रसकी नावना देवे, तो जमालगोटा शुद्ध हो ये सब ग्रथातरमें लिखा है ॥ ४४ ॥

अथ स्वर्णादीना मारणम् ।

१ सुवर्णमा०—स्वर्णस्यद्विंगुणं सूतमस्लेनसहमर्दयेत् ॥

तद्वोलकसमंगंधं निदध्यादधरोत्तरम् ॥ ४५ ॥

गोलकं च ततोरुद्ध्रा शरावं दृढसंपुटे ॥ त्रिशङ्क

नोपलैर्दयात्पुटान्येवं चतुर्दश ॥ ४६ ॥ निरुत्थं

जायते भस्मगन्धोदेय पुनः पुनः ॥ ४७ ॥

भाषानु०—अब सोनेआदिके मारण (भस्म करने) की विधि दर्शाते हैं ।

१ सोनेकी भस्म—शुद्धकिये हुए सोनेसे दुना शुद्ध पारा केर कर दोनों नींवोंके रससे खल करके गोला बनावे और उस गोलेको समान शुद्ध गधकके ऊरेको शराबसपुटमे नीचे, ऊपर और गोलेको बीचमें रखेपथात् कपडमट्टीसे शराबस पुटको ढक्करके ३० जगली गोवरी (कड़ों) की आच देवे, इसप्रकार चौदह पुट (१४ हवार आच) देनेसे सोनेकी निरत्य (पक्का) भस्म होय, पर प्रत्येक आचके साथ गधक सपुटमे नीचे ऊपर अवश्य रखें ॥ ४९—४६—४७ ॥

२ रौप्यमा०—सागैकंतालकंसर्वयाभस्मन्लेनकेनचित् ॥

तेजभागत्रथं तारपत्राणिषरिलेपयेत् ॥ ४८ ॥

धृत्वासूयापुटेरुद्धापुटेत्रिंशद्वनोपलैः ॥ समुद्धृत्य
पुनस्तालंदत्त्वारुद्धापुटेपचेत् ॥ एवंचतुर्दशपुटे
स्तारभस्मप्रजायते ॥ ४९ ॥

२ भाषानु०—चादीकी भस्म २ भाग शुद्ध हरतालको नींवोंके रसमें प्रहरपर्यन्त मल करके पथात् ३ भाग चादीके अत्यन्त पतले और छेटे २ फत्तों (टुकड़ों) पर उनका लेपकरे और उनको शराबसपुटमे रखकर ३० जगली गोवरीकी आच ने इस प्रकार १४ बार आच देनेसे चादीकी भस्म होय ॥ ४८—४९ ॥

३ ताम्रमा०—सूक्ष्माणिताम्रपत्राणिकृत्वासंस्वेदयेद्युधः ॥

वासरत्रयमन्लेनततःग्वल्लेविनिःक्षिपेत् ॥ ५० ॥

* नद्दीरे पर्देहुए दो चिकोर (भगव्वी दीये) को केकर उनको सुनिमे पत्थर पर रखकर दोगांशे ऐसे जोड़े कि निनमी केर नगरर मिलाये और कुछ थीं । एरे तामें नो नस्म न्तरेकी वस्तु होय उसे राक्षर दोर्ना सर्वादीमी जोड़ कपडमट्टीमे टट करदे द्विनिमे भीतर रक्षी हुई वस्तु गाहरन निकलने पाने रक्ष सरागढ़ारू नहीं ।

३ जिमे लदत, यी प्रैर सुशगा इन उक्तस्तरके जाज देनेकमी नो जीवित नहीं नहीं किंतु नम्मन जातो

पादाशसूतकं दत्त्वायाम मरुलेन मर्देयेत् ॥ तत् ।
 उद्धृत्य पत्राणि लेपये हिंगुणेन च ॥ ५१ ॥ गन्ध
 केनाम्लघृष्टेन तस्य कुर्यात् गोलकम् ॥ ततः
 पिष्ठाचभीना क्षीरां चाङ्गे रीं चापुनर्नवाम् ॥ ५२ ॥
 तत्कलेन वहिं गोलं लेपये दण्डुगुलो न्मितम् ॥ धृ
 त्वात् द्वोलकं भाण्डेशरावेण चरोधयेत् ॥ ५३ ॥
 वालुकाभिः प्रपूर्याथि विभूति लवणां बुभिः ॥ द
 त्वाभां डमुखे मुद्रां ततश्चुल्लयां विपाचयेत् ॥ ५४ ॥
 कमवृद्धाभिना सम्यग्यावद्यासच्च तुष्टयम् ॥ स्वा
 ङ्गरीतं सुदृत्यमर्हये च्छूरणद्रवैः ॥ ५५ यामैकं
 गोलकं तच्चनिः शिष्ठेच्छूरणो दरे ॥ सृदालेपस्तु कर्त
 व्यस्सर्वतो ऽड्डुगुष्ठमात्रकः ॥ ५६ ॥ पाच्यं गजपुटेक्षि
 संसृतं भवति निश्चितम् ॥ वजनं च विरेकं च अमंक्षम्
 मथास्त्रिम् ॥ ५७ ॥ विदाहं स्वेदसुत्केदं नकरोति
 कदाचन ॥ ५८ ॥

३ तावेकी भस्म-भापानुवाद - शुद्धतावेके मर्हनि घोटे २ पत्र (ठुकडे) करके उनको ३ दिन पर्यन्त नींवके रसमें डालकर मंद २ आचसे पकावे पत्वा उनको लुरल्मे डाल ॥ ९० ॥ उन शुद्ध ताम्रपत्रोंसे चतुर्थांश पाराभी उन्हींके माय मिटाकर (प्रहरपर्यन्त नींवको रसमें खल करे 'घोटे'), जब उसका गोल धनजावे तब उसे निकालकर उसमें ढूनी ॥ ९१ ॥ नींवके रसमें हुनी दूर्दुर गमकका उस गोलेपर लेप करे तदनतर, मकोह, अयवा

४ रसेन्द्रेण विगाताम् य वरोति पुमानिद् ॥ उदरेत स्ववीटाय निजाय नत्तेनात्र सशय ॥ १ ॥ तिन तरे ॥ ११ जो पुढ़र विगा पारेके योगके तामेकी अन करता ऐ उसमध्ये यांत्रे न उभिरो । उन्हां रंगार्द ऐना गमतरन निजारे ।

चूका अधवा सॉठी इनमेंसे किसीएकको पीसकर ॥ ९२ ॥ उसके कल्केमा
उसी गोले पर दो अगुल लेप करे पीछे उसे किसी भाडे (पात्र) में रखकर
उसे सकोरेसे ढाकदे जिससे कि वह गोला वहीं रुकजाय ॥ ९३ ॥ पश्चात् उस
पात्रको बाद्ध रेतसे पूरित और उसका मुख राख वा नमक पानीसे मुद्रित कर
चूल्हेपर चढावे ॥ ९४ ॥ पीछे क्रमवर्द्धित आग्निसे ४ प्रहरपर्यन्त उसे पकावे
जब स्वागतीतल होजावे तब उस गोलेको निकालूकर जमीकदके रससे मादित
(खल) करे ॥ ९५ ॥ जब एक प्रहर घोटते घोटते होजाय तब उसका
फिर गोलावनाकर उसे जमीकदके भीतर युक्तिसे रखें और उस जमीकदपर १
अगूठ मात्र ऊँचा चहुओर मृत्तिकाका लेप करे ॥ ९६ ॥ फिर उसे गजपुटों
पकावे तो निश्च ताम्र भस्म होजावेगा और यह शुद्ध ताम्रभस्म उलटी भिरे
गन ' दम्भ भग यकाहट अरुचि ॥ ९७ ॥ दाह पसीनेका निकलना और
जीना मल्कना इत्यादि किसी उपद्रवको नहीं करता है ॥ ९८ ॥

४ वंगमा०-मृत्पात्रेद्रावितेवंगेचिश्चाश्वत्थत्वचारजः ॥

क्षिप्त्वावङ्गचतुर्थांशमयोदव्याप्रचालयेत् ॥ ५९ ॥
ततोद्वियाममात्रेणवङ्गभस्मप्रजायते ॥ अथभस्म
समंतालंक्षिप्त्वाऽम्लेनविमर्दयेत् ॥ ६० ॥ ततोग-
जपुटेपत्वापुनरम्लेनविमर्दयेत् ॥ तालेनदशमा-
शेनयाममेकंततः पुटेत् ॥ एवंदशपुटैः पकंवङ्गंभ-
वनिमारितम् ॥ ६१ ॥

इसमें (कथील , की भस्म-भाषानुवाद-मृत्तिकाके पात्रमें / मर्दीको
वडे टिकटे में शुद्धरथीलको पिवलाकर उससे चतुर्थांश अमर्दी और पीपलके
शार के नदीन चुर्णको उसप टालते जावे और लोहेकी कड्डीसे हृदयते जाए
॥ २३ ॥) इस प्रकार २ प्रहरकी आचंसे वग (रामा) भस्मस्य ती-

जावेगा फिर उस भस्मरूप वगकी समान शुद्ध हरताले लेकर दोनोंको नींविके रससे घोटे ॥ ६० ॥ जब दोनोंका एकजीव होजाय तब गोला बनाकर शराव सपुटमें रखके गजपुटमें फूक (पका) देवे, स्वागशतिल होजानेपर उसे निकाल उससे दशामाश शुद्ध हरताले लेकर दोनोंको १ प्रहरपर्यंत पुनः नींविके रससे घोटे पहिलेके समान पुन सपुटकर गजपुटमें फूकदे, इस प्रकार १० दशावार फूकनेसे वगभस्म होय ॥ ६१ ॥

५ यशादमा०—यशादस्यवंगवन्मारणंभवति ॥ ६२ ॥

६ नागमा०तांवूलरससंपिष्ठशिलालेपात्पुनः पुनः ॥

द्वार्त्रिशङ्खिः पुटैर्नागोनिरुद्धंभस्मजायते ॥ ६३ ॥

५ जस्तेकीभस्म—रागेकी भस्म करनेकी समान क्रियासेही जस्तेकीभी भस्म बनाओ ॥ ६२ ॥

६ सीसकीभस्म—पानके रसमें मैनशिल घोटकर शुद्धशीशेके कटकबेधी पत्रोपर लेपकर शरावसपुटमें रखकर फूकदे, इसप्रकार ३२ बार फूकदेनेसे सासिकी निरुद्ध भरम होय ॥ ६३ ॥

७ लोहमा०—क्षिपेच्छद्वादशांशेनदरदंतीक्षणचूर्णतः ॥

महीयेत्कन्याद्रावैर्यामयुगमंततःपुटेत् ॥ ६४ ॥

एवंसप्तपुटैसृत्युलोहंचूर्णमवाप्नुयात् ॥ ६५ ॥

कृत्स्नमिदमुक्तंभा०प्रका०पूर्वखंडस्याद्वितीयभागे ॥

इति सप्तधातुमारणम् ।

७ लोहभस्म—भापानुवाद—शुद्धलोह (पोलादके) चूर्णका द्वादशाश (वारयाद्विसा) शुद्ध हिगुल लेकर दोनोंको गवारपाठेके रससे २ प्रहरपर्यन्त खरउ करे पथात् शरावसंपुट करके गजपुटमें फूकदे ॥ ६४ ॥ इस प्रकार सातवार फूकनेसे लोह भरम होय ॥ ६५ ॥ यह सातोवातुमारणविवि भावप्रकाशके पूर्वखटके दूसरे भागमें लिखी है ॥

सम्यगोपधवल्पानालोहकृष्टप्रशस्त्यते ॥ तस्मात्सर्वश्यत्वेन लोहमादेविमारपत् ॥ १ ॥ नाथ, पचेत्यच्यपलादर्वीन्वैत्रयोदशात् ॥ जार्दी भास्त्वत कर्मकर्त्तव्यमधुर्षते ॥ २ ॥ ४ योजमृतांद्रवापस्वादा दत्तियथातरे ।

अयोपधातूना मारणम् ।

८ स्वर्णमा०मा०-कुलत्थस्यकषायेणघृद्वातैलेनवापुटत् ॥
तक्रेणवाजमूत्रेणमियते स्वर्णमाक्षिकम् ॥६६॥शार्ङ्ग०
९ रौप्यमाक्षिकमा०-स्वर्णमाक्षिकमारणष्टकारेणरौप्य
माक्षिकस्यापिमारणम् ॥ ६७ ॥

भाषानुवाद.—अब उपवातु मारण दर्शाते हैं—

८ सोनामकखीकीभस्म-शुद्ध सोनामकखीको कुडवीके काढ़से अथ ॥
तेलसे अथवा छाछसे अथवा बकरीके मूत्रसे खठ करके शरावसपुटमे रखकर
गजपुटमे फूकदे तो सोनामकखी भस्म होय ॥ ६६ ॥ ऐसा शार्ङ्गधरमे लिखा है।

९ रूपामकखीकीभस्म-रूपामकखीकी भस्म सोनामकखीकी भस्म बनानेकी
क्रियानुसार बनाओ ॥ ६७ ॥

१०तुत्थमा०-लकुच्छ्रावगंधाऽमटड्डणेनसन्वितम् ॥
वज्जसूयागतंद्वित्रिकुहुटैर्मृतिमाप्नुयातुदाय०त०
११-१२ कांस्यरीत्योर्मा०-कांस्यरीत्योर्मारणमनुपानं
चापिताम्रवज्ज्ञेयम् ॥ ६९ ॥

१३ सिन्दूरमारणनिवेधः—सिन्दूरस्यप्रयोगोहिनदृष्टःकु
त्रचित्पृथक् ॥ तस्माद्युक्तस्थलेयोऽयमुपदेशोगुरो
रिति ॥ ७० ॥ अं० त० ।

१४ शिलाजतुमा०-शिलायांगंधतालाभ्यांमातुलुंगर
सेनन ॥ पुटितंहिशिलाधातुर्ध्रियतेष्टोपलेनच ७१॥
॥ अं० त०

एकुल (कठल) के रसमें खरलकरके वज्रमूपामे रखकर कुकुटपुटम दो
तीनवार फूंक तो नीलेथोयेकी भस्म होय ॥ ६८ ॥

११-१२ कासे और पित्तलकी भ०-कासे और पित्तलकी भस्म बनानेकी
क्रिया ओर उसके अनुपानादि तावेकी भस्म ओर उसके अनुपानोके समान
गानो ॥ ६९ ॥

१३-सिंदूरभस्म अभाव-सिंदूर भस्म बनानेकी विधि कही नहीं दृष्ट पड़ती
इसलिये शुद्ध सिंदूरको महलम आदिमे युक्तकरना चाहिये ऐसा सदैवोका
उपदेश है ॥ ७० ॥

१४ शिलाजीतभ०-शिलाजीतमें शुद्ध गधक और शुद्ध हरिताल मिलाकर
विज्ञोरे नींवूके रसमें घोटकर शरावसपुटमे रखकर आठ उपली (जगली
गोवरी) की आच्वदे इस प्रकार ८ आच्वदेनेसे शिलाजीतकी भस्म होय
ऐसा त्रयातरमें लिखाहै ॥ ७१ ॥

अथ मण्डूरविधि ।

अक्षाङ्गौर्ध्वमेस्तिक्टिंलोहजंतद्वांजलैः ॥ सेचये
त्ततततंतत्सत्वारंपुनःपुनः ॥ ७२ ॥ चूर्णयित्वात
तःकाथैद्विंगुणौस्त्रिफलाभवैः ॥ आलोच्यभर्जये
द्वहौमण्डूरंजायतेवरम् ॥ ७३ ॥ शार्ङ्ग० ।

अथ हंसमंडूरविधिः ।

सण्डूरंमर्दयेच्छृक्षणंगोमूत्रेष्टगुणोपचेत् ॥ त्र्यूषणं
त्रिफलानुस्ताविडंगंचट्यचित्रकैः ॥ ७४ ॥ दार्वी

१ दोभागतृणमरम-१ भाग वावीवी मिट्ठी-१ भाग लोहवटि-१ भाग वेत्तपापाण-
गुण तु उपकरणके बाल इनस्योंको नकरीके दूधमें औटाके पञ्चात्तदो प्रहरपर्वन्त अच्छे
प्रवास लरतमें पीसे जर सब एक गीवहोकर पत्त्वत महीन होजावे तब उसकी गाँके
रानवटा गोल जार लगी टकन यहित मूप बनावे इसे वज्रमूपा जोर पन्थमुगाभी
पढ़ोर ।

२ गीवनर ८ चा जान जार उतारा ता गहरा गहरा खोदकर उसने गोली याधेतक
नर पन्थान् नरापरापुट उसने रखवर उधर त न गोवरीनरदे रसे कुकुटपुट करतर

ग्रन्थीदेवदारुतुल्यंतुल्यंविमर्दयेत् ॥ एतन्मण्डूर
तुल्यंचपाकान्तेसिश्रयेत्ततः ॥ ७५ ॥ भक्षयेत्कर्ष
मात्रंतुजीर्णान्तेतकभोजनम् ॥ पापडुशोफंहली
मंचद्वूरस्तंभंचकामलाम् ॥ अर्शासिहीन्तिनोचि
त्रंहंसमण्डूरकाह्वयम् ॥ ७६ ॥ ग्रं० त०

१ मंडूर बनानेकी विधि-भाषानुवाद.—वहेडेकी लकड़ीके कोलसोंकी आंगामें
लोहेके कीटको खूब तपा तपा कर ७ बार गोमूत्रमें बुझाओ ॥ ७२ ॥
पथ्यात् महीन पीसकर उससे दूने त्रिफलाके काथमें उसे मिलाके १ हड्डीओं
भरदे और हड्डीका मुख सराईसे बदकर कपडमट्टसे ढढ करदेवे पीछे
उसे गजपुटमें फक्कदे तो उत्तम मंडूर होय ॥ ७३ ॥ ऐसा शार्हधरमें
लिखाहै, इस मट्टूरके अनुपान लोहभस्मके समान जानो

२ हंसमंडूर—एर्बोक्तप्रकारसे बनाये हुए मट्टूरको प्रथम त्रिफलाके काथमें
परलवरके पात् अष्टगुण गोमूत्रमें मिलाकर हड्डीमें भरकर पकाओ । पूर्वांक
गिरिमें फक्क, जब पक्ककर स्वागतितल होजाग तब सोंठ, मिर्च, पीपू,
मिठाया, नागरमोया, गायविटग, वाय, चित्रक, दाकहलटी, पीपलामल, और
देवदान इन सब समानका महीन चूर्ण उसमें मिलाकर खरल करे जब एकजीं
दोगाय तब इसमेसे १ रुम्म भर निय सेवन करे और उसके पवनेपर ऊपरसे
ग-५ पीसी नो पाटु, शोय, हलीमक, ऊरतम (पेरोका रहजाना) कोमला और
नर्दी (नाशीर) इन रोगोंको यह हसमट्टर नाश करता है इसमें सशय नहीं
है ऐसा अनन्तरमें लिखाहै ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

रसमाणम् ।

गकोदुंवरिकादुर्घर्वसंकिंचिद्विमर्दयेत् । तदुर्घर्वन्
यहिंगोद्धम् पायुगमंप्रकल्पयेत् ॥ ७७ ॥ क्षिप्त्वान
लंपुटेस्तुनंतत्रमुद्रांप्रदापयेत् ॥ धृत्वातंगोलकंप्रा
शोन्मृशासन्पुटेऽधिके ॥ ७८ ॥ पचेद्वजपुटेनैव
स्तुकंयानिनस्मताम् ॥ ७९ ॥

अन्धज्ञ—नागवल्लीरस्तैर्वृष्टिः कक्षोटीकं दग्धितः ॥
शुभ्रजूधासंपुटेपत्त्वासूतोयात्येव भस्मताम् ॥८०॥
भा० श्र० पू० ख० २ भा० ॥

भाषानुवादः—अब पारेकाभस्म बनानेकी क्रिया लिखते हैं—

१ पाराभस्म—कालेगूलरके दूधमे शुद्धपारेको कुछ कालतक घोटे, जब उसकी गोली बनजावे तब गूलरके दूधमे हीगको खरलकरके उसके २ मूप बनावे और उसगोलीको मूपमे रखकर उन दोनो मूरोंको गूलरके दूधमे खरल की छुर हाँगसेहि दृढजोड (मुद्रा) दंग, पश्चात् मुलतानीमट्ठीकी मूरोंमे या शरावसपुटमे उसपारकी नोठीमहिन द्वारोळ मूपको रखकर पक्की मुद्रा (कपडमट्ठी) से ढृ मुक्ति करदे और तुला तर गजपुटमे फ़कदे तो पाराभस्म होय ॥ ७७-७८-७९ ॥

२ प्रकार—शुद्धपारेको नागरवेशीके पानके रसमे घोटकर वाजकके डीके कदमे रखकर उसे शरावसपुटमे रखवे और उसे कपडमट्ठीसे ढृकर सुखावे पश्चात् गजपुटमे फ़कदे तो पारेकी भस्म होय ॥ ८० ॥ ऐसा भावप्रकाशमे लिखा है.

२ रससिद्धगविधि ।

सूतं पञ्चपञ्चस्वदोषरहितं तच्चुल्यभागो वलिद्वौटंकौ
नदसादरस्यतुवरीकर्षथसंमर्दितः ॥ कुप्यांकाच
भुविस्थितश्चसिकतायंत्रेत्रिभिर्वासौः पक्कोवहि
निरुद्धवत्यरुणभः सिन्दूरनाभारसः ॥८३॥ अं० त० ।

३ रसकर्परविधि ।

षिद्वांशुः दुष्प्रगाढसमलंवज्जांघुनाचैकसत्सूतं धातु
उत्तंखटीत्यलितं तत्संपुटेरोधयेत् ॥ अंतःस्थंलवण
स्त्रा राजा लेपज्वात्यवहिंहठाद्वलं प्राद्यमयेन्दु
कुन्दधवलं ग्रस्मोपरिस्थंशनैः ॥ ८२ ॥ अं० त० ।

२ रससिदूरवीधिः; भाषानुवादः—१ पल शुद्धपारा २ पल शुद्ध गवकरे
टकनवसागर १ कर्धनिटकरी इन सबोंको ३ दिनपर्यन्त घोटकर अग्नि सहन
शीला (आतशी) शीशीमें भरदे और उसपर कपडमट्ठी देकर ३ दिनपर्यन्त
वालुंकायत्रमें मद मध्य और तीव्र आच दंवे तो रक्तवर्णका रससिदूर बनजाएगा
॥ ८ ॥ १ ॥ ऐसा प्रथातरमें लिखाहै

३ रसकपूरवीधिः-शुद्धपारेको खारीनोन और थूहरके दूध सग घोटकर
लोहेके सपुटमें रखें और उस लोहसपुटका मुख खड़िया मट्ठीसे दृढ़ बदकर
इस सपुटको एकहड्डीमें रखकर उसमें नोन भरदे और उसे भड्डीपर चढाकर १
दिनभर आचदे, जब स्वाग शीतल होजावे तब उस सपुटको युक्तिसे निकाल-
कर ऊपरके सपुटमें जो श्वेतभस्म जमे उसे निकालले इसे रसकशर कहते
ऐसा रसमजरीमें लिखाहै ॥ ८ ॥

४ हिंगुलमा०—वल्लमात्रंतालीपिष्ठशरावेस्थापयेत्ततः॥

तस्मिन्कर्षसमंदेयं सकलं दरदस्यच ॥ ८३ ॥ पूरये
दार्दकरसेद्विंगुणं तत्र वुच्छिमान् ॥ पुष्पाणिशाणमा
त्राणिपरितः स्थापयेत्ततः ॥ ८४ ॥ शरावसंपुटेद
त्वाचुल्ल्यां मध्याग्निनापचेत् ॥ घटिकात्रयपर्यन्तं
ततउत्तार्यपेयेत् ॥ ८५ ॥ तावूलेगुंजमात्रं तु देयं
पुष्टिकां परम् ॥ पांडोऽस्येचशूलेच सर्वरोगेपुयोज
येत् ॥ ८६ ॥ यं० त० ।

पश्चात् उसपर दूसरा शराव रखकर सपुट कपडमझीसे ढट करदे और चूतहै-
पर रखने ३ घडी मदाग्निसे पकावे जब स्वाग शीतल होजाय तब सपुटमें
से हिंगुल, भस्मको निकालके खरल करले, इसमेंसे १ रती भस्म पानके साग
सेवन करे तो पुष्ट होय ओर पाडु, क्षीयी, शूल ये सब रोग दूर होंगे.इस भस्म-
को समस्त रोगमात्रपर विचारके देना चाहिये ऐसा प्रथातरमे लिखा
है ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

५ अभ्रकमा०—कृत्वाधान्याभ्रकंतचशोषयित्वाथम-
द्येत् ॥ अर्कक्षीरैदिनंखल्वेचक्राकारंचकारयेत्
॥ ८७ ॥ वेष्टयेदर्कपत्रैश्चसम्यगगजपुटेपचेत् ॥
पुनर्मर्द्यपुनः पाच्यंसप्तवारान्पुनःपुनः ॥ ८८ ॥
ततोवटजटाकाथैस्तद्वदेयंपुटत्रयम् ॥ म्रियते-
नात्रसंदेहः प्रयोज्यंसर्वकर्मसु ॥ ८९ ॥
भा० प्र० पू० खं० २ भा० ।

अन्यच-पीतामलकसौभाग्यपिष्टंचक्रीकृताभ्रकम् ॥
पुटितंपष्टिवाराणिसिंदूराभंप्रजायते ॥ क्षयाद्य
खिलरोगघंभवेद्रोगापनुत्तये ॥ ९० ॥ ग्रं० त० ।

६ हरितालमा०—पलमेकंशुद्धतालंकौमारीरसमदि-
तम् ॥ शरावसंपुटेक्षिप्त्वायामान्द्रादशकंपचेत्
॥ ९१ ॥ स्वांगशीतिंसमादायतालंकंचमृतंभवेत् ॥
गलत्कुष्ठंहरेचैवतालंकंचनसंशयः ॥ ९२ ॥ ग्रं० त० ।

अभ्रकमस्म-भापानुवाद—प्रथम धान्याभ्रकको आकडे के दूधमें १

१ शुद्ध अप्रकसे चतुर्थांश चावल लेकर दोनोंको कवलके टुकडेमें वाध ३
रिन रात पानीमें भीगनेदे पश्चात् उस पोटलीको उस पानीमें स्फ्र मर्दन करे जब
पाटलीमेंसे सफ्र अप्रक जलमें पाजावे तब उस जलके पात्रको टेटा करदे उसमें जो
नीचे अभ्रक जगजाये उसे लेले और ऊपरके पानीको फेकदे इसे धान्याभ्रककहते हैं।

दिन खरल करके उसकी छोटी २ टिकिया बनाके सुखावे ॥ ८७ ॥ पश्चात् उन टिकियोंको आकडेके पत्तोंसे लपेट २ कर गजपुटमें फुकदे, जब स्वागरी-तल होजावे पुनः अर्कद्रूधमें घोटकर पूर्ववत् फूके इसप्रकार ७ बार आकडेके द्रूधमें घोटघोटके फूकतेजावे ॥ ८८ ॥ पीछे बडकी जडके काथमें नोट २ कर तीनबार फूके तो अभकभस्म होय. इसे समस्त रोगोंमें पृथक् २ अनुपानोंसे देना चाहिये ऐसा भावप्रकाशमें लिखाहै ॥ ८९ ॥

दूसरा प्रकार—वान्याभक्तमें शुद्ध हरताल आवलेका रस और शुद्ध सुदामा मिलाकर घोटे और उसकी छोटी २ टिकिया बनाकर सुखावे पीने गजपुटमें फुकदे, इसप्रकार ३ आचदेनेसे सिद्धरके समान अभककी लालभस्म होग वह मम्म द्याविं सफलरोगोंको नाश करनेमें समर्थ है ऐसा ग्रथातरमें लिखाहै ॥ ९० ॥

३ हरितालभस्म— पल शुद्ध हरतालको गगरपाठेके रसमें घोटकर उमर्नी ग्रेडी २ टिकिया बनाकर उन्हें सुखाकर शरापसपुटमें रख १२ प्रहर-की आचरे तो हरतालभस्म होय वह गलित कुष्ठादि रोगोंका नाश करनेमें समर्थ ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥

७ वज्रमारणम्—मेषशूद्धभुजंगास्थिकृष्मपृष्ठाम्लतै-
तसान् ॥ शशादन्तंसमंपिष्ठावज्जीक्षिरेणगोल-
कम् ॥ कृत्वातन्मव्यगंवज्जियतेऽध्मातमेनहि
॥ ९७ ॥ भा० प्र० ॥

८ प्रवालमारणम्—स्वर्णमाक्षिकवन्मुक्ताप्रवालानिचमा
रयेत् ॥ ९४ ॥ शार्ङ्ग० ।

८ मूर्गकीभस्म०—सोनामक्खाके समान क्रियासे मोती और मूरगी भस्म होतंहैं ऐसा शार्ङ्गवरमे लिखा है ॥ ९४ ॥

इति श्रीमत्पडितज्ञारसरामविरचिते भापानुवादविभूषितेऽनु-
पानदर्पणे धातूवातुरसोपरसरतोपरतविषोपविपाणा
शोधनमारणविवेककथने सप्तम प्रमोद ॥ ७ ॥

अथातसुवर्णादीनांपकापकभस्मनोगुणागुणविवे
कं व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥

१ पकस्यसुवर्णभस्मनोगुणाः—स्वर्णशीतिंपवित्रंक्षयवभि
कस्नद्वासमेहास्पित्तं क्षैपयंक्षेडक्षतास्त्रप्रदरग
दहरंस्वादुत्तिकंकपायम् ॥ वृप्यंसेधाग्निकान्तिप्रद
मधुरसकं कार्यहानित्रिदोषोन्मादापस्मारशूलज्व-
रजयवपुषोबृहणनेत्रपथ्यम् ॥ २ ॥ अं० त० ।

मुवर्णका पक्काभस्म—भापानुवादः—अब हम इसके आगे सुवर्ण आदिके पक्का (पक्की) भस्मके गुण और अपक्क (कच्ची) भस्मके दोषोंको वर्णन करेंगे ॥ १ ॥

१ मुवर्णके पक्केभस्मके गुण—सुवर्णभस्म शीतल (ठटी), शुद्ध, स्वादिष्ट,
तीर्ण, कसेण, और मिष्ठ है क्षयी, वमन, खांसी, श्वास, प्रसेर, रक्तपित्त,
रीणता, विष, गाढ, रक्त (लाल) प्रदर, कृत्ता, त्रिदोष, उन्माद, अप-
ग्नार (मृगी), शूर और च्वर इन रोगनाशक वल, बुद्धि, काति, पुष्टि,
दिग्दर्थि, प्रकाशक हैं ॥ २ ॥

अपक्कस्वर्णभस्मदोषाः—वलंचवीर्यहरतेनराणारोगवजा
न्पोपयत्तीहकाये ॥ असौख्यकार्यचस्त्रैवहेसाऽप
कंसदोषं मरणं करोति ॥ ३ ॥

सुनेके कञ्चेभस्मके दोष—भाषानुवाद—सुनेका कच्चाभस्म वल, वीर्य और सुखकीहानि रोगगणकी वृद्धि, और मनुष्योंको मरण करताहै ॥३॥ प्र० त०।

२ पक्स्यरजतभस्मनोगुणाः-तारंचतारयतिरोगसमुद्रपा
 रंदैहस्यसौख्यदमिदं पालितंनिहन्ति ॥ हन्तीहरो
 गविषदोषमलंप्रसह्य वृष्यंपुनर्नवकरंकुरुतेचिरायुः ॥
 ॥ ४ ॥ ग्रं० त० ।

२ रूपेकेपक्षेभस्मके गुण—रूपेका पक्षाभस्म रोगसमुद्रसे पारलगानेवाला
 देहको सुखप्राप्त करनेवाला वृद्धता और विषदोपका नाशकरनेवाला तरुणता
 और आयुष्य देनेवाला है ॥ ४ ॥

अपकरौप्यभस्मदोषाः-अशुद्धंरजतंकुर्यात्पांडुकंडुगल
 ग्रहान् ॥ विविधंवीर्यनाशंचबलहानिशिरोरु
 जम् ॥ ५ ॥ ग्रं० त० ।

रूपेकेकञ्चे भस्मके दोष—भाषा०—रूपेका कच्चा भस्म पादु, खुजली, गलग्रह,
 काढिज, वीर्यनाश, बलहानि और शिरोरोगको करताहै ॥ ९ ॥

३ पक्स्यताम्रभस्मनोगुणाः-कुष्ठपूरीह ज्वरकफमरुच्छ्वास
 कासार्तिशोफस्तन्द्राशूलोदरकृमिवर्मीपांडुमेहाति
 सारान् ॥ अर्शोगुल्मक्षयभ्रमशिरोव्याधिमेहा
 दिहिक्षाशुद्धंशुल्वंहरति सततंवाहिवृद्धिकरोति ॥
 ॥ ६ ॥ ग्रं०त० ।

अपकरताम्रभस्मदोषाः-एकोदोषोविषेताम्रेत्वसम्युद्धमा
 रितेऽप्यते ॥ दाहःस्वेदोऽरुचिर्मूर्च्छाक्षेदोरेकोवामि
 भ्रमः ॥७॥ भा० प्र० ।

३ तावेकेपक्षेभस्मके गुण—तावेका पक्षाभस्म कुष्ठ, पूरीहा, कृमि, नमन,
 पादु, प्रमेह और हृचकीका नाश और अग्निवृद्धि करताहै ॥ ६ ॥ ऐसा
 ग्रथातरमें लिखाहै

तांवेके कब्बेभस्मके दोष-तावेता कच्चाभस्म दाह, स्वेद, अरुचि, मूर्छा,
जोका मलकना, रेचन, वमन और धम इन आठ दोषोंको करता है ॥ ७ ॥
ऐसा भावप्रकाशमें लिखा है।

४ पक्स्यवंगभस्मनोगुणाः—वल्यंदीपनपाचनंसूचिकरं
प्रज्ञाकरंशीतलं सौंदर्यकविवर्द्धनंहृतरुजंचारोगता
कारकम् ॥ धातुस्थैर्यकरंक्षयक्षयकरंसर्वप्रमेहापहं
वंगंभक्षयतोनरस्यनभवेत्स्वभेपिशुक्रक्षयः ॥ ८ ॥
ग्रं० त० ।

अपक्स्यवंगभस्मनोदोषाः—पाकेनहीनः खलुवंगको
सौकुष्ठानिगुल्मानिमहांतिरोगान् ॥ पांडुप्रमेहा
पचिवातशोणितंवलापहारंकुरुतेनराणाम् ॥ ९ ॥
ग्रं० त० ।

५ पक्यशदभस्मगुणाः—यशदंतुवरंतिक्तंशीतलंकफ
पित्तहृत् ॥ चक्षुप्यंपरमंमेहंपांडुश्वासंचनाशयेत्
॥ १० ॥ भा० प्र० ।

अपक्यशददोषाः—अपक्यशदरोगान्प्रमेहाजीर्ण-
मास्तान् ॥ वर्मिभ्रमिंकरोत्येनंशोधयेत्तागवत्तः ॥
॥ ११ ॥ ग्रं० त० ।

६ पक्नागभस्मगुणाः—क्षयपवनविकारेगुल्मपाढ्वामये
पुष्ट्रमकृमिकफशूलमेहकासामयेषु ॥ यहणिगुदग
देवेनपृवहौप्रशस्तः शुभविधकृतनागः कामपुष्टिंद
दाति ॥ १२ ॥ ग्रं० त० ।

अपकनागभस्मदोषाः—कुष्ठानिगुलमारुचिपांडुरोगान्क्ष
यंकफंरक्तविकारकुच्छम् ॥ ज्वराद्यमरीशूलभगंद्रा
द्वयं नागंत्वपक्कुरुतेनराणाम् ॥ ३३ ॥

४ कथीलके पक्केभस्मके गुण—भापानु०—वग (कथील) का पक्का
भस्म बल, रुचि, बुद्धि, शीतलता, सौंदर्यता, कविता, आरोग्यता और वातुस्थि-
रताकारक तथा क्षयी, प्रमेहादि समस्तरोगहारक और दीपन पाचन है, वंग-
भस्म भक्षण करनेवाले मनुष्यका स्वत्तमेभी वीर्य स्खलित नहीं होता ॥ ८ ॥

कथीलके कच्चेभस्मके दोष—कथीलका कच्चाभस्म कुष्ठ, गुल्म, पाढु,
प्रमेह, अपचि, वातरक्त इत्यादि महान् रोगकारक और वलहारक होता है ॥ ९ ॥
ऐसा प्रथातरमें लिखा है

५ जस्तेके पक्केभस्मके गुण—जस्तेका पक्काभस्म कसेला, कडवा
और ठढा है, कफ, पित्त, प्रमेह, कामला और श्वासनाशक तथा दिव्यदृष्टि
प्रकाशक है ॥ १० ॥ ऐसा भावप्रकाशमें लिखा है.

जस्तेके कच्चेभस्मके दोष—जस्तेका कच्चा भस्म प्रमेह, अर्जीर्ण और
भ्रमआदि अनेकरोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥

६ शीशेके पक्केभस्मके गुण—शीशेका पक्काभस्म क्षयी, वादी, गुल्म,
कामला, भ्रम, कुमि, कफरोग, शूल, प्रमेह, खासी, सप्रहणी, ववासीर,
गुदारोग और मदाशीको दूरकरताहै तथा बलको बढ़ाताहै ॥ १२ ॥

जीशेके कच्चेभस्मके दोष—शीशेका कच्चाभस्म, कुष्ठ, गोला, अरुचि,
पाढु क्षयी, कफरोग, रक्तविकार, मूत्रकुच्छ, घर, पर्वर्ण, शूल और
भगदर इन रोगोंको प्रगट करताहै ॥ १३ ॥

७ पक्कलोहभस्मगुणाः—लोहंसृतंकज्जलसांनिर्भंतुभुक्ते
सदायोरसराजयुक्तम् ॥ तस्यैवदेहेनभवन्तिरोगाम्
तोषिकासः पुनरेतिधाय ॥ १४ ॥ आयुः अदाताव
लवीर्यकर्त्तरोगस्यहर्ताभद्रनस्यन्तर्ता ॥ अवस्थसमा
नंनहिंकिंचिदन्यद्वायनंश्रेष्ठतमंवदन्ति ॥ १५ ॥

अपकलोहभस्मदोषाः-अप्लौबवस्तोकपुटेर्हीनंगं
धरयारदैः ॥ अपकलोहजंचूर्णमायुःक्षयकरंपरम्
॥ १६ ॥ पण्डत्वकुष्ठाभयमृत्युदं भवेद्वद्रोगशूलौ
कुरुतेऽमर्रिच ॥ नानारुजानांचतथाप्रकोपंकरो
तिहृलासमशुद्धलोहम् ॥ १७ ॥ अं० त० ।

७ लोहेके पहुँचमस्मके गुण-श्यामर्णवाले लोहेके पक्षमस्मको पारदभस्म
सहित जो निय सेवन करे उसके शरीरमें कभी रोग उत्पन्न नहीं होते और
नष्टहोगया कामभी पुन शरीरमें प्राप्त होताहै ॥ १४ ॥ आयु, वल, वीर्य और
कामको नडानेवाल, रोगनाशक जैसा लोहभस्महै वैसा और कोई त्रैष रसायन
नहींहै ऐसा वडे २ वैद्य कहते हैं ॥ १९ ॥

लोहेके क्वचिभस्मकेदोष-जिसमें लिखित औपव और पुटोंसे न्यून तथा
पारे गधक रहित लोहेका कच्चाभस्म सो आयुको क्षीण करताहै ॥ १६ ॥
तथा नयुसकृता, कुष्ठ, द्वद्रोग, शूल, और पत्थरी आदि रोगोंको उत्पन्न करता
जीर मृत्युको प्राप्तकरताहै ॥ १७ ॥ ये सब ग्रथातरमें लिखाहै.

८ पद्मसुवर्णमाक्षिकभस्मगुणाः-स्यान्माक्षिकस्ति-
लंसुदीपनः कटुर्दुर्नीमञ्चुष्ठाभयभूतनाशनः ॥
पांडुप्रजेहक्षयनाशनोलघुस्सत्त्वंमृतंतस्यसुवर्ण-
वद्धुणैः ॥ १८ ॥ अं० त० ।

अपकसुवर्णमाक्षिकभस्मदोषाः-अपकमाक्षिकेणाशु-
देहः संक्रमतेरुजा ॥ तदोषविनिवृत्यर्थमनुपानं
ग्रवीस्यहम् ॥ १९ ॥ अं० त० ।

९ पद्मरोपमाक्षिकभस्मगुणाः-माक्षिकोरजतहाटक-
प्रभदशोधितोऽतिगुणदस्युसेवितः ॥ मेहकुष्ठ-
कुमिरोफपांडुतापस्मृतिंहरतिसोऽमरीञ्जयेत् ॥
॥ २० ॥ अं० त० ।

अपकरौप्यमाक्षिकभस्मदोषाः-अपकरौप्यमाक्षिके-
णामयाअनेकाश्रभवन्ति ॥ २३ ॥

१० पकापकतुत्थभस्मगुणदोषाः-तुत्थभस्मकफंह-
न्तिपामांकुष्ठंविषंकुमीन् ॥ चक्षुष्यंलेखनंभेदि
शुद्धिहीनं हि दोषकृत् ॥ २२ ॥ ग्रं० त० ।

११ शुद्धशिलाजतुगुणाः-पांडुरंसिकताकारंकर्पूरा-
भंशिलाजतु ॥ मूत्रकुच्छाइमरीमेहकामलापाडु-
नाशनम् ॥ २३ ॥ ग्रं० त० ।

अशुद्धशिलाजतुदोषाः-अशुद्धंदाहसूच्छार्दीन्ध्रमपि
त्तास्वशोणितम् ॥ शिलाजतुप्रकुरुतेमांद्यमेघश्च
विङ्ग्रहम् ॥ २४ ॥ ग्रं० त०

८ सोनामकखीके पकेभस्मकेगुण—सोनामकखी तीक्ष्ण, दीपन, कटु और
हल्की है, यह, अर्श, कुष्ठ, पाढ़ु प्रमेह और क्षयीका नाश करती है इसका
पक्काभस्म सुवर्णभस्मके समान गुणकारकहै ॥ १८ ॥

सोनामकखीके कच्चे भस्मकेदोष—सोनामकखीके कच्चे भस्मके खानेसे दूर हमें
अनेकप्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं उनकी शातिका उपाय आगे ९ वें प्रमोदमें
वर्णन करेंगे ॥ १९ ॥

९ रूपामकखीके पकेभस्मकेगुण—रूपामकखी रूपे और सोनेके समान
कातिमती होती है यह शोधित अन्यत गुणदात्री और इसके पक्कभस्मसेवनसे
प्रमेह, कुष्ठ, कूमि, शोथ, कामला, अपस्मार तथा पथरी आदि अनेक रोग
दूर होते हैं ॥ २० ॥

रूपामकखीके कच्चे भस्मकेदोष—रूपामकखीके कच्चे भस्म भक्षण करनेसे
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ २१ ॥

१० नीलेयोथेकपकेभस्मकेगुण और कच्चे केदोष—नीलेयोयेका पक्काभस्म
कफ, खुजबी, कुष्ठ, विष, नेत्ररोग और विवरका नाश करता है और नीले-
योथेका कड़ानस्म रोगकारकहै ॥ २२ ॥

११ शुद्धशिलाजीतके गुण-शुद्धशिलाजीत मूर्छन्त, पथरी, प्रसेह कामला और पाण्डुका नाश करता है ॥ २३ ॥

अशुद्धशिलाजीतकेदोष-अशुद्धशिलाजीत दाह, मूर्छा, घम, रक्तपित्त, लघिरकोप, मदाग्नि और मलावरोध करता है ॥ २४ ॥

१२ पक्षपारदभस्मगुणः—यावद्वहरवीजंतुभक्षयेत्पा रदंमृतम् ॥ तावत्स्यकुतोमुक्तिभोगादोगाद्वा दपि ॥ २५ ॥

अन्य०—मूर्छातोगदहत्थैवखगतिंधत्तेविवद्वोऽर्थ
दस्याद्वस्मामयवार्धकादिहरणद्वपुष्टिकान्तिप्र
दम् ॥ वृज्यंमृत्युविनाशनंबलकरंकान्ताजनानंद
दंशाद्वूलातुलसत्त्वकृच्चभुविजान्तोगानुसारीस्कु
टम् ॥ २६ ॥

अशुद्धापकपारदभस्मदोषाः संस्कारहीनःखलुसूतरा
जोयस्सेवतेतस्यकरोतिवाधाम् ॥ देहस्यनाशांवि
दधातिनूनंकुष्ठादिरोगाञ्जनयेन्नराणाम् ॥ २७ ॥

१२ परेकेपक्षेभस्मके गुण-भापानुवादः—जवतक मनुष्य परेके भस्मका सेवन नहीं करता तवतक भोग, रोग और ससारसे छुटकारा नहीं पाता ॥ २९ ॥

अन्यच्च-मूर्छितपारा रोगोंका नाश और आकाशमार्गमें चलनेकी शक्ति करनेता है, बद्ध (वैधादुआ, पारा धनग्रद होता है मृतपारा तरुणता, दिन्यदृष्टि, काति, वीर्य, वल, द्विष्मिभोगमें आनद देनेवाला मृत्युनाशक सिंहसमान परामर्श कारक और समस्त रोगहारक होता है ॥ २६ ॥

अशुद्ध तथा अपक्षपारंकं दोष-अशुद्ध परेके सेवनसे शरीरपीड़ा कुष्ठ जादि अनेक रोग और मृत्युभी होना सम्भव है ॥ २७ ॥

१३ शुद्धरससिंदूरगु०—हरतिचरससिंदूरंकासश्वासा
ग्रिमान्यमेहगणान् ॥ रक्तविकारंकृच्छ्रुञ्जवरादिरो
गान्यथानुपानयुतम् ॥ २८ ॥

(१०८)

अनुपानदपर्णः ।

अशुद्धरससिंदूरदोषाः—रससिंदूरमशुद्धाद्रसांच्छिजातं
पारदवद्रोगान् ॥ कुर्याच्चेतच्छान्त्यैवृतमरिचरजः
पिवेन्नुसप्तदिनम् ॥ २९ ॥ ग्रं० त० ।

१४ रसकर्पूरगु०—देवकुसुमचन्दनकस्तूरिकुंकुमैर्युक्तम् ॥
खादन्हरतिफिरंगंव्याधिं सोषद्रवंघोरम् ॥ विन्द
तिवहेदींसिंपुष्टिवीर्यवलंविपुलम् ॥ रमयतिरभणी
शतकंरसकर्पूरस्यसेवकःसततम् ॥ ३० ॥ भा० ग्र० ।
अशुद्धरसकर्पूरदोषाः—सेवितोऽविधिनाकुष्ठंसन्धिवा
तंकफाधिकम् ॥ रसकर्पूरकंकुर्यात्तस्माद्यत्नेनसे
वयेत् ॥ ३१ ॥ ग्रं० त० ।

१५ शुद्धगन्धकगुणाः—शुद्धोगन्धोहरेद्रोगान्कुष्ठमृत्यु
ज्वरादिकान् ॥ आग्निकारीमहानुष्णोवीर्यवृद्धिं
करोति हि ॥ ३२ ॥ ग्रं० त० ।

अशुद्धगन्धकदोषाः—अशुद्धगन्धःकुरुतेचकुष्ठंतापंभ्रमं
पित्तरुजांतथैव॥रूपंसुखंवीर्यवलंनिहन्तितस्माद्विः
शुद्धोविनियोजनीयः ॥ ३३ ॥ ग्रं० त० ।

१६ शुद्धहिंगुलगुणाः—तिक्तंकधायंकदुहिंगुलस्यान्नेत्राम
यन्त्रंकफपित्तहारी ॥ हृष्टासकुष्ठज्वरकामलाचपुरी
हामवातौचगदंनिहन्ति ॥ ३४ ॥ ग्रं० त० ।

अशुद्धहिंगुलदोषाः—अशुद्धोदरदःकुर्यात्कुष्ठक्षेव्यंकृमं
भ्रमम् । मोहंचशोधयेत्तस्मात्सद्वैद्यस्तुहिंगुल
म् ॥ ३५ ॥ ग्रं० त० ।

१७ शुद्धरससिंदूरकेगुण—शुद्धरससिंदूर कास, मदाग्नि, प्रमेह, रक्त-
मिक्कार मूत्रकूच्छ और व्यादि अनेकरोगोंका पृथक् २ अनुपानसे नाश
करनाहे ॥ २८ ॥

अशुद्धरससिंहदूरकेदोष—अशुद्धरससिंहदूर अशुद्धपारंकेसमान रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ २९ ॥ यह सन् प्रथातरमें लिखा है ।

१४ शुद्धरसकर्पूरगुण—लग नदन कस्तरी और केशर सग शुद्ध रस-कर्पूर सेननकरनेमें वोरउपद्रवोत्थित फिरगरोग दूर होता है और इसका सेवन करनेवाला पुल्प अभिदीपन, पुष्टि, बल, वीर्य और शतधीरमणशक्तिको प्राप्त होता है ऐसा भावप्रकाशमें लिखा है ॥ ३० ॥

अशुद्धरसकर्पूरदोष—अशुद्धरसकर्पूरसेनसे कुष्ठ, सधिनात (गठिया) और कफवाहुत्य आदि रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥

१५ शुद्धगंधकगुणा—शुद्धगंधक कुष्ठ, मृत्यु, ज्वर आदि रोगनाश अभिप्रकाश और वीर्यवृद्धिको करता है ॥ ३२ ॥

अशुद्धगंधकदोष—अशुद्धगंधक कुष्ठ, ताप, घम और पित्तरोगको उत्पन्न और रूप सुख बल तथा वीर्यका नाश करता है ॥ ३३ ॥

१६ शुद्धहिगुलकेगुण—शुद्धहिगुल तीखा, कपैला और कटगा है, नेप-रोग, कफरोग, पित्तरोग हृद्रोग, कुष्ठज्वर, कमउ (पीठिया) तापतिल्डी और थामग्रान्त दून रोगोंका नाश करता है ॥ ३४ ॥

अशुद्धहिगुलदोष—अशुद्धहिगुल नपुनकता, परिध्रम घम और मोह उत्पन्न करता है इसलिये इसे सदैव उत्तमप्रकाशमें सेवि ॥ ३५ ॥

१७ पक्षाभ्रकमस्मगुणाः—सृता कंकामवलप्रदंचविषं-
मरुच्छासभगन्दराख्यम्॥मेहभ्रमंपित्तकफंचकासं
क्षयंनिहन्त्येवयथानुपानात् ॥ ३६ ॥ अं० त० ।

अपक्षाभ्रकरास्मदोषाः—चन्द्रिकात्तहितमध्रकंयदाजीवि
तंवाटितिनाशयेत्तदा ॥ व्याघरोन्निवचोदरस्थि-
तंवातनोवितनुतेगदान्वहन् ॥ ३७ ॥ अं० त० ।

- १८ पक्षहरितालभस्मगुणाः-अशीतिवातान्कफपित्त
रोगान्कुष्ठंचमेहंचगुदामयांश्च ॥ निहन्तिगुंजार्ज
मितंतुतालं षड्वल्लखंडेनसमंचयुक्तम् ॥ ३८ ॥
अपक्षहरितालभस्मदोषाः—अशुद्धतालंखलुपीतवर्णसधू
मकंवातचयंचपित्तम् ॥ पद्मत्वकुष्ठंतनुतेचतेनदेहस्य
नाशंप्रकरोतिसद्यः ॥ ३९ ॥
- १९ शुद्धमनशिलागुणाः—मनशिलासर्वरसायनाख्या
तिक्ताकटूष्णाकफवातहंत्री ॥ सत्त्वात्मिकाभूतवि
षाग्निमांद्यंकंडुंचकासक्षयहारिणीच ॥ ४० ॥
अशुद्धमनशिलादोषाः—मनशिलामंदवलंकरोतिजंतू
न्धुवंशोधनमन्तरेण ॥ मलस्यवन्धंकिलमूत्ररोगंस
शर्करंकृच्छ्रगंचकुर्यात् ॥ ४१ ॥
- २० शुद्धसौवीरगुणाः—सौवीरंग्राहिमधुरंचक्षुष्यंकफवा-
तजित् ॥ सिध्मक्षयास्तनुच्छीतंस्त्रोतोञनमपीटशम्
॥ ४२ ॥ म० प० नि० ।
अशुद्धसौवीरदोषाः—अशुद्धसौवीरादेहेनेत्रेचभवन्तिरो
गाः ॥ ४३ ॥

१७ अन्नके प्रभावस्मके गुण—अभकका पक्का भस्म काम और
बलप्रद तथा विप, वातश्वास, भगदर, प्रमेह, धम, पित्त, कफ, कास और
क्षयी नाशकहै ॥ ३६ ॥

अन्नके कच्चे भस्मके दोष—अभकका कच्चा चमकदार भस्म खानेसे
योद्देही काशमें अनेक रोग शरीरमें उपन होते हैं और प्राणहानि हो तो भी कोई
आर्वन नहीं जैसे मिहका केत्र (बाल) पेटमें जानेसे अनेक रोग हो जाते हैं
जैसे ॥ ३७ ॥

१८ हरितालकं पक्कमस्मकं गुण—हरितालकापक्षाभस्म ८० प्रकारके
गतरोग, पित्तरोग, कफरोग, कुष्ठ, प्रमेह और गुदाके रोगोका नाश करताहे
इसमीं आधी चिरमिठी मात्रा ६ रत्ती मिश्री सग खाना चाहिये ॥ ३८ ॥

हरितालकं कच्चे भस्मके दोप—पीत अशिपर डालनेसे जिससे धूवा निकले
ऐसा हरितालका कच्चा भस्म वातव्याधि, पित्त पगुलरोग और कुष्ठको उत्पन्न
करता तथा देहका नाश करता है ॥ ३९ ॥

१९ शुद्धमनशिलके गुण—शुद्धमनशिल—सर्व रसायनमें, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण
और सत्त्व (सत) स्वपूर्वी यह कफ, वात, भूत, विष, अम्लमाद्य, खुजली,
कास और क्षयीको दूर करताहै ॥ ४० ॥

अशुद्धमनशिलके दोप—अशुद्धमनशिल—अत्यवल, कुमि, मलावरोध, मूत्ररोग
और पथरी सहित मूत्रकुच्छुको उत्पन्न करता है ॥ ४१ ॥

२० शुद्धकालेसुरमेकेगुण—शुद्ध काला सुरमा (सोवीर) ग्राही, महुर, ठडा
नेत्ररोगहारक, कफ, वात, सिव्या (विभूति) क्षयी और रक्तज रोग नाशकहै.
इसी प्रकार ज्वोतोजनभी होताहै ॥ ४२ ॥

अशुद्धकालेसुरमेकेदोप—अशुद्धकाले सुरमेने देहमें और नेत्रमें अनेक रोग
उत्पन्न होते हैं ॥ ४३ ॥

२१ शुद्धखर्परगुणाः—त्रिदोषजित्पित्तकफातिसारक्षयज्व
रघ्नोरसकोतिरुक्षः ॥ नेत्रामयानां प्रकारोतिनाशं
स्यादंजकः कामलनाशनश्च ॥ ४४ ॥ ग्रं० त० ।

अशुद्धखर्परदोषाः—अशुद्धः खर्परः कुर्याद्वांतिं अर्थांतिवि
शेपतः ॥ तस्माच्छोध्यः प्रयत्नेन यावदान्तिविव
जितः ॥ ४५ ॥ ग्रं० त० ।

२२ पद्यवज्रनस्मगुणाः—आधुः प्रदंसहुणदंचबृप्यं दोषजय
प्रशमनं सफला मयम् ॥ तु तंन्द्रवंधवधसहुणदं प्रदी
तं मृत्युजयेत्तदमृतोपममेववज्रम् ॥ ४६ ॥ ग्रं० त०

अशुद्धपकवज्जभस्मदोषाः-पीडांविधनेविधानराणां
कुष्ठंक्षयंपांडुगदंचुष्टम् ॥ हृत्पाइर्दीडांकुरलेतिदु
स्सहामशुद्धवज्रंगुरुवात्महंत्यजेत् ॥ ४७ ॥ अं०त० ।
२३ पकवैक्रांतभस्मगुणाः—वैक्रातवज्जसद्वशोदेहलोहक
रोमतः ॥ विषद्वोरसराजस्य ज्वरकुष्ठक्षयघ्नुत्
॥ ४८ ॥ अं०त० ।

अशुद्धपकवैक्रांतभस्मदोषाः-अशुद्धवैक्रांतोवज्जवदो
षकर्त्ताभवति ॥ ४९ ॥

२४ शुद्धप्रवालभस्मगुणाः—प्रवालंमधुरंसाम्लंकफपि
त्तार्तिंदोषनुत् ॥ वीर्यकांतिकरंबीणांधृतेमंगलदा
यकम् ॥ ५० ॥

क्षयपित्तास्वकासद्वीपनंपाचनंलघु ॥ विषभूतादि
शमनंविदुमनेत्ररोगहृत् ॥ ५१ ॥

अशुद्धप्रवालदोषाः अशुद्धप्रवालभक्षणान्दवन्तिरोगा
ह्यनेकाः ॥ ५२ ॥

२५ शुद्धखपरियाके गुण—शुद्ध यापरिया रखता है मिदोष, पित्त, कफ,
अतिसार, क्षयी, ज्वर, नेत्ररोग कामला नाशक और वातविकाशक है ॥ ५३ ॥

अशुद्धखपरियाके दोष—अशुद्ध लपरिया वाति वा तिकारक होता है इन
ठिने वातिकारक दोष दूर होनपर्यन्त इसका शोवन करना चाहिये ॥ ५४ ॥

२६ हीरेके पक्कमस्तके गुण—हीरेका पक्का भग्न बायु मरुण, रु, गीर्वि
कारक, विदोष सकल रोग तथा मृत्युहारक, पारद मारक और अमृत समान
उपायारक है ॥ ५५ ॥

अशुद्ध हीरेकेतथाकच्चेभस्मके दोष—अशुद्ध हीरा तथा इसका कच्चा भस्म मनुष्योंके अनेक प्रकारकी पीड़ा कुष्ट, क्षयी, पाड़, हृतीड़ा पार्वपिड़ा और मृत्युभी कर देता है ॥ ४७ ॥

२३ दैक्षातके क्षेत्रस्मके गुण—वैक्रातका पक्षा भस्म हीरेके भस्मसमान गुणकर्ता देह दृट करनेवाला और पारेका विष, जर, कुष्ट, तथा क्षयी इनका नाशकरनेवाला है ॥ ४८ ॥

२४ वैक्रातके क्षेत्रस्मके दोष—वैक्रातका कच्चा भस्म हीरेके भस्म समान दोषकार्गत है ॥ ४९ ॥

२५ शुद्धमूर्गोंके गुण—शुद्धमूर्गा मधुर और कुछ अम्ल है कफ पित्तजन्य पीड़ा क्षयी रक्तपित्त, काश विष, भूतवाधा और नेत्ररोग इनको दूर करनेहारा खिंयोंके मगलदायक और दीपन तथा पाचन है ॥ ५० ॥ ५१ ॥

अशुद्धमूर्गोंके दोष—भापानु०—अशुद्धमूर्गोंके मक्षणसे अनेकरोग होते हैं ५२

२५ विषस्यगुणागुणप्रदर्शनम्—विषंप्राणहरंप्रोक्तंव्य
वायिचविकाशिच ॥ आमेयंवातकफहद्रोगवाहि
मदावहम् ॥ ५३ ॥ तदेवयुक्तियुक्तंतुप्राणदायिर
सायनम् ॥ पथ्यादिनांत्रिदोषघ्नंवृहणंवीर्यवर्द्धनम्
॥ ५४ ॥ येदुर्गुणाविषेऽशुद्धेतस्यर्हनाविशोधनात् ॥
तस्माद्विषंप्रयोगेषुशोधयित्वाप्रयोजयेत् ॥ ५५ ॥ अं०त०

२५ विषकंदोष और गुणोंका दर्शन—अशुद्ध विष प्राण हर्ता सर्व देहमें प्राप्त होकर पवात् पचनेवाला ओजको सुखाकर सधियोंको टीला करदेनेवाला एवं उप्त, वात, वाप्तारक, देहमें रसजानेवाला और मदकारक है ॥ ५३ ॥ और यही शुद्ध विष युक्तिसे सेवित प्राण, रक्त, वीर्य, बुद्धिदायक, त्रिदोषनाशक और पव्यन्ते खानेवारोंका वीर्यवर्द्धक है ॥ ५४ ॥ जो अशुद्ध विषमें दुर्गुण (दोष) वर्णन कियोंहैं वे रासग्राहक दोष शोधनमें दूर होतांहैं इसलिये विषमें शुद्ध करके दीर्घी तक जितनस्ता चाहिये ॥ ५५ ॥ यह सब व्याप्तातरमें लिखाहैं। इन्हि नीतिहरणस्तरागति गतेनानुवादिन्पितेऽनुशानदर्पणे सुर्णा दर्नाप्राप्तकर्मनोगुणागुणिः रक्तव्यनेऽप्यग्र प्रमोद ॥ ८ ॥

अथातोऽपकधात्वादिदोषशान्तिविवेकं
व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥

- १ अपकस्वर्णदोषशांतिः—अभयासितयाभुक्तात्रिदिनं नृभिरंगजे ॥ हेमदोषहरीख्यातासत्यंसत्यंसंशयः २
- २ अपकरौप्यदोषशांतिः—शर्करामधुसंयुक्तासेवयेद्यो दिनत्रयम् ॥ अपकरौप्यदोषेणविमुक्तःसुखमश्नुते ३
- ३ अपकताम्रदोषशांतिः—मुनिव्रीहिसितापानंवाधा न्याकंसिताश्चकैः ॥ ताम्रदोषमशेषंवैपिवन्हन्यादि नत्रयैः ॥ ४ ॥
- ४ अपकवंगदोषशांतिः—मेषशृंगीसितायुक्तांयस्सेवति दिनत्रयम् ॥ वंगदोषविमुक्तोसौसुखंजीवतिमानवः ५
- ५ अपक्यशददोषशांतिः—वलाभयांसितायुक्तांसेवये योदिनत्रयम् ॥ यशदस्यविकारोस्यनाशमायाति नान्यथा ॥ ६ ॥
- ६ अपकनागदोषशांतिः—हेमाहरीतकींसेवेत्सितायुक्तां दिनत्रयम् ॥ अपकनागदोषेणविमुक्तस्सुखमेधते ७ ॥
- ७ अपकलोहदोषशांतिः—मुनिरसपिष्टविडंगंमुनिरस लीढांचिरस्थितेवम्भे ॥ द्रावयतिलोहदोषान्वहिन्व नीतपिण्डमिव ॥ ८ ॥
- ८ अपकलोहजन्यकीटशांतिः—आरग्वधस्यमज्जातुरेच नंकीटशांतये ॥ भवेदप्यतिमारश्वपीत्वादुग्धंनुत- त्यजेत् ॥ ९ ॥

अब कच्चीधातु आदिके खानेसे जो विकार होतेहैं उनके शान्तिका विवेक पर्णन करेगे ॥ १ ॥

अपक्षुर्वर्णदोपशाति-भापानुवादः- हृड और मिश्रीको तीन दिन खानेसे अशुद्ध (कच्चे) सुर्वाभस्म सेवनेसे जो विकार हुए हो वे सब शान्त होयें ॥ २ ॥

अपक्षरौप्यदोपशाति-मिश्री और सहतका तीन दिन सेवनकरनेसे चाँदीके कच्चे भस्मजन्य विकार शात होयें ॥ ३ ॥

३ अपक्षताम्रदोपशाति-मुनिवीहि (सार्वा) अयग धनियेको मिश्री सग मिलाकर जलके साथ ३ दिनतक पानकरे तो कच्चे ताम्रजनित दोप शात (दूर) होय ॥ ४ ॥

अपक्षवंगदोपशाति-मेडासिंगीको मिश्री सग तीन दिनतक सेवनकरने ने कच्चे वग (कर्पील) विकार शान्त होवे ॥ ५ ॥

५ अपक्षयशद्दोपशाति-छोटी हृड और मिश्रीका तीन दिन पर्यन्त सेवन करनेसे कच्चे जस्त भस्मके खानेसे जो विकार हुए हों वे समस्त शान्त होयें ॥ ६ ॥

६ अपक्षनागदोपशाति-चोख और हृड मिश्री सग ३ दिनपर्यन्त सेवनकरनेसे अपक्ष नाग (सीसा) विकार शात होय ॥ ७ ॥

७ अपक्षलोहदोपशाति-अगस्त्यवृक्षके रसमें वायविडगके चूर्णको मिला कर सेवन करे और वहत कालतक धूपमें बैठे तो कच्चे लोहभस्म जन्य दोप (निकार) दूर होयें जैसे अग्नि माखनको पिवला देतीहै वैसेही यह उपचार अपक्ष लोहविकारको पिवलाकर जडसे दूर करदेताहै ॥ ८ ॥

८ अपक्षलोहजन्यकीटशाति-अपक्ष (कच्चे) लोह भस्मसे यदि पेटमे कूमि (कीडे) पटजावें तो अमलतासका गूदा खावें जिसमें रेचन (दस्त) होनेसे समस्त पेटके कीटे वाहर निकल जावेंगे पश्चात् दूधको पानकरे और उस अपक्ष लोह-भस्म सेवनका त्यागनकरदेवे ॥ ९ ॥

९ अपक्षस्वर्णमाक्षिकदोपशांतिः-कुलत्थस्यकषायेणमा क्षिविकृतिशान्तिकृत् ॥ तथैवदाडिमांत्वग्वैदेयंदे हसुखार्थिने ॥ १० ॥ अं० त० ॥

१० अपक्रौप्यमाक्षिकदोषशांतिः—विकारोयदिजायेत्
विमलायानिषेवणात् ॥ शर्करासहिताभक्ष्यासेव
शृंगीदिनन्त्रयम् ॥ ११ ॥ अं. त. ॥

११ अपक्रुत्तथदोषशांतिः—जंबीररसमादाययःपिवेच्चदि
नन्त्रयम् ॥ तस्यतुत्थकशांतिःस्यात्तद्व्लाजाजवारि
णा ॥ १२ ॥ अं. त. ।

१२ अशुद्धशिलाजीतदोषशांतिः—मरीचंवृतसंयुक्तंसेवये
द्विनसतकम् ॥ शिलाजतुभवंदोषंशान्तिमान्तेति
निथितम् ॥ १३ ॥ अं० त. ।

९ कच्चीसोनामकखीकेदोपोंकीशांति—भाषानुवादः—कुलथीके काटेसे अथवा
अनारकी छालके काखसे कच्ची सोनामकखीके विकार शात होय ॥ १० ॥

१० कच्चीरूपामकखीकेदोपोंकीशांति—मिश्री सहित मेढासिंगीका चूर्ण ३
दिन पानेसे कच्ची रूपामकखीके विकार शात होय ॥ ११ ॥

११ कच्चेनीलायोथेफेदोपोंकीशांति—३दिनपर्यन्त जगीरके रस अथवा लाही
(वानकीयोल) के जल पीनेसे दब्बे नीलेथोथेजन्य विकारेंकी शाति होय ॥ १२ ॥

१२ अशुद्धगिलाजीतकेदोपोंकीशांति—काळी मिठ्च और वृत ७ दिनपर्यन्त
सेवन करनेसे अशुद्ध शिलाजीतके भक्षणमें जो विकार हृण हो उनहीं शानि
टेव ॥ १३ ॥

१३ अशुद्धापकपारदोषशांतिः—विकारायदिजायन्तेगा
रदान्त्मलसंयुतात् ॥ गन्धकंसेवयेद्वीमान्पाचितंवि
धिपूर्वकम् ॥ १४ ॥ अं० त० ।

१४ अशुद्धररासिंदूरदोषशांतिः—तसिंदूरशास्त्रेवृतम
रिचरजःपिवेत्मतदिनम् ॥ १५ ॥

१५ अशुद्धरसकर्पूरदोषशांतिः-सहिषीशकृतोनीरं वान्या
कंवासितायुतम् ॥ पिवेन्नीरेणमुक्तःस्थाडसकर्पूरजे
गेदैः ॥ १६ ॥ ग्रं. त. ।

१६ अशुद्धगंधकदोषशांतिः-विकारोयदिजायेतगन्धका
बेत्तदापिवेत् ॥ गोघृतेनान्वितं क्षीरं सुखीस्यात्स-
चमानुषः ॥ १७ ॥ ग्रं० त. ।

१७ अशुद्धहिंगुलदोषशांतिः-उत्पद्यतेयदाव्याधिर्दरद-
स्यनिषेवणात् ॥ तदासूतकवत्सर्वाकुर्याच्छान्ति
प्रतिक्रिया ॥ १८ ॥ ग्रं. त. ।

१८ अपकाश्रकभस्मदोषशांतिः-उमाफलंवनैपिष्ठासेवये
योदिनत्रयम् ॥ अशुद्धाश्रकदोषेणविमुक्तसुखमे
धते ॥ १९ ॥ ग्रं. त. ।

१९ अपकहरितालभस्मदोषशांतिः-अजाजीशकरायुक्तं
सेवयेयोदिनत्रयम् ॥ विकृतिस्तालजाहन्याद्यथा
दारिन्नमुव्यमे ॥ २० ॥ ग्रं. त. ।

२० अशुद्धमनक्षिलादोषशांतिः-गोक्षीरं माक्षिकयुतं
पिवतेयोदिनत्रयम् ॥ कुनटीतस्यदेहेचविकारं न
करोतिहि ॥ २१ ॥ ग्रं. त. ।

२१ अशुद्धसोवीरदोषशांतिः-क्षिफलासेवनाद्यवित्सौ
वीरजनितविकाराणशांतिः ॥ २२ ॥

२२ अशुद्धखर्परदोषशांतिः-रसकनिषेवणतोयदिरोगः

प्रादुर्भवन्ति मनुजानाम् ॥ तेनाशमाप्नुवन्ति पीतं
गोमूत्रसस्ताहम् ॥ २३ ॥ ग्रं. त. ।

१३ अशुद्धतथाकच्चेपारेकेदोषांकीशांति—शुद्ध गवकके सेवनसे अशुद्ध तथा अपक (कच्चे) पारेसे जो विकार उत्पन्न हुएहों उनकी शातिहोय ॥ १४ ॥

१४ अशुद्धरससिंदूरकेदोषोकीशांति—७ दिनपर्यन्त काली मिरचका चूर्ण धाके सग सेवनकरनेसे अशुद्ध रससिंदूर खानेसे जो विकार उत्पन्न हुएहों उनकी शाति होय ॥ १५ ॥

१५ अशुद्धरसकर्पूरदोषशांति—भैसके गोवरका रस अथवा मिश्री सहित वनियाँ जलसे पान करेतो अशुद्ध रसकर्पूर जन्य विकार शात होय ॥ १६ ॥

१६ अशुद्धगंधकडोषशांति—गोवृत सहित दूध पीनेसे अशुद्ध गवकके पिकार शात होय ॥ १७ ॥

१७ अशुद्धहिगुलकेदोषोकीशांति—अशुद्ध पारेके विकारोकी शातिको जो उपाय पूर्व कह चुकेहैं वही अशुद्ध हिगुलके विकारोकी शातिका उपाय जानो ॥ १८ ॥

१८ कच्चेअध्रककेदोषोकीशांति—आपलेको पानीमें पीसके ठंडाईके समान छानकर ३ दिनतक पीवितो अशुद्ध अध्रकजन्य दोप (विकार) शात होय ॥ १९ ॥

१९ हरितालकेकच्चेभस्मकेदोषोकीशांति—जीरा और मिश्री मिलाकर ३ दिनतक सेवन करेतो अशुद्ध (कच्चे) हरितालके विकार शात होय ॥ २० ॥

२० अशुद्धमनगिलकेदोषोकीशांति—३ दिनपर्यन्त गोके टूंबेम सहृत निळाकर पीनेसे अशुद्ध मनशिळके पिकार शात होय ॥ २१ ॥

२१ अशुद्धमुरमेकेदोषोकीशांति—त्रिफला सेवन करनेसे अशुद्ध सुरमें पिकार शात होय ॥ २२ ॥

२२ अशुद्धखपाग्नियेकेदोषोकीशांति—७ दिनपर्यन्त गोमूत्र पीनेसे अशुद्ध नम्रिनके दोप ' पिकार , शात होय ॥ २३ ॥

३ अशुद्धापकवज्रभस्मदोषशांतिः—सितामधुघृतैस्सा
कंगोदुर्गंधंदिनसप्तकम् ॥ विधिनासेवितंहंतिवज्रदो
पंचिरोत्थितम् ॥ २४ ॥

२४ अशुद्धापकवैक्रांतभस्मदोषशांतिः—शुद्धवैक्रांतभ
स्मशांतिर्वज्रवज्ज्ञेया ॥ २५ ॥

२५ अशुद्धप्रवालदोषशांतिः—अशुद्धप्रवालमौक्तिकयोर
पिविकारशांतिर्वज्रवज्ज्ञेया ॥ २६ ॥

२६ विषदोषशांतिः—अतिमात्रंयदाभुक्तंवमनंतस्यका
रयेत् ॥ अजादुर्गंधंदेत्तावद्यावद्वांतिर्नजायते ॥
॥ २७ ॥ ग्रं० त० ।

अजादुर्गंधंयद्याकोष्ठस्थिरीभवतिदेहिनः ॥ विषवे-
गंततोजीर्णजानीयात्कुशलोभिषक् ॥ २८ ॥ ग्रं. त.

२७ जैपालदोषशांतिः—धान्याकंसितयायुक्तंदधिनास
हयःपिवेत् ॥ देहेजैपालजोड्याधिर्नाशमाप्नोति नि
श्चितम् ॥ २९ ॥ ग्रं. त. ।

२३ अशुद्धतथाकब्ज्ञहिंकेदोपांकीशाति—उदितक मिश्री सहत आर
गंभित गोका दूध पानेने अशुद्ध तथा अपक (कंवे , हरेक समत्त पिकार
शात दोय ॥ २८ ॥

२४ अशुद्धवैक्रांतदोपशानि—हीरेके पिकारशाति उपायमे वक्ताति विका-
रको नाति होताहौ ॥ २९ ॥

२५ अशुद्धमूँगेफटांपांकीशानि—अशुद्ध मूँगे और मोतके पिकार
गानिमा उपचारनी अशुद्ध हीरेके विकार शातके उपचार समान जानो २६ ॥

२६ विषदोपशांति—वच्छनाम आदि अशुद्ध एव गम्भीर तारेमें आजारे
तो उसे वमन (डलटी) करावे और बकरीके दूधका एवं न जावे न वह
दूध पचकर वमन न हो तब जानलो कि, विष दोष जातहुआ ॥२७॥ २८॥

२७ अशुद्धजमालगोटेकेदोषोक्तीशांति—वनियों और निश्रो दर्हणमें
मिलाकर खिलानेसे अशुद्ध जमालगोटेके समस्त विकार शात होयें ॥ २९॥
ये सब उपाय ग्रथान्तरमें लिखेहैं

गीतिः ।

अङ्कुरध्यङ्कावजेऽद्यैशुभ्रेचरामजन्मानिथो ॥
शारसरामश्वकेलुपानदर्पणमसुंकुजेषूणीम् ॥ ३० ॥
इति श्रीमत्पिण्डितज्ञारसरामविरचितेभाषानुगादविभूषितेऽनुपानदर्पणेऽ
परागालादिदोपशातिविवेककथनेनग्रम प्रमोदः ॥ ५ ॥

समाप्तोऽयंग्रन्थः ।

इग ग्रंथकर्ताका जन्मसंवत्तागादि ।
श्रीमद्विकमवत्सरेवसुधरांकेन्द्रावभूदुद्धव
स्तातःश्रीवल्लदेवसूरिरमलेवंशोदधीचःप्रभोः ॥
चेषेविश्वातिथोविधोसितदलेसाद्वृट्याढ्यामलो
मेऽनोऽज्ञारसरामनामजगतिश्रीकृष्णनामम् ॥ १ ॥

पुस्तक निऴंनेत्रा ठिकाणा—

खेमराज श्रीकृष्ण ॥ १ ॥
“श्रीविश्वाद्वृट्याम” श्रीकृष्ण ॥ १ ॥

अथ हिंगुलानुपानानि ।

वामावश्यकरस्तथामयहरससंमारितोहिंगुलःक-
न्दर्पत्रिसुगांधिनाशुतनुतेवहिंगुलंसन्मातिम् ॥ ता-
म्बूलेनसखेनिहन्तिकसनंश्वासंसमस्ताज्ज्वरान्दे-
योऽन्येषुविचार्यसद्गुणयुतैरोगेषुवैद्यर्थिया ॥ १०४ ॥

भाषानुवादः—अब हिंगुलके अनुपान वर्णन करते हैं। स्त्रीवशका सकलरोगहारक, हिंगुलभस्म त्रिसुगवि सग देनेसे कामको, अग्निको, वल वुद्धिको बढाता है और तावूल सग देनेसे हे मित्र कास, श्वास और सज्वरोंका नाश करता है इनसे व्यतिरिक्त रोगोपर अपनी वुद्धिसे सदैद्योंनें प्रकर देना चाहिये ॥ १०४ ॥ यह क्षेत्र हमने अनेक वैद्यक ग्रथाशयानुवनाकर लिखा है।

अथाभ्रकानुपानानि ।

शुच्छाभ्रंननुवल्लकद्वयमितंकृष्णामधुभ्यांयुतंमेहंश्वा-
सविषंचकुष्ठमतुलंवातंचपित्तंकफम् ॥ कासक्षीण
क्षनक्षयंग्रहणिकांपाण्डुंभ्रमंकामलांगुल्माद्यंचतथा
नुपानविधिनामृत्युंचजेजीयते ॥ १०५ ॥ अन्य
च ॥ अभ्रकंचनिशात्यकेपिप्पलीमधुनासह ॥
विंशतिंचप्रमेहानांनाशयेन्नात्रसंशयः ॥ १०६ ॥
अभ्रकंहेमसंयुक्तंक्षयरोगावनाशनम् ॥ रौप्यहैमा-
भ्रकंचैवधातुवृद्धिकरंपरम् ॥ १०७ ॥ गोक्षीरशर्क
रायुक्तंपित्तरोगविनाशनम् ॥ शैलजंपिप्पलीचूर्ण-
माक्षिकैस्सर्वमेहहृत् ॥ १०८ ॥ अभयागुडसंयुक्तं
वातरक्तं नियच्छति ॥ स्वर्णयुक्तंक्षयंहन्तिधातुवृ-

द्विकरोतिच ॥ रक्तपित्तनिहन्त्याशुचैलाशकरया
सह ॥ १०९ ॥ अन्यच्च ॥ सितामूतासस्त्वयुतमेहंना
शयेतेधुवम् ॥ वरामधुधृतैश्शाकंवीर्यकृच्छक्षुरोग
हृत् ॥ ११० ॥ एलागोक्षुरभूधात्रीशकरासहितं
तथा ॥ गोदुरधेनयुतंहन्तिमूत्रकृच्छ्रंप्रमेहकम् ॥
॥ १११ ॥ त्रिषुगन्धवराव्योषशकरानागकेसरम् ॥
माक्षिकेणानिहन्त्याशु पाण्डुरोगंक्षयंज्वरम् ११२
अन्यच्च ॥ वल्लंव्योषसमन्वितंघृतयुतंवल्लोन्मितं
सेवितंदिव्याभ्रंक्षयपाण्डुसंग्रहणिकाशूलंचकुष्ठा-
मयम् ॥ सर्वश्वासगदंप्रमेहमरुचिंकासामयंदु-
र्धंरमन्दामिन्जठरव्यथांपरिहरेच्छोषामयाद्विशि-
तम् ॥ ११३ ॥

भापानुवादः—अब अध्यक्षे अनुपान वर्णन करते हैं पीपल और सहतसग
 १ रत्तीसे लेकर ६ रत्ती पर्यन्त शुद्ध अध्यक्षमस्म भक्षण करनेसे प्रमेह, श्वास,
 विष, कुष्ठ, वात, पित्त, कफ, खांसी, क्षीणता, क्षयी, वण, सप्रहणी, पाढ़,
 धम, कामला, और गुल्म, ये रोग दूर होये विशेषतो व्या, पर यदि उक्तानुपान
 विधिसे अध्यक्ष सेवन करनेपाला मनुष्य मृत्युकोभी जीतता है ॥ १०५ ॥ प्रात
 काल पीपल और सहतसग अध्यक्षमस्म सेवनमें २० प्रकारके प्रमेह दूर होये
 ॥ १०६ ॥ सोनेके पत्तों (वर्कों) के सग क्षयीका नाश करताहै—चादी
 रोनाकी भस्मसग अध्यक्षमस्म खानेसे धातुवृद्धि होय ॥ १०७ ॥ गोदुरध और
 हृदीसग पित्तरोगका, शिलाजीत, पीपल, सुवर्णमाक्षिक भस्म इनके सग सब
 १ मेहोका ॥ १०८ ॥ हृड और गुडके सग वातरक्तका—और सोनेके वकोके
 २ ग अध्यक्षमस्म क्षयीका नाश करताहै तथा धातुको बटाताहै तथा इलायची
 ३ और शर्करासग रक्तपित्तका नाश करताहै ॥ १०९ ॥ मिश्री और गुरचसत्त्वके
 ४ तुर्थग अध्यक्षमस्म प्रमेहको दूर करताहै—त्रिफला, सहत और घृतसग वीर्यको

बढ़ाता है और नेत्ररोगको हटाता है ॥ ११० ॥ इलायची, गोखरू, भूआवला, मिथ्री, और गौके दूध सग अधकमस्म मूरुकुन्द्र और प्रमेहका नाश करता है ॥ १११ ॥ त्रिसुगध, तज, पत्रज, इलायची, त्रिफला, त्रिकटु, मिथ्री और नागकेशर इनके चूर्णको सहतमें मिलाकर उसके सग अधकमस्म खावे तो पाडु, क्षयी और डगर ये सब दूर होयें ॥ ११२ ॥ इसीप्रकार वायविडग, सोंठ, मिरच, पीपल, और गौका वी इनके साथ ३ रत्ती अधकमस्म भक्षण करे तो, क्षयी, पाडु, सप्रहणी, शूल, कुष्ट, समस्त श्वास, प्रमेह, अरुची, कास, मदाग्नि, उदरब्यावे और शोपरोग ये सब दूर होयें यह निश्चय जानिये ॥ ११३ ॥

अथ हरितालानुपानानि ।

अनुपानान्यनेकानियथायोगं प्रयोजयेत् ॥ गुडू-
च्यादिकषायेण गदानेतान्यपोहति ॥ ११४ ॥ सो
पद्रवं वातरक्तं कुष्ठान्यष्टादशापिवा ॥ सर्वरक्तवि-
कारेषु देयमाम्रहरिद्रया ॥ ११५ ॥ सुहालाहल
जीराभ्याम पस्मारहरं परम् ॥ समुद्रफलयोगेन ज-
लोदरविनाशनः ॥ ११६ ॥ देवदालीरसैर्युक्तं भगं
दरहरं परम् ॥ फिरं गदोषजं रोगं जातं हन्ति सुदुस्तर-
म् ॥ ११७ ॥ मंजिष्ठादिकषायेण कुष्ठमष्टादशं ज-
येत् ॥ त्रिफलाशर्करायुक्तं पाण्डुरोगं जयत्यसौ ॥
॥ ११८ ॥ शुण्ठीचूर्णयुतं हन्यादामवातं सुदुर्जयम् ॥
सौवर्णभस्मयोगेन रक्तपित्तविकारनुत् ॥ ११९ ॥
तन्दुलीयरसैश्शाकं ज्वरमष्टविधं जयेत् ॥ एवं स-
र्वेषु रोगेषु स्ववुद्धयाकल्पयेऽस्ति पक् ॥ १२० ॥

भाषानुवादः—अब हरितालमस्मके अनुपान वर्णन करते हैं। हरितालम
रोगानुसार यथायोग्य अनुपान सग देना चाहिये। गुडूच्यादि काथ सग हरित

भस्म॥ ११४ ॥ उपद्रव सहित वातरक्तका तथा १ प्रकारके कुष्ठका नाश करता है, अविया हरिद्रासग सब रधिरविकारमे हरितालभस्म देना चाहिये॥ ११९॥ विष और जीरके सग अपस्मार (मृगी) का समुद्रफलसग जलोदर (जिसे लोकमे जलधर) कहते हैं उसका ॥ ११६॥ देवदालीके रससग भगदरका तथा फिरगवातका ॥ ११७॥ मजीष्टादिकाथसग १८ प्रकारके कुष्ठोंका त्रिफला और मिश्री सग पांडुरोगका ॥ ११८॥ सोठके चूर्णसग आमवातका—सुर्वणभस्मसग रक्तपित्तजन्य विकारका ॥ ११९॥ और चौलाईके रससग देनेसे हरितालभस्म १८ प्रकारके व्यरोका नाश करता है इसाप्रकार सबोरोगमे वैद्य अपनी खुदिसे अनुपानोंकी कल्पना करके उनके साथ हरिताल भस्म देवे ॥ १२०॥

अथ मनश्शिलानुपानानि ।

मनश्शिलासुमाक्षिकेणशुक्रमाशुपिच्छिट्टनिहन्ति
वासरांध्यमामयंसखेनसंशयः ॥ कणामरीचचूर्ण
संयुताशिलांवुनांजितात्रिदोषजंज्वरंव्यथाच्चभूत
संनिवेशजाम् ॥ १२१ ॥ दध्यंवुनाहन्तितथा
र्वुदंशिलाऽवासंचभाङ्गीकटुभद्रसंयुता ॥ वासार
सव्योषयुताजयेच्छिला कासंबलासंकनकेनवैवि
पम् ॥ १२२ ॥ मत्कृतिरियम् ॥

भाषानुवादः—अब मन शिला (मनश्शिल) के अनुपान वर्णन करते हैं है मित्र ! शुद्ध मनश्शिलको सहतसग नेत्रमें लगानेसे, नेत्रमें की फूली, तिमिर, (दिनोंधि) और नेत्रका चिपकना ये सब दूर होते हैं तथा छोटीपीपल, और काली मिरचके चूर्ण सग शुद्ध मन शिलाका जलसे नेत्रमें आजनेसे त्रिदांपज (सान्निपात, ज्वर और भूतवाधा दूरहोय ॥ १२१ ॥) दर्हके पानीसग र्वुदरोगका, नारगी और सॉटसग श्वासका, अड्डेसके रस और त्रिकटुसग खासी तथा कफका और सुर्वणसग विषका शुद्धमन शिला नाश करती है शेषपरोगोंपर वैद्य अपनी खुदिसे अनुपान विचारके देवे यह दोनों श्मेक गैने अनेक वैद्यकग्रथोके आश्रयसे बनाये हैं ॥ १२२ ॥

अथ सौरीगनुपानानि ।

नीलाजनंशुंठयभयागुडैःकफंपित्तंनिहन्त्याज्यसि
तायुतंध्रुवम् ॥ वायुंकणाविश्वमरीचमाक्षिकेदेयं
धियान्येषुगदेषुपापिडतैः ॥ १२३ ॥ मत्कृतिरियम् ॥

भाषानुवादः—अब सुरमेंके अनुपान वर्णन करते हैं। शुद्धसुरमा नेत्रोंमें लगा-
नेसे नेत्रोंके अनेकरोगोंको दूर करता है। यह बात तो प्रसिद्धही है पर, सौठ, हड्डी
और गुड़सग कफको धी शकरसग पित्तको छोटीपीपर, सौठ, कालीमिरच,
और सहतसग वादीको शुद्धसुरमा दूर करता है। औपरोगोपर बुद्धिमानोंने अपनी
बुद्धिसे अनुपान विचारकर देना चाहिये। यह ऐकगी मेरा बनायाहुआ है १२३

अथ खर्षणुपानानि ।

तद्भस्ममृतकंतेनसमेनसहयोजयेत् ॥ अष्टुंजा
मितंचूर्णंत्रिफलाकाथसंयुतम् ॥ १२४ ॥ कांतपात्र
स्थितंरात्रौतिलजश्रतिवापकम् ॥ निषेवितंनिहन्त्या
शुमधुमेहमपिध्रुवम् ॥ १२५ ॥ पित्तक्षयंचपाण्डुं
चश्वयथुंगुलममेवच ॥ रक्तगुल्मश्वनारीणांप्रदरं
सोमरोगकम् ॥ १२६ ॥ योनिरोगानशोषांश्वविष
मांश्वज्वरानपि ॥ रजःशूलंचश्वासश्वहिधिमना
श्वविशेतः ॥ १२७ ॥

भाषानुवादः—अब खर्षणभरमेंके अनुपान वर्णन करते हैं खपरियेकी भस्मके
समान कातलोहकी भस्म लेने और इनदोनोंको ८ गुजाप्रमाण त्रिफलके काथ
॥ १२४ ॥ और तिलके तेलमें मिलाकर रात्रिभर कातिलोहके पात्रमें रहने दे
पश्चात् इसका सेवन करे तो मधुप्रसेहभी दूर होय ॥ १२५ ॥ तथा पित्तरोग,

१ जिस लोहके पात्रमें दूध भरके ओटावे उसपात्रसे उफान खाकर दूध बाहर न
निकलनेपावे उसे कातिलोहपात्र जानो ।

क्षयी, कामला, (पांडु) शोध वायगोला, रक्तगुलम, लियोंका प्रदर, सोमरोग ॥ १२६ ॥ सर्व योनिरोग, विषमज्यर, रज.शूल, (मासिक धर्महोनेके समय लियोंकी योनिमेशूल होताहै सो) श्वास और हृचकी इन सब रोगोंको खापरियेका भस्म उक्त अनुपानसे दूर करताहै ॥ १२७ ॥ ऐसा ग्रथातरमें लिखाहै.

अथ हीरकभस्मानुपानानि ।

कुषेखादिरत्वग्व्यथापवनजेसृक्षृंगवेरंमधुदेयंका
सवलासश्वासविकृतौवासोषणात्वक्षणा ॥ पित्ते
दाहसितासमंज्वरगणेछिन्नाजलेतिक्ककेवज्जंभा
रितशुक्तभस्मगदहृद्योजयंभिषग्युक्तिभिः ॥ १२८ ॥

भापानुवादः—अब हीरेकी भस्मके अनुपान वर्णन करतेहैं खैरकी लालके सग कुमुखोगमें अदरखव केसर और मधुमग वातव्याधि तथा वातरक्तरोगमें अडूसा, कार्लीमिरच, दालचीनी और पीपलसग कास, श्वास, और बलास, (कफ) इन रोगोमें विश्रीके सग पित्त और दाहमें गिलोय और चिरायतेके सग समस्तज्वरमात्रमें हीरेके भस्मको देनेसे उक्तरोग नाश होय और इनसे व्यतिरिक्त रोगोमें वैय अपनी बुद्धिसे अनुपान किचारके उसके साथ देवे ऐसा प्रथातरमें लिखाहै ॥ १२८ ॥

अथ वैक्रांतानुपानानि ।

भस्मत्वंसमुपागतोविकृतकोहेम्नामृतेनान्वितोपा
दांशेनकलाज्यवल्लसहितोगुंजोन्मितस्सेवितः ॥
यक्षमाणंज्वरणश्चपांडुगुदजंश्वासश्चकासामयंदु-
ष्टांवैग्रहणीमुरःक्षतमुखान्रोगाजयेद्देहकृत् ॥ १२९ ॥

भापानुवादः—अब वैक्रांतके अनुपान वर्णन करतेहैं १ रत्ती वैक्रांतकी भस्मको उससे चतुर्थांश (चौथाई रत्ती) सुर्जनभस्म, तथा पीपल, कार्लीमिरच

और मक्खनके साथ सेवन करे तो क्षीयी, ज्वर, पांडु, अर्श, श्वास, कास, असाध्य सप्रहणी, उर क्षत (छातीकाधाव) और मुखरोग ये सब दूर होंगे ॥ १२९ ॥

अथ नीलवैक्रातभस्मानुपानानि ।

सूतभस्मार्च्छसंयुक्तंनीलवैक्रातभस्मकम् ॥ मृता-
भ्रसत्त्वमुभयोस्तुलितंपरिभर्दितम् ॥ ३० ॥ क्षौद्रा-
ज्यसंयुतंप्रातर्गुञ्जामात्रंनिषेवितम् ॥ निहन्ति-
सकलात्रोगान्दुर्जयानन्यभेषजैः ॥ त्रिसप्तदिवसै
र्नृणांगंगांभइवपातकम् ॥ ३१ ॥

भाषानुवादः—पारेकी भस्म । भाग नीलवैक्रातभस्म आधा भाग इन दोनोंके तुल्य अभक्तभस्म ॥ ३० ॥ इन सबको मिलाकर खरल करे और उसमेंसे १ रत्नमात्र लेकर सहत और घृतके सग प्रात काल सेवन करे तो समस्त असाध्य रोगभी जो कि अन्य औषधियोंसे दूर नहीं होसके इससे दूर होंगे, यदि उक्त-भस्मका २ १ दिनपर्यन्त सेवन करे तो जैसे गगाजल समस्तपातकोंको नाश कर-देता है तैसेही यह भस्म रोगोंका नाश करदेताहै, ऐसा प्रथातरमे लिखाहै ॥ ३१ ॥

अथ प्रवालभस्मानुपानानि ।

प्रवालभस्ममाक्षिकेणभागधीयुतेनवैनिहन्तिमा
रुतंचकोष्टुगंज्वरंपुरातनम् ॥ जयेत्सुपकवारणीफ
लेनशुक्रसंक्षयंददाति पुष्टिमाशु शर्कराज्यसंयुतं
नृणाम् ॥ ३२ ॥ सितापयोयुतंनिहन्तिपित्तमा
शुदारुणंसखे सुशालिजैर्हिमैश्चमूत्रकृच्छ्रमाभय
म् ॥ चिकित्सकैर्विचार्यदेयमामयेषुवैधियाखिले
श्वनेकतंत्रसम्मतेनमत्कृतिस्त्वयम् ॥ ३३ ॥

भाषानुवादः—अब प्रवालभस्मके अनुपान वर्णन करते हैं छोटी पीपगी और महत्सग वॉश्टगत वायुका तथा जीर्णन्तरका और पझे केलेसग वातुक्षयका

प्रवालभरम नाश करता है, शक्तेरा और धूतसग प्रवालभस्म पुरुषोंको पुष्टा देता है ॥ १३२ ॥ मिश्री और दूधसग पितको और चावलोंके हिमसग है मित्र ! भयकर मूरुच्छुकोंभी प्रवालभस्म दूर करता है, शेषरोगोपर वैद्योंने अपनी बुद्धिसे अनुपान विचारके प्रवालभस्म देना चाहिये, ये टोनों धोक मैने अनेक तत्रोंके सम्मतसे बनाये हैं ॥ १३३ ॥

अथ सामान्यतोऽखिलरसोपरसादीनांकति
पथरोगेष्वनुपानान्याहग्रन्थकर्त्ता कविः
श्रीलोलिवराजानुस्तेनात्र ।

शूलेहिंगुधृतान्वितंमधुयुताकृष्णापुराणज्वरेवाते
साज्यरसोनकःश्वसनकेक्षौद्रान्वितंत्रयूषणम् ॥
शीतिव्याललतादलंसमरिचंमेहेवरासोपलादोषा
णां त्रितयेऽनुपानमुचितं सक्षौद्रमाद्रोदिकम् ॥
॥ १३४ ॥ अन्यच्च-घनपर्षटकंज्वरेयहण्यांमथितं
हेमगरेवमीषु लाजाः ॥ कुटजोऽतिसृतोवृष्टौऽस्त्र
पित्तेगुदकीलेष्वनलःक्रमोकृमिन्नः ॥ १३५ ॥ वै.नी.

भापानुवादः- जब इसके अनन्तर ग्रथकर्त्ता कवि कितनेक रोगोंपर सामान्य प्रकारसे सवरस और उपरस आदिके अनुपान लोलिवराजर्जीके मतानुसार गर्णन करते हैं यद्यपि हम इस पाचवें प्रमोदमे मृत्युजयादि रसोंके तथा सुवर्णादि सतधातु उपवातुओंके और पारदादि रसोपरसोंके पृथक् २ अनुपान गर्णन करनुकर्ह तथापि गाधारणप्रकारसे प्रत्येक भग्मको निम्नलिखित अनुपानोंके राग उन २ रोगोंपर कि जिन २ के नाम दर्गतिंहै वैद्य दे सक्ते हैं, शूलरोगमे धीं और दीगसग, जार्णज्वरमे छोटी पीपल और सहतसग, वातव्याविमे धीं और दहसन सग, धासमे सोठ, मिरच, पीपल, और सहत सग, शीतामगमे काली मिरच और नागरेलके पानसग प्रमेहमें मिश्री और त्रिफला सग और सन्दिपातमे अदरकके रस और सहत सग प्रत्येक रसादिकी भस्म देना

चाहिये ॥ १३४ ॥ ज्वरम् नागरम् या और पित्तपापडं सग सप्रहणीमें छाँछ सग विप्ररोगमें धत्तूरेके पान सग, वमन (उलटी) में धानकी लाही (खींच) के पानी सग, अतिसारमें कुडालकी छाल सग, रक्तपित्तमें अरुपेके रस सग, अर्श (मूलब्याधि) में चित्रक सग, और कृमि रोगमें वायविडग सग, प्रत्येक रसादिभस्म देना चाहिये ॥ १३५ ॥ ऐसा वेदजीवनमें लिखाहे.

अथ विषानुपानानि ।

शिखिकर्किरसोपेतंविषमज्वरजिद्विषम् ॥ विषय-
ष्टथाह्यंरास्तासेव्यमुत्पलकंदकम् ॥ १३६ ॥ तंदु-
लोदकपीतानिरक्तपित्तस्यभेषजम् ॥ रास्ताविडंग
त्रिफलादेवदारुकटुत्रयम् ॥ १३७ ॥ पद्मकंक्षौद्रम-
मृताविषञ्चश्वासकासजित् ॥ सितारसविषक्षीर
प्रवालमधुभिःकृताः ॥ १३८ ॥ वानिंतनिहन्तिगु
टिकामनुजानानंसंशयः ॥ मधुमद्यनिशारेणुसैन्ध-
वैःकुटत्वग्युतम् ॥ च्यवनप्राशनोपेतंविषंक्षपय
ति क्षयम् ॥ १३९ ॥

भापानुवादः—अब विष (वैच्छनाग आदि) के अनुपान वर्णन करते हैं—
शुद्ध नीला तृथा, और शुद्ध, पारेके सग विषका सेवन करनेसे ज्वर दूर होय
मुलहटी, राजा, कमलगद्वा ॥ १३६ ॥ इनके चूर्ण सग चावलोंके पानीसाथ
विष सेवनसे रक्तपित्त दूर होय, राजा, वायविडंग, त्रिफला, देहदारु, त्रिकटु
॥ १३७ ॥ कमलगद्वा सहत, और गिलोय(गुरच) सग विष, सेवनसे श्वास,
कास दूर होय, मिश्री, शुद्धपारा, विष, दूध, मूगोकी भस्म, और सहत इनकी
गोली बनाकर ॥ १३८ ॥ उसे खावे तो मनुष्योंकी वाती (उलटी) दूर होय, सहत,

२ वैच्छनागको सस्तुतमें वत्सनाम कहते हैं विषके कहनेसे विषमात्रका ग्रहण
होताहै पर विशेषत, वैच्छनागकेही अनुपान जानिये ।

मय, हलदी, पित्तपापडा, सेधव, और कूडेकी छाल इनके राय अथवा च्यैवन-
प्राय अवलेह सग विपक्ता सेवन करनसे क्षयी (राजयक्षमा जिसे गुजरातीभी,
कई कहते हैं) दूर होय ॥ १३९ ॥

विजयापिपलीमूलंपिपलीद्वयचित्रकैः ॥ पुष्क
राह्वसठीद्राक्षायवानीक्षारदीप्यकैः ॥ १४० ॥
सितायष्टीद्विवृहत्सैन्धवैःपालिकैःपचेत् ॥ सवि
षार्द्धपलैःप्रस्थंघृताक्तंजीर्णभुक्षपिवेत् ॥ १४१ ॥
दुर्नाममेहगुल्मार्शतिमिरक्रिमिपांडुकाः ॥ गल
ग्रहयहोन्मादकुष्ठानिचनियच्छति ॥ १४२ ॥ मु-
स्तावत्सकपाठामिव्योषप्रतिविषाविषम् ॥ धात-
कीमोचनिर्यासंचृतास्थिग्रहणीहरम् ॥ १४३ ॥
कृच्छ्रमाविषपथ्यामिदंतीद्राक्षाविषावृषाः ॥ शि-
लाजितुविषंशूष्मुदावर्ताश्मरीहरम् ॥ १४४ ॥

भापानुवादः—भाग, पीपलामूल, छोटीपीपल, गजपीपल, चित्रक, पोकर
मूळ, कच्चूर, दाख, अजवायन, जवाखार, अजमोदा ॥ १४० ॥ मिश्री,
मुलहटी, दोनों कटियाली, सेधानोंने, और पालिक (पालका) इन सब
औपधियोंको आवा पल लेवे और आधा पलही विष लेवे, पश्चात् सवका
चूर्ण फरके उसे १ प्रस्थ (५३ तो ले ४ मासे) घृतमें पकावे और उसमेसे
जनुपानयोग्य निष्य सेवन करे जब वह विष पचजावे तब ऊपरसे औरभी
स्मशक्ति अनुसार घृत पानकरे ॥ १४१ ॥ तो असाध्य मेह, गुल्म, तिमिर,
छमि, पाटु, गग्रह, उन्माद, और कुष्ठ सवरंग दूर होयें ॥ १४२ ॥ नागर-
मोथा, कूडेकी छाल, पाटा, चित्रक, त्रिकटु, अतीम, धार्यटेके, फूल, मोचरस,
और आमकी गुठियी इनके सग विष सेवनसे सप्रहणी दूर होय ॥ १४३ ॥
हड़, चित्रक, दर्ता, दाख और अस्पेके सग विष सेवनसे मूत्रकुच्छ-

का तथा शिलाजीत सोंठ, मिरच और पीपल सग विष सेवनसे उदावर्त और पथरीका नाश होय ॥ १४४ ॥

गोमूत्रक्षारसिंधूत्थविषपाणभेदकम् ॥ वज्र
वहारयत्येतदेकतःपीतमश्मरीम् ॥ १४५ ॥ त्रिफ
लासर्जिकाक्षरैर्विषंगुलमप्रभेदनम् ॥ पिघली
पिघलीमूलंविषंशूलहरंपरम् ॥ १४६ ॥ विषद्रवंती
मधुकद्राक्षारास्तासठीकणाः ॥ विषवेष्टामिशि
क्षीरंगुलमझीहानिवर्हणम् ॥ १४७ ॥ झीहोदरझंप-
यसाशताह्वाकृमिजिद्विषम् ॥ वायसीमूलकाथेन
पीतंकुष्ठहरंविषम् ॥ १४८ ॥ पयसाराजवृक्षत्वक्
त्रायंतीवाकुचीबलात् ॥ झीहझंवाकुचायांचविषं
काथेनकुष्ठजित् ॥ १४९ ॥ अवल्गुजैलाकजया
विडक्षारद्वयंविषम् ॥ लेपस्ससैन्धवःपिष्ठोवारि-
णाकुष्ठनाशनः ॥ १५० ॥

भापानुवादः—सेवानोन, और पापाणभेद युक्त गोमूत्र सग विषको पान करे तो जैसे वज्रपर्वतोंको विदीर्ण करदेताहै तैसे विष पत्थरीको विदीर्ण करदेता है ॥ १४९ ॥ त्रिफला और सज्जीखार सग गुलमका, पीपलामूल सग शूलका ॥ १४६ ॥ द्रवती, महुआ, दाख, रास्ता, कचूर, पीपल, वायविडग, सौफ और दूध सग विष गोला ओर तापतिळ्ठीका नाश करताहै ॥ १४७ ॥ केवल दूधके साथ विष पीनेसे झीहोदर (तापतिळ्ठी) और सौफ सग विष सेवनसे कृमियोगका नाशहोय, कजेकी जडेक काय सग विष सेवनसे कुष्ठमी दूरहोय ॥ १४८ ॥ अमलतासकी छाल त्रायती (त्रायमाणा) वावची, खरेठी, इनके चूर्णसहित दूध सग, अथग उक्तोपधियोंसे सिद्धकिये हुए दुग्धसग विषपान करे तो तापतिळ्ठी दूर होय और उक्तोपवियोंके काथमें सुहागे सहित विषपान करेतो

कुषभी दूर होय ॥ १४९ ॥ एल्वा सजीखार और जबाखार सेवानोन इनके सग
विष(सिंगियाविष) मिलाकर पानीसे खरलकर लेप करे तो कुष दूर होय ॥ १५० ॥

एरंडतैलत्रिफलागोमूत्रंचित्रकंविषम् ॥ सर्पिषा
सहितंपीतिंवातातित्वमपोहति ॥ १५१ ॥ स्वरसं
वीजपूरस्यवचाब्राह्मीरसंघृतम् ॥ वंध्यापिवतिस
विषंसुपुत्रैःपरिवार्यते ॥ १५२ ॥ वीरालांगलिकी
दंतीविषपाषाणभेदकैः ॥ प्रयोज्यमूढगर्भाणांप्र
लेपोगर्भमोचनः ॥ १५३ ॥ देवदारुविषंसर्पिंगो
मूत्रंकंटकारिका ॥ वचावाकसखलनंहन्तिवुद्धेश्वप
रिवर्धनम् ॥ १५४ ॥ विषंसर्पिःसिताक्षौद्रंतिमिरा
पहमंजनम् ॥ विषंचैकमजाक्षीरकलिपतंघृतधूपि
तम् ॥ १५५ ॥ विषंधात्रीफलरसैरसकृत्परिवारि
तम् ॥ अंजनंशंखसहितंप्रगाढंतिमिरंजयेत् ॥ १५६
विषमिन्द्रायुधंस्तन्येघृष्टंकाचभिदंजनम् ॥ वीज
पूररसैर्वृष्टंविषंतद्वत्सितान्वितम् ॥ १५७ ॥ विषं
मागधिकादेचनिशेकाचन्नमंजनम् ॥ शुक्रार्मश्च
विषंकृपणायुक्तंगोमूत्रभावितम् ॥ १५८ ॥ भल्ला
तकाम्निशम्पाकविषैर्वासूत्रपेषितैः ॥ लेपोविचर्चि
काददुरसिकाकिटिभापहा ॥ १५९ ॥ स्वर्जिका
क्षारसिंधूत्थशुक्तशुक्तंवरंविषम् ॥ कर्णयोः पूरण
तीव्रकर्णशूलनिवर्हणम् ॥ १६० ॥ प्रपांडरीकमं
जिष्ठाविषंदुसमुद्धवैः ॥ निहन्तिसाधितंतैलंगं

द्रुवेणमुखामयान् ॥ १६१ ॥ शालाखदिरकंकाल
जातीकर्पूरचंदनैः ॥ वोलाब्दवालैद्विगुणविषेस्सा
रांबुषेषितैः ॥ १६२ ॥ समूत्रवटिकावलुसाधृताघ
न्तिमुखामयान् ॥ कदुतैलंविषंनस्यंपलिकारुंषि
कापहम् ॥ १६३ ॥ गुंजाटंकणशिशुमूलरजनी
शम्पाकभल्लातकस्तुह्यकर्मिकरंजसैधववचाकुष्ठा
भयालाङ्गली ॥ वर्षाभूषडभूशिरीषवरणव्योषाश्व
मारोविषंगोमूत्रंशमयेद्विलुप्तमपचीं ग्रंथ्युदेश्ली
पदान् ॥ १६४ ॥ ग्रंथांतरादिदंलिखितमखिलम् ॥

भापानुवादः—एरडतैल, त्रिफला, गोमूत्र, चित्रक, और विषका घृतके साथ पान करे तो वार्दीकी पीड़ाका नाश होय ॥ १९१ ॥ विजोरेका अगरम वच, त्राहीका रस, नवीनघृत, इनमें विषको युक्त करके पान करनेसे वध्याखीभी गर्भवती अवश्य होय ॥ १९२ ॥ सफेद कनेर, कलियारी, दत्ती, वच्छनाग, (विष) और पाषाणमेद इनका लेप करनेमें मूढगर्भकाभी विसोचन (निकलजाना) होय ॥ १९३ ॥ देवदारु, विष (वच्छनाग) कटियाली, और वच इनके सेवनसे जिहाके समस्तरोग (विकार) दूरहो और बुद्धि बढ़े ॥ १९४ ॥ वी, मिश्री, और सहनमें शुद्ध विषको विसकर नेत्रमें लगाये तो तिमिर (दिनोंवी) दूर होय, यदि केवल विषकोही वकरीके द्रव्यमें विसकर नेत्रमें आजे और वीकी वूनी दे तोभी तिमिर रोगका नाश होय ॥ १९५ ॥ तथा शखकी नाभीसहित, विषको आवर्णके रसकी बहुतसी भावना देकर अजन प्रभुत (तयार) करे और उसे नेत्रमें लगाये तो वोर तिमिर रोगकाभी नाश होय ॥ १९६ ॥ हीरा और विषको छीके द्रव्यमें विसकर नेत्रमें लगानेसे, अयमा विजोरेके रसमें मिश्री डालकर उसमें विषको विसकर नेत्रमें लगानेसे ॥ १९७ ॥ तथा छोटीपीपल, दोनों हलदी, और विष इनका अजन बनाकर

१ विषके अनुपानमें जहार विष लिपादै वहार शुद्ध कियाहुआ विष लेना चाहिये।

नेत्रमे लगानेसे नेत्रमे जो काचरोग होता है वह दूरहोय, और छोटी पीपल सग विपको गोमूत्रसे धिसकर नेत्रपे लगानेसे शुद्धार्म नामक नेत्ररोग दूरहोय ॥ १९८ ॥ भिलावे, चित्रक, अमलतासके गूदे सग विपको पीसकर लेग रखनेमे विचर्चिका (व्योचि) दाद, रसिका, और किटिभकुष्ठ ये सब दूर होय ॥ १९९ ॥ सज्जी, संवानोन, शिरका, और बाजी, इनके सग वच्छनाग विपको खल करके कानोमे डाले तो कर्णशूल नाश होय ॥ २०० ॥ कमलपुष्प, मज्जीठ, विष, और कुचला इनसे तेलको बनाकर उसके कुहड़ा करे तो समस्त मुखरोग दूरहोय ॥ २०१ ॥ अथवा शालकी छाल, कत्था, कक्षाल, जायफल, भोमसेनकीपूर, चदन, वोल, नागर मोथा और सुगधगला ये सब ओपधि समान लेवे और उक्त ओपधियोंसे दूना विष लेकर सभीको खेरसारके पानी ॥ २०२ ॥ और गोमूत्रसे खल करके गोलिया बनावे उस गोलीको मुखमें रखवे तो मुखके समस्तरोग दूर होय, कडवे तेलमे विष मिलाकर नासलेवे तो नासिकाके, शालिका और अख्विकादि समस्त रोग दूर होय ॥ २०३ ॥ चिरमी (गुमचीगुजा) सुहागा, सहजने (मुगने) की जड, हलदी, अमलतास, भिलावा, धूहर, आक, चित्रक, कजा, सेंवानोन, वच, कूठ, हड्ड, नलियारी, वर्षाभू (पुनर्नवा—सॉठी) पटभू, शिरसकी छाल, सौंठ, मिरच, पीपल, कनेर और वच्छनाग (विष) इन सबको गोमूत्रमें पीसकर लगानेसे इदलुत (मस्तकके वालोंके न आने मर्यारोग) अपचीरोग, गाठ, अर्द्धुद और श्यापद (हातीपावभी जिसे कहते हैं) इन सब रोगोंका नाश होय ॥ २०४ ॥ ये विपके अनुपानके समस्त छोक हमने ग्रयान्तरसे छिखेहैं, इनमें कहीं पाठ अशुद्ध जान पड़े तो विद्वान् मुझे दोष न देवें, मैंने जैसा पाठ या वैमाही हिखदियोहै ॥

इति श्रीमत्याण्डितज्ञारसरामविरचित भाषानुवादविभूषितेऽनुपानर्दणे
मृत्युजयादिरसवात्पूर्धातुपारदादिरसोपरसाना विषस्य-
चानुपानविषेककथने पञ्चम. प्रमोद ॥ ९ ॥

अथातो योगराजगुणगुलुनारायणचूर्ण-
मृत्युंजयादिरसानां निम्नाणविवेकं
व्याख्यास्यामः १ ।

अथ योगराजगुणगुलुविधिः ।

नागरं पिपलीचव्यं पिपलीमूलचित्रकैः ॥ भ्रष्टं हि
र्वजमोदं च सर्षपाजीरकद्रव्यम् ॥ १ ॥ रेणुकेद्रव्यवाः
पाठाविडं गंगजपिपली ॥ कटुकातिविषाभाङ्गिव-
चामूर्वेति भागतः ॥ २ ॥ प्रत्येकं शाणिकानि स्युद्रे
व्याणीमानिविंशतिः ॥ द्रव्ये भ्यस्सकले भ्यश्वत्रि
फलाद्विगुणाभवेत् ॥ ३ ॥ एभिश्वूर्णीकृतैः सर्वे स्स
मोदेयस्तु गुणगुलुः ॥ वंगं रौप्यं च नागं च लोहसारं त-
थाभ्रकम् ॥ ४ ॥ मंडूरं रससिं दूरं प्रत्येकं पलसंभि
तम् ॥ गुडपाकसमं कृत्वा इमं द्वयाद्यथोचितम् ॥ ५ ॥
एकपिंडं ततः कृत्वा धारयेद्वृत्तभाजने ॥ गुटिकाः
शाणमात्रा स्तु कृत्वा ग्रह्यायथोचिताः ॥ ६ ॥ गुणगु
लुयोगराजो यंत्रिदोषघोरसायनम् ॥ मैथुनाहारपा
नानांत्यागो नैवात्रविवृते ॥ ७ ॥ सर्वान्वातामया
न्कुष्ठानशास्त्रियहणीगदम् ॥ प्रमेहं वातरक्तं च ना
भिशूलं भगं दरम् ॥ ८ ॥ उदावर्तक्षयं गुल्ममपस्मा
रमुरो ग्रहम् ॥ मंडान्निश्वासकासांश्च नाशयेदरुचिं
तथा ॥ ९ ॥ रेतो दोषहरः पुंसां रजो दोषहरः स्त्रि
याम् ॥ पुंसामपत्यजनको वंध्यानां गर्भदस्तथा
॥ १० ॥ अङ्ग० खं० २ अ० ७ ॥

भाषानुवादः—अब इसके आगे योगराजगुगुल, नारायणचूर्ण, और मूल्युं-
जय आदि रसोंको वनानेके विवेकको वर्णन करेगे—प्रथम योगराजगुगुल वना-
नेकी विधि वर्णन करतेहै—१ सोठ, २ छोड़पीपल, ३ चव्य (चव) ४ पीपला
मूल, ५ चित्रक, ६ अग्निपक्ष हीग, ७ अजमोदा, ८ सर्पप (शिरस—सरसों) ९
सपेदजीरा, १० कालाजीरा, ॥ १ ॥ ११ रेणुकवर्जि, १२ इक्षजव,
१३ पाठा, १४ वायविडग, १५ गजपीपल, १६ कुटकी, १७ अर्तीस, १८
भारगी, १९ वच और, २० मूर्वा ॥ २ ॥ यह २० प्रत्येक औषध शास्त्र
शुद्धगुगुद्ध और वाभस्म, रौप्यभस्म, नागभस्म, लोहभस्म, अध्रकभस्म, ॥४॥
मटूर और रससिंटूर वे सात भस्म पल २ प्रमाण लेवे, पश्चात् गुडकी चासनी-
की तुल्य शुद्ध गुगुलकी चासनी वनाकर पूर्वोक्त औपधियोंका चूर्ण और उक्त-
भस्मोंको उस शुद्ध गुगुलकी चासनीमें मिलावे ॥९॥ जब वे सब मिलकर एक
पिंट वनाजावे तब उसकी चार मासेकी गोलिया वनाकर उन्हे घीकी मटकीमें
रखें और उसमेंसे जितनी रोगीको सेवन करना योग्य समझे ग्रहण करे ॥६॥
इसे योगराजगुगुद्ध कहतेहैं, यह त्रिदोषको दूर करनेवाला और रसायन (आयु,
वल, शुद्धि वृद्धिकारक और रोगस्तारक) है, इसके सेवनमें मैथुन (स्त्रीसंग)
तथा किसी पदार्थके खाने पीनेकी मनाई नहीं है ॥ ७ ॥ यह योगराजगुगुद्ध
समस्त वातजन्य रोगोंका, कुण्ठोंका, अशों (मूलव्याधि) मसोंका ग्रहणी (सप्र
हणी) प्रमेह, वातरक्त, नाभिशूल, भग्दर ॥ ८ ॥ उदावर्त, क्षयी, गुल्म,
जपस्मार (मृगी) उरग्रह, मदाग्नि, श्वास, कास, और अरुचि इतने रोगोंका
नाश करताहै ॥ ९ ॥ यह योगराजगुगुद्ध पुरुषोंके वातुविकार त्रियोंके रजो-
धर्मसवधी पिकारोंको हरण करनेवाला तथा पुरुषोंकी धातुवृद्धिद्वारा पुरुषोंको
पुत्र और नव्या त्रियोंकोभी गर्भ देनेवाला है ऐसा शार्ङ्गधरके दूसरे खड़के ७
वे अध्यायमें लिखा है ॥ १० ॥

अथ नारायणचूर्णविधिः ।

चित्रकस्त्रिफलाव्योषंजीरकंहपुषावचा ॥ यवानी
पिष्पलीमूलंशतपुष्पाजगंधिका ॥ ११ ॥ अजमो
दाशठीधान्यंविडंगंस्थूलजीरकम् ॥ हेमाह्नापौष्टक
रंमूलंक्षारौलवणपञ्चकम् ॥ १२ ॥ कुषंचेतिसमां
शानिविशालास्याद्विभागिका ॥ त्रिवृत्रिभागा
विज्ञेयादन्त्याभागत्रयंभवेत् ॥ १३ ॥ चतुर्भागासा
तलास्यात्सर्वाण्येकत्रचूर्णयेत् ॥ पाचनस्त्रेहनाद्यै
श्रस्तिनग्धकोषस्यरोगिणः ॥ १४ ॥ दद्याच्चूर्णविरे
कायसर्वशूलप्रणाशनम् ॥ हृद्रोगेपाण्डुरोगेचका
सेश्वासेभग्नदरे ॥ मंदाग्नौचज्वरे कुषेग्रहण्यांच
गलय्रहे ॥ १५ ॥ शार्ङ्ग० खं० २ अ० ६ ॥

भापानुवादः—अथ नारायणचूर्ण बनानेकी विधि वर्णन करते हैं- १ चित्रक, २
त्रिफल, ३ सोठ, ४ मिरच, ९ पीपल, ६ जीरा, ७ हपुषा (हैज्वरे), ८ वच,
९ अजवान, १० पीपलामूल, ११ बडीशौफ, १२ बनतुलसी, ॥ ११ ॥
१३ अजमोदा, १४ कवूर, १९ वनियाँ, १६ वायपिटग, १७ कलौजी,
१८ चोग्व, १९ पोकरमूल, २० सज्जीखार, २१ जवाखार, २२ पाचों नोन,
॥ १२ ॥ और कू८ यह २७ ओपव वरावर, एकएकभाग तथा इंद्रायन दो-
भाग, निसोत तीनभाग, तथा दत्ती (दात्युणी) भी तीनभाग ॥ १३ ॥ ४
चारभाग पीछे धूरेकी जड अथवा पीला धूरही लेवे, पश्चात् उक्त समस्त
ओपवोंको कुट्टके मर्हीन कपड़छान चूर्ण बनावे और रोगीको प्रथम पाचन

१ इते महाराष्ट्रभागमें देखीभी कहते हैं, यह नदीके समीप होती है प्रसिद्ध है ।

२ पुद्र के प्रकार यह तोताहै पर नारायणचूर्णमें कौडीदार युद्ध जिसकी शाले
काढ़ी लाते ही तिक्कलती है कुछ पीछापनभी रहता है उसे लेना चाहिये ।

अनतर क्लिघ (घृत) पान विधिपूर्वक कराके जब उसका कोठा सचिक्कण हो-
जावे तब यह नारायणचूर्ण रेचन (दस्त) होनेके लिये देवे, इससे सब
प्रकारके शूल हड्डोग, पाढ़, कास, श्वास, भग्दर, मदामी, ज्वर, कुष्ठ, सप्रहणी
और गलग्रह आदि समस्त रोग दूर होते हैं ॥ १९ ॥ ऐसा शार्ङ्गधरके दूसरे
खड़के ६ वें अध्यायमें लिखा है ॥

अथ सृत्युंजयरसनिर्माणविधिः ।

अव्यक्तः सिद्धिदशशुद्धो रोगघः कीर्तिवर्द्धनः ॥

यशःप्रदशिशवःसाक्षान्मृत्युञ्जयरसःस्मृतः ॥ १६ ॥

विषस्यैकंतथाभागं सरिचं पिप्पलीकणा ॥ गन्ध-

कस्यतथाभागं भागं स्याद्वङ्गणस्यच ॥ १७ ॥ सर्वत्र

सभभागं स्याद्वयङ्गुलन्तु द्विभागिकम् ॥ चूर्णये

तखल्वमध्येतु मुहूर्मानां वटीञ्चरेत् ॥ १८ ॥ जंवी-

रस्यरसेनात्र कार्यं हिङ्गुलशोधनम् ॥ रसश्रेत्सभ

भागः स्याद्वयं गुलनेष्यतेतदा ॥ १९ ॥ गोमूत्र

शोधितं चात्र विषं सौरविशोधितम् ॥ मृत्युरूपं ज्व-

रं हन्ति मृत्युञ्जयरसस्मृतः ॥ २० ॥ तीव्रज्वरे

महाघोरे पुरुषेयो वनान्विते ॥ पूर्णमात्राप्रदातव्या

पूर्णवटीचतुष्टयम् ॥ २१ ॥ स्त्रीवालवृद्धक्षीणेषु-

खर्जं मात्राप्रकीर्तिता ॥ अतिवृद्धेचक्षीणेचशिशौ

चाल्पवयस्यपि ॥ २२ ॥ तुर्यमात्राप्रदातव्या-

वयवस्थासारनिश्चिता ॥ नवज्वरे महाघोरे यामैका

नाशयेद्गुरम् ॥ २३ ॥ ऋध्यज्वरे तथा जीर्णो त्रिरा-

त्राज्ञाशयेद्गुरम् ॥ सप्ताहात्सन्निपातोत्थं ज्वरं जी

र्णकसंज्ञकम् ॥ २४ ॥ रसेन्द्रसारसंग्रहेज्वराधि कारेह्युक्तमिदम् ॥

भाषा०—अब मृत्युजयरस वनानेकी विविवरण करते हैं अतुलित प्रभाव युक्त सिद्धिप्रद निर्मल (दोपरहित) रोगनाशक, कीर्तिविकाशक, यश देनेहारा, कल्याणस्वरूप यह मृत्युजय रस है ॥ १६ ॥ इसको इस प्रकारसे वनाना चाहिये— १ भाग विष (वच्छनाग) १ भाग कालीमिरच १ भाग छोटीपीपल १ भाग शुद्ध आवलासार गधक १ भाग शुद्ध सुहागा ॥ १७ ॥ ये सब समान लेवे और हिंगुल २ भाग लेवे पश्चात् सबको नागरवेलीके पानके रसमें अथवा अदरकके रसमें खल करके मूगाके वरावर गोलिया बनावे ॥ १८ ॥ इस मृत्युजय रसमे जो हिंगुल डाले सो जवीरीके रससे शुद्धकरके डाले, यदि सब औरधियोंके समान १ भाग शुद्धपाराही डाले तो फिर हिंगुलको न डाले ॥ १९ ॥ और मिय (वच्छनाग) जो इसमें डाले उसेभी गोमूत्रमें शुद्धकरके धूपमे सुखा कर डालना चाहिये, इसप्रकारसे बनायाहुआ यह रस मृत्युरूप ज्वरका नाश करता है इसीलिये इसको मृत्युजयरस कहते हैं ॥ २० ॥ यदि रोगी तरुण (जवान) अवस्थावाला हो तो उसे अतिवेगयुक्त भयकर उत्तरमेंभी इस मृत्युजयरसकी पूर्ण मात्रा देनी चाहिये, चारगोलीकी पूर्ण (पूरी) मात्रा इस रसकी होती है ॥ २१ ॥ खी, वालक, वृद्ध, और क्षीणरोगीको अर्घमात्रा (२ गोली) तथा अल्पत चूटेको, अल्पत क्षीणको और अति छोटेवालकको ॥ २२ ॥ उक्त रसकी चौथाई मात्रा (१ गोली,) ही देनाचाहिये, क्योंकि मात्राका नियम अवस्थानुसारही निश्चय कियागया है—नवीन महाभयकर ज्वरको १ प्रद्वारमे ॥ २३ ॥ मध्यज्वरको अजीर्णज्वरको पुराणज्वरको, ३ दिनमे, सन्त्रिपातको और जीर्णज्वरको ७ दिनमें यह मृत्युजयरस दूर करता है ॥ २४ ॥ ऐसा रसेन्द्रसारसप्रहके ज्वराधिकारमें लिखा है।

* ज्वर आगमनसे ७ दिनतक तरुण (नवीन) ज्वर ७ दिनसे १४ दिनतक
मध्यज्वर * १ दिनसे २१ दिनतक पुराणज्वर और २१ दिन पश्चात् जीर्णज्वर
कहता है ।

अथ वसन्तकुसुमाकररसनिर्माणविधिः ।

प्रवालरसमौक्तिकांवरमिदंचतुर्भागभावपृथक्पृ
थगथस्मृतेरजतहेमनीद्वयंशके ॥ अथोभुजगरंग
कंत्रिलवकंविमर्याखिलं शुभेहनिविभावयेत्त्रिष्ठ
गिदंधियासर्वशः ॥ २५ ॥ द्रवैर्वृषनिशेक्षुजैः
कमलमालतीपुष्पजैः पयःकदलिकंदजैर्मलयजै
णनाभ्युद्भवैः ॥ वसन्तकुसुमाकररसपतिर्द्विव
ल्लोन्मितस्समस्तगद्वृद्धवेत्किलनिजानुपानैरय
म् ॥ २६ ॥ ग्रथान्तरतः ॥

भाषानुवादः—अब वसन्तकुसुमाकर रस बनानेकी विधि वर्णन करते हैं।
मूगा, चद्रोदय, मोती और अधकभस्म ये प्रत्येक ४ भाग (४ तोले) लेवे रुपेकी
और सोनेकी भस्म २ भाग (दो दोतोला) पृथक् २ लेवे लोहभस्म (सार)
सीसेकी भस्म, और वगभस्म / रागेकी भस्म) ये प्रत्येक तीनभाग (तीन तीन
तोले, लेवे पत्रात् शुभदिन सुमुहूर्तमें वैद्य इन सबको एकत्रकर खल (खलपत्ते)
में डाले और निम्न लिखित रसोकी यवायोग्य अपनी वुद्धिसे विचारके भावन
देवे ॥ २५॥ अटूसा, हलदी, साठेका रस, कमलपुष्प, मालतीपुष्प, गोदुग्ध,
केलाकद, चदन, और कस्तूरी इनमेंसे जिमका रस निकलसके उनके रसकी
और जिनका रस न निकलसके उनकी वैसेही भावना देनेसे सब रसोका राजा
यह वसन्तकुसुमाकर रस बतनाहै इसकी ४ रत्तीकी मात्रा न्यारे २ अनुपानोके
साथ देनेसे समस्त रोगोंका नाश होय ॥ २६ ॥ ऐसा प्रयत्नमें लिखा है

अथ लोकनाथरसनिर्माणविधिः ।

शुद्धोवुभुक्षितस्सूतोभागद्वयमितोभवेत् ॥ तथा
गंधस्यभागौद्वौकुर्यात्कज्जलिकांतयोः ॥ २७ ॥
सूताच्चतुर्गुणेष्वेवकपदेषुविनिःक्षिपेत् ॥ भागैकंटं

कणंदत्त्वागोक्षीरेणविमर्दयेत् ॥ २८ ॥ तथाशंख
 स्यखण्डानांभागानष्टौप्रकल्पयेत् ॥ क्षिपेत्सर्वं
 पुटस्यान्तश्चूर्णलिप्तशरावयोः ॥ २९ ॥ गर्तेहस्तो
 न्मितेधृत्वापचेद्गजपुटेनच ॥ स्वांगशीतिंसमुदधृ
 त्यपिष्ठातत्सर्वमेकतः ॥ ३० ॥ पद्मगुंजासंमितं
 चूर्णमेकोनन्त्रिंशदूषणैः ॥ धृतेनवातजेदद्यान्नवनी
 तेनपित्तजे ॥ ३१ ॥ क्षौद्रेणश्लेष्मजेदद्यादतीसा
 रेक्षयेतथा ॥ अरुचौयहणीरोगेकाद्येमंदानलेत
 था ॥ ३२ ॥ कासेऽवासेषुगुलमेषुलोकनाथोरसो
 हितः ॥ तस्योपरिधृतान्नंचभुंजीतकवलत्रयम् ॥
 ॥ ३३ ॥ मंचेक्षणैकमुक्तानःशयीतानुपधानके ॥ अ
 नमूलमन्नंसधृतंभुंजीतमधुरंदधि ॥ ३४ ॥ प्रायेण
 जांगलंमांसंप्रदेयंधृतपाचितम् ॥ सुदुर्धभक्तंदद्या
 चजानेम्मौसाध्यभोजने ॥ ३५ ॥ सधृतान्मुद्रवटका
 न्दद्यंजनेष्वेवचारयेत् ॥ तिलामलककल्केनस्ता
 पयेत्सर्पिषाथवा ॥ ३६ ॥ अभ्यंजयेत्सर्पिषाचस्ता
 नंकोष्णोदकेनच ॥ कचित्तैलंनगृह्णीयान्नविलवं
 कारवेष्टकम् ॥ ३७ ॥ वार्ताकुंशफरींचिंचांत्यजे
 द्रयायाममैयुनम् ॥ मद्यंसंधानकंहिंगुशुण्ठीमाषा
 न्मसूरकान् ॥ ३८ ॥ कृष्मांडंराजिकांकांपकांजि
 कंचेवर्जयेत् ॥ त्यजेदयुक्तनिद्रांचकांस्यपात्रेच
 भोजनम् ॥ ३९ ॥ ककारादियुतंसर्वत्यजेच्छाक

फलादिकम् ॥ पथ्योऽयंलोकनाथस्तुशुभनक्षत्रवा
सरे ॥४०॥ पूर्णातिथौशुकृपक्षेजातेचंद्रवलेतथा ॥
पूजयित्वालोकनाथं कुमारीं भोजयेत्ततः ॥ ४१ ॥
दानंदद्याद्विघटिकामध्येश्राह्योरसोत्तमः ॥ रसा
त्संजायते तापस्तदाशर्करयायुंतम् ॥४२॥ सत्त्वं
गुह्यच्यागृहीयाद्वंशरोचनयायुतम् ॥ खर्जुरंदाढि
मंद्राक्षामिक्षुखंडानिचारयेत् ॥ ४३ ॥ शार्ङ्ग०
सं० अ० १२ ।

भाषानुवादः—अब लोकनाथरसके वनानेकी विधि वर्णन करते हैं २ भाग
शुद्ध जो दुमुक्षित पारा—और १ भाग शुद्ध गधक इन दोनोंको मिलाकर
मण्ड करे जब इनकी कजली बन जावे तब ॥ ३७ ॥
पार्श्वमें चौगुनी कौडियोंमें वह कजली भरे पश्चात् १ भाग
मुखगा लेकर उसे गोदुगधमें खल करके उन कौडियोंके मुखपर लगावे कि
जिसने उन कौडियोंमें भरी हुई कजली आहर न निकलने पावे ॥ ३८ ॥
पीछे ८ भाग शाखके टुकडे लेके मट्टीके दो सिफारे (शार्हि) जिसको भीतर
चूनेसे पोत (लीप) देवे और इन चूनेसे पोतेहुए दो सिकोरमेंसे एकसिको-
रमें शख्के ८ भाग टुकडोमेसे आधे टुकडे भरकर उनपर वे कजली भरीहुई
कौटिया रखकर उनके ऊपर जो शख्के लीप (आवे) टुकडे रहे सो रखवे
पश्चात् दूसरा मिकोरा ऊपरसे ढाककर इस संपुटके मुखको नष्टमट्टीसे ढढ
वर्पकरके ॥ ३९ ॥ १ हाथ गहरे खड़े (गड़े) मे उस संपुटको रखकर

१ दुमुक्षित पारा उसे कहते हैं जो गधक आदिके जारणसे सुवर्णादि वातुओंके
योग्य होय ।

२ संपुट उसे कहते हैं जो दोना शार्हि (सिकोरे) के मुख मिलाकर वद किया
जाने पर उपुट करनेकी मट्टीके सिकोरोंको प्रथमही पाराणपर युक्तिष्ठे ऐसे विसलेने
पार्दियं रिं जिससे दोनों सिकोरोंकी बोरे ऐसी मिलजावे कि जिसमें सघिमात्र न रहे।

गजेपुटसे पकावे (आचेद्वे) जब पूर्ण गीतल हाँजावे तब उस सपुटमेसे शखके टुकड़ोंकी और कजली भरीहुई कौडियोंकी समस्त भग्न एकत्रकर खलमें महीन पसिलेवे ॥ ३० ॥ इसे-लोकनाथरस कहते हैं इसमेंसे ६ रत्ती मात्र लेकर उसमे २९ काली मीरचीके चूर्णको मिलाकर घीके सग वातरोगमें नवनीत (माखन) के सग पित्तरोगमे ॥ ३१ ॥ और सहत सग कफरोगमें देवे तो उक्त समस्त रोग दूर होय, तथा अतिसार, क्षयी, असूचि, सम्रहणी, कृशता, मदाग्नि ॥ ३२ ॥ कास, श्वास और गुल्म इन रोगोंपरभी यह लोक नाथरस अतिहितप्रद है इसको सेवन करनेवाला निम्नलिखित प्रकारसे आहार विहारका वर्ताव रखेउक्त रसकी पूर्वोक्त मात्रा लेकर उसपर घृतसहित चाव लोंके ३ प्रास (कवल) लेवे ॥ ३३ ॥ पश्चात् मच (खाट) पर तकिया गद्दी (विछीने) विनाही एकक्षणभर सीधा सोवे—खटाईको छोड़कर घृतसहित मिठान और मिठे दहीकोभी खावे ॥ ३४ ॥ मासाहारी (मासखानेगाले मनुष्य) को जागल (हरिणआदि जागलदेशज जीवोंका) घृतपक्कमासभी खानेको देवे और सायकालके भोजनके समय यदि जठराग्नि प्रदीप होये, (अच्छी भूख लगे) तो दूध चावल खानेको देवे ॥ ३५ ॥ और मुख अच्छा होने तथा रुचि बढ़ानेके लिये व्यजनोकी जगह घीमें बनाये (तले) हुए मूगके बडे खावे, तिल और आवलोंको पीसकर उनके कल्प (पीठी) से अथवा घृतसे ॥ ३६ ॥ शरीरको मलकर कुछ (अल्प) गरमपानीसे खान करे और तेलको खानेपिने शरीरके लगानेमें कदापि स्वीकार न करे. वील, करेले ॥ ३७ ॥ कटेलीका फल, मछली, अमली, व्यायाम, (कसरत) ख्रांतिग, (मैयुन) मदिरा, सधौन हाँग सोंठ, उड्ड, मसूर, ॥ ३८ ॥ कोहला, राई, काजी, अयोग्यनीद, कासेके पात्रमें भोजन ॥ ३९ ॥ जिनके नामके आदिमें कफारहो ऐसे शाक और फल इन सबको त्यागन कर (छोड़दे

१-३० अगुल (सबादाथ) का एक शक्तु बनाके उसीके प्रमाण लग चैद्य गदरा गड्टा खोदके उसमें ५०० गोवरी (आलनेकडा) भरके उन कडोंपर सपुत्र रखके ऊपरसे पुन. ५०० पूर्वोक्त गोवरी भरके आच देवे इसे गजपुट रहते हैं ।

२ सबान, यह भी एक मदिरा (मय, दाव, शराम, वराडी) का ही भेद है.

लोकनाथरसका पव्य वर्णन कियाहे, प्रथमारम्भ दिन शुभ नक्षत्र शुक्ल-
॥ ४० ॥ पचमी, दशमी, पूर्णिमियि, शुक्रवार, और चतुर्वद्वातुक
तम मुहूर्तमें लोकनाथ (परमेश्वर और उत्तरस, का पूजन करन् जगत्
जन कराके ॥ ४१ ॥ और स्वशत्यनुसार दोबड़ी पर्यन्त अन्, त्रितीय
स्तक, छठ, भूमि, गो आदिका दान देकर, इस लोकनाथरसका प्रणाली
वाहिये, यदि इसके ग्रहण करनेपर कुछ उग्रता (ताप, हो तो, निर्धा-
रुच (गिलोय) सत्त्व और वशलोचन इनको मिठाके प्रणाली
खर्जूर, अनार, दाख, और इक्षु [साठे] के टुकडे इन्हेमेंसे किसीको भी
करे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ऐसा शार्ङ्गधरके दूसरेखड़के २२ वे भायायमें उल्लिख-
तय स्वर्णमालिनीवसन्तरसनिर्माणविधि ।

स्वर्णमुक्तादरदमरिचंभागद्वद्वयागृहीतं वर्ष
र्यपौयथमभिलंमर्दयेन्मृत्क्षयेण ॥ यावत्स्नेहो
व्रजतिविलयंमर्दनेदीयतेऽसौ । गुजाद्वंमधुमग
धयामालिनीप्राप्वसंतः ॥ ४५ ॥ ग्रं० त० ।

* भापानुवादः—अब स्वर्णमालिनीप्रस्तररसके बनानेकी पियि ग्रीन गर्नें,
१ मासा सुर्वर्णपत्र (सोनेकेरक), २ मासे अन्तर्वाये मोती ३ मासे सिंगारफ (गाये
कालीमिरच ८ मासे शुद्ध खपरिया इन सबको १ प्रहर पर्यंत मक्खनसे खरलकर
(खलपत्तेमें घोटे) पद्धात् महीन छिलकेगाले (कागजी) निवूके रससे जवत-
क मक्खनकी चिकनाई दूर न हो तत्तक घोटे, चिकनाई दूर होनेपर इसकी
ठिकिया बनालेये इसे स्वर्णमालिनीवस्तररस कहतेहैं इस रसको पीपल और
सहन सग २ रक्तीमात्र देवे तो सर्व रोग दूर होंगे ॥ ४९ ॥

अथ वृहन्मालिनीवसन्तरसनिर्माणविधिः ।

वैक्रातमध्रंरविताप्यरौप्यंगंधःप्रवालंरसभस्मलो
हम् ॥ सटंकण्ठंशुकभस्मसर्वसमस्तमेतच्चवरी

गजेपुठमे पकावे (जानेवे) जब पूर्ण शीतल होजावे तत्र उस सपुठमे अखरके टुकडेकी और कजली भरीहुई कौडियोकी समस्ता भस्म एकत्रकर खलमें महीन परिस्लेवे ॥ ३० ॥ इसे लोकनाथरस कहते हैं इसमेंसे ३ रत्ती मात्र लेकर उसमे २९ काली मीरचीके चूर्णको मिलाकर घीके सग नातरोगमे नवनीत (माखन) के सग पित्तरोगमे ॥ ३१ ॥ और सहत सग कफ्तरोगमे देवे तो उक्त समस्त रोग दूर होय, तथा अतिसार, क्षया, अरुचि, सगहणी, छुशता, मदाग्नि ॥ ३२ ॥ कास, श्वास और गुल्म इन रोगोंपरभी यह लोक नाथरस अतिहितप्रद है इसको सेवन करनेवाला निम्नलिखित प्रकारमे आहार पिहारका वर्ताव रखे उक्त रसकी पूर्वोक्त मात्रा लेकर उसपर घृतसहित चाव दोके ३ ग्रास (झटक) लेवे ॥ ३३ ॥ पश्चात् मच (खाट) पर तकिया गद्दी (बिढीने) विनाही एकक्षणभर सीधा सोवे—खटाईको छोड़कर घृतसहित मिश्रक्षण और मीठे दहीकोभी खावे ॥ ३४ ॥ मासाहारी (मासखानेवाले मनुष्य) को जागल (हरिणआदि जागलदेशज जीवोका) घृतपक्षमासभी रानेको दें और सायफालके भोजनके समय यदि जठराग्नि प्रदीप्त होऐ, जाठो भूता लगे) तो दूध चावल खानेको देवे ॥ ३५ ॥ और मुग अच्छा होने तथा ननि बटानेके लिये व्यजनोकी जगह घीमें बनागे (तले) ३६ मुगके बड़े तामे, तिड़ और आपलोंको पीसकर उनके कटप (पीठी) से नक्का उनने ॥ ३७ ॥ शरीरको मलकर कुछ (अतप) गरमपानीसे द्वान दे जौर तेढ़को द्वानेपाने शरीरके लगानेम कदापि स्वीकार न करे. वीठ, कंडे ॥ ३८ ॥ कटडीका फल, मछली, अमली, व्यायाम, (कसरत) वृत्तग, (नेमुन) मरिया, सर्वान हींग सोठ, उड्द, ममूर, ॥ ३९ ॥ नंदा, रुड़, राजो, अनोख्यनाद, कासेके पात्रमें भोजन ॥ ४० ॥ जिनके नन्दे जादिमे रक्षारदो ऐसे जान और फल इन सवकों त्यागन कर (ठोड़, ४१-४२)

१-३१ गलुड (लगादाय) ना एक शहु गनाक उसीक प्रमाण तथा चौथा

४२ राजदा चेदके उपरे ५०- गोवरी (ब्रालनेहरु) भरके उन कठीपर ५३

५५के उपरे उन ५०- तुम्हन गोवरी भरके जान देवे इसे गग्युड रहतहै ।

५८ दर्जन, परना एक नदिया (नद, दान, शराम, गरुड़ी) का दीनेर है ।

ह लोकनाथरसका पव्य वर्णन कियाहै, प्रथमारभके दिन शुभ नदीमें शुभ-
॥१॥ ४० ॥ पचमी, दशमी, पूर्णोत्तिथि, चूष्णित, और चतुर्दशी-
उत्तम मुहूर्तमें लोकनाथ (परमेश्वर और उत्तरस) का पूजन करके जन्मानं-
मोजन कराके ॥ ४१ ॥ और स्वगतयनुसार दोपटी पर्यन्त अन्न जड रख
पुस्तक, छत्र, भूमि, गो आदिका दान देकर, इस लोकनाथरसको रहग रखन
चाहिये, पदि इसके प्रहण करनेपर कुछ उण्णता (ताप, हो तो, मिथ्या ॥ ४२ ॥)
गुरुच (गिलोय) सत्त्व और वशलोचन इनको मिठाके प्रहण जैर अन्दर
खर्जू, अनार, दाख, और इन्हु [साठे] के टुकडे इन्हेमेंसे किसीकामी नदीग
करे ॥ ४३॥ ४४॥ ऐसा शार्ङ्गधरके दूसरेखडके १२ वें अध्यायमें लिखाये हैं

अथ स्वर्णमालिनीवसन्तरसनिर्माणविधि ।

स्वर्णमुक्तादरदमरिचंभागवृद्धयागृहीतं गर्वप
र्यष्टौप्रथममखिलंमर्दयेन्मृत्क्षयेण ॥ यावत्सनेहो
व्रजतिविलयंमर्दनेदीयतेऽसौ । गुंजाद्वंद्वंमधुमग
धयामालिनीप्राग्वसंतः ॥ ४५ ॥ अं० त० ।

* भाषानुवादः--अब स्वर्णमालिनीवसतरसके बनानेकी गिरि वर्णन करते--
१ मासा सुर्वर्णपत्र (सोनेकेवर्क) २ मासे अनेकवीं मोती ३ मासे भिगरफ ४ मासे
कालीमिरच ८ मासे शुद्ध खपरिया इन सबको १ प्रहर पर्यंत मक्खनसे खरनकरे
(खलपत्तेमें घोटे) पश्चात् महीन छिलकेवाले (कागजी) निवूके रससे जवत-
क मक्खनकी चिकनाई दूर न हो तवतक घोटे, चिकनाई दूर होनेपर इसकी
टिकिया बनाये इसे स्वर्णमालिनीवसतरस कहतेहैं इस रसको पीपल और
सहत सग २ रत्तीमात्र देवे तो सर्व रोग दूर होयें ॥ ४६ ॥

अथ वृहन्मालिनीवसन्तरसनिर्माणविधिः ।

वैकातमध्रंरविताप्यरौप्यंगंधःप्रवालंरसभस्मलो
हम् ॥ सटंकण्ठंशुकभस्मसर्वसमस्तमेतच्चवरी

रजन्योः ॥ ४६ ॥ इवैर्विमर्द्यभुनिसंख्ययाचकस्त्
रिकाशीतकरेणपथात् ॥ तदावृहत्पूर्वकमालिनी
प्राग्वसंतनामारसदोरसोयम् ॥ ४७ ॥ अं० त० ।

भाषानुवादः - अब वृहन्मालिनीविसत रसके बनानेकी विधि लिखते हैं, वेकात (रुनविशेष) की भस्म, अधकभस्म, ताम्रभस्म, चादीभस्म, शुद्ध-गम्भ, मण्डभस्म, चढोदय, लोहभस्म, सुहागा, शङ्खभस्म ये सब वरामर एक गड़ करे पथात् शतानरीके रसकी ओर हल्दीके रसकी ॥ ४६ ॥ सात ३ मारना दे तदनन्तर कस्तूरी और कपूरका यथायोग्य भावनादेकर अनुमानसे छिकिया वापत्तेव इसे वृहन्माली नीवसतरस कहते हैं यहरस-रस (हर्ष) ऐनामृग और समस्त रोगोंको दूर करनेवाला है ऐसा प्रथातरमें लिखा है ॥ ४७ ॥

अथ पाशुपतरसनिर्माणविविः ।

शुद्धंसूतंद्विधागंधंत्रिभागंतीक्षणभस्मकम् ॥ त्रि
भिस्समंविधेयंचित्रककाथभावितम् ॥ ४८ ॥ धूर्त्तं
वीजस्यभस्मापिद्वात्रिंशङ्गसंयुतम् ॥ कटुत्रयं
त्रिभागंस्याहृत्वेत्ताचतत्समम् ॥ ४९ ॥ जाती
फलंनधाकोषभर्द्धनांगनियोजयेत् ॥ तथाद्वृत्तव्य
पंपश्चस्तुद्योकरपडतिन्तिडी ॥ ५० ॥ अपामार्गा
न्वयन्त्रंचद्वारंदद्वाद्विचक्षणः ॥ हरीतकीयवक्षारं
नन्त्रिकहिंगुजीरकम् ॥ ५१ ॥ टंकणंचमूततु
लाजन्त्रयोगनभवेयत् ॥ भोजनांते प्रयोक्तव्यो
रुजाहृत्वप्रसाधनः ॥ ५२ ॥ रसःगाशुपतोनाम
सवःप्रस्त्रदक्तामः ॥ दीपनःपाचनोहृदयस्सद्यो
द्विन्दिपचिकाम् ॥ ५३ ॥ रसेन्द्रसारसंप्रहेअ-
र्गं विदितरिचोक्तमिदम् ॥

नापानुवादः—अब पाशुपतरसके व्रनानेकी विधि वर्णन करतेहे, १
 भाग शुद्ध पारा २ भाग शुद्ध गवक ३ भाग कात्लोहभस्म और इन सबके
 वरावर शुद्ध पिप (वच्छनाग) लेकर चित्रकके क्वाथमें उक्त सबोंको खरल करे
 ॥ ४८ ॥ पश्चात् ३२ भाग धतूरेके वीजोंकी भस्म ३ भाग त्रिकटु (सोठ, मिरच,
 पीपल) ३ भाग तीनही भाग लोग ३ भाग इलायची ॥ ४९ ॥ आवा भाग
 जायफल और आधा भाग जायपत्री अर्थात् दोनों मिलकर ३ (तीन) भाग तथा
 पाचों नोन, वृहर, आक, एरड इमली ॥ ५० ॥ ऊगा (चिरचिरा, अधाशाडा
 अपामार्ग) और पीपल इन सबका खार, हड्ड, जवाखार, सज्जी, हौंग, जीरा
 ॥ ५१ ॥ और सुहागा ये प्रत्येक शुद्ध पारेके वरावर (एकएक भाग) लेके और
 इन सबको महीन पीस पूयोंके चित्रकके क्वाथमें खरल किये हुए रसोंमें मिलाकर
 निवृक रससे पुन खल करे जब सब घुटकर एक जीव होजावे तब इसे
 चीनी या काँचके पात्रमें रखें इसमेसे १ रक्ती भोजनके पश्चात् खिलावे तो
 ॥ ५२ ॥ यह पाशुपतरस तत्क्षणही अपने गुणको दिखाता है, यह दीपन,
 पाचन, हृदयको बलप्रद और विषूचिका (महामारी, हेंजकी वीमारी) का
 शीत्रही नाश करनेवाला है ॥ ५३ ॥ ऐसा रसेंड्रसारसग्रहके ज्वराविकारमें
 लिखा है

अथ पर्फटीरसनिर्माणविधिः ।

रसंत्रिगुणं धेनमर्दयित्वासञ्जगकम् ॥ लोहपात्रे
 वृताभ्यक्तेद्रावितं वदराम्निना ॥ ५४ ॥ ऊर्ध्वाधो
 गोमयं दत्त्वाकदल्याः कोमलेदले ॥ स्त्रिग्धेपत्रेह्य
 योदर्व्यापर्टाकारतानयेत् ॥ ५५ ॥ पादेलोहे
 विनिः क्षितेलोहपर्फटिकाभवेत् ॥ ताम्रेपादेविनिः
 क्षितेताम्रपर्फटिकाभवेत् ॥ ५६ ॥ विषपादं च यु
 जीतत्वसाध्येष्वामयेषु च ॥ सुरसायाजयन्त्या
 श्वकन्यकादकरूपयोः ॥ ५७ ॥ त्रिफलायामुने

भर्ज्ञर्थमुंड्यात्रिकदुसंज्ञयोः ॥ भुंगराजस्यवहे
श्वप्रत्यहंद्रवभावितम् ॥ ५८ ॥ आर्द्रकस्यद्रवेणाथ
सप्तधाभावयेत्पुनः ॥ अंगारेस्वेदयेदीष्टपर्पटीरस
सुत्तमम् ॥ ५९ ॥ गुंजाष्टकंददीतास्यतास्वूली
पत्रसंयुतम् ॥ पिपलीरसकैश्चापिनिर्गुञ्ड्याह्यनु
पाययेत् ॥ ६० ॥ त्रिकंटकस्यमूलानिशुंठींछित्त्वा
विनिःक्षिपेत् ॥ अजाक्षीरेसनीराज्यावत्क्षीरंवि
पाचयेत् ॥ ६१ ॥ तत्क्षीरंपाययेद्रात्रौसकणंभोज
येदपि ॥ कूष्मांडंवर्जयेच्चिचावृताकंकर्कटीमपि
॥ ६२ ॥ आरनालंचतैलंचमैथुनंचविवर्जयेत् ॥
मासत्रयंतुसेवेतकासश्वासापनुत्तये ॥ ६३ ॥

भाषानुगादः— भव पर्पटीरसके बनानेकी विधि वर्णन करते हैं—१ तोले
उड़ पाग और १२ तोले शुद्धग एक लेन्टर इन दोनोंको खल करे, जब कजली
दोनों ता। उम भगरेके समें पोटे, फिर वीसे चुपडेहुए लोहपात्रों भगरेके
स्थें उमीदे कालीका आलहर बेरीको लकड़ीकी आच देके पिलाये ॥ ५४ ॥
२ इननामि ५४ गोवर गोवर विठ्ठकर उस गोवरपर उत्तम चिकना केलका
है ॥ ५५ ॥ उस केलके पतेपर पिलाये हुई कजलीको आल देने और उसके
झर दून देना जला स्फकर उसी पुनः गोवर आलकर ऐसे प्रकारम
देने ही रिंग उम पिलाये हुई काली पातीके समान बन जावे ॥ ५६ ॥
३ एक बोले चैता नाम अंदहनस्म मिलानेमें, लोहर्णी, और ताघमाम
एवं बोले नाम ददीरी रुद्दानी है ॥ ५७ ॥ पश्चात् इस पर्पटीम तखतुयाद
४ एक बोले नाम, मिलान, लुक्मी, अरनी (अग्रिमध नामाय
एवं नाम) ॥ ५८ ॥ विहङ्ग, अग्नि, नारगो, गोगममुदा,
५ एवं नाम ॥ ५९ ॥ इनके दोनों रसों की तथा फौयको एकत्र भागी

देवे ॥ ९८ ॥ फिर अदरकके रसकी ७ भावना देकर अगारपर कुछ स्वेदन करके रखवे, यह असाध्य रोगोंपरभी उत्तम पर्फटी रस है ॥ ९९ ॥ इस रसकी १ मासे भरकी मात्रा पानमें अथवा १० पिपलीके चूर्ण सग देवे और ऊपरसे निर्गुडीके रसको ॥ ६० ॥ अथवा गोखरुकी जड और सोंठको वकरीके दूधमें डालकर उससे आधा पानी मिलाकर औटावे जब दूधमात्र शेष रह जावे तब छानकर ॥ ६१ ॥ पीपलीयुक्त इस दूधको रात्रिके समय पिलावे और उत्तम प्रकारका भोजन करावे तो वह पुरुष रोगरहित दिव्यदेह होय. इस रसको सेवन करनेवालेने कूणाट (कोहला) इगली वैगन, ककडी ॥ ६२ ॥ काजी, तेल और मैथुन (व्हीसग व्यवाय) इनको त्यागन (छोड) ही देवे. इस पर्फटीरसका यदि ३ मास पर्यंत सेवन करे तो समस्त कास और श्वासभी दूर होयें ॥ ६३ ॥ ऐसा प्रथातरमें लिखा है ।

अथ जयावटीनिर्माणविधिः ।

विषंत्रिकटुकंमुस्तंहरिद्रानिर्मवपत्रकम् ॥ विंग
मष्टमंचूर्णछागमूत्रैस्समंसमम् ॥ चणकाभा
वटीकार्यास्याजयायोगवाहिका ॥ ६४ ॥
रसेंद्र० सं० ज्वराधि० ॥

भापानुवादः—अब जयावटीके वनानेको विधि वर्णन करते हैं. शुद्ध विष (सिंगया) त्रिकटु (सोंठ, मिरच, पीपल) नागरमोथा, हल्दी, नींवके पत्ते और वायविटग ये आदों समान लेकर इनका महीन चूर्ण बनावे फिर, उनको वकरीके मूत्रमें खल करके चनेके बरावर वटी (गोलिया) बनावे इसे जयावटी भहते हैं, यह पृथक् २ अनुपानोंसे अनेक रोगोंको दूर करती है ॥ ६४ ॥ ऐसा रसेंद्रसारसप्रहमे ज्वराधिकारमें लिखा है ॥

अथ जयंतीवटीनिर्माणविधिः ।

विषंपाटाश्वगंधाचवचातालीशपत्रकम् ॥ मरीचं
पिपलीनिर्मवसजामूत्रैणतुल्यकम् ॥ वटिकापूर्वव

त्कार्याजयन्तीयोगवाहिका ॥ ६५ ॥ रसे०
संग्रह० ज्व० अ० ॥

भाषानुवादः—अब जयतीवटीके बनानेकी विधि वर्णन करते हैं। शुद्ध पिं पाथ, असगव, वच, तालीशपत्र, कालीमिरच, छोटीपीपल, और निव इन आठों औषधोंको समान लेकर इनका कपड़छान चूर्ण बनाने और उस चूर्णको बहरोंसे मूत्रमें खल करके चनेके समान वटिया बनाने इसे जयतीवटी कहते हैं। यहमो पृथक् अनुगानोंसे अनेक रोगोंको दूर करतो हैं उक्त दोनों नटीमें समान ही वोगन और इन दोनोंके समानही अनुपान होनेसे उक्त दोनों वटी योगवाही (सामग्री रखेगारी), इसीलिये इनको जगाजयन्ती वटी ऐसा एकसाथमी बहसके हैं ॥ २५ ॥ ऐसा रसेद्रसारसप्रहमे ज्वराविकारमें लिखा है ॥

तिल तमने जो इस छठमे तरगमे गुगुलुचूर्ण, रस और नटी र्णन कीहै यहूँ इन्द्र (अनुगान ५० (४ ये तथा ९ ने तरगमे) ही देखुके हैं गिसे पाठ न पश्चात् नामा पि गारमें

दी श्रीम गिरिजागमसामाजिनिते भाषानुवाद-
गिरिजानदर्पणे यागरात्मगुगुलुचूर्णा-
या तगम उत्तापादिसमनिर्गाणविवेक-
माने पथ प्रमोद ॥ १ ॥

- १ अग्नोधानवानुमोग्नात्मनोग्नात्मनोपरत्नोपरत्नविषोपनि
यागांगोक्तमाग्निविवेकं व्याघ्रगाम्यामः ॥ १ ॥
- २ तवादौ गतः—स्वर्गलायं च नामं च रक्तं यशद्मेवत् ॥
नीमेन्द्रो हृचमतनेधात्रोग्निसंभवाः ॥ २ ॥
- ३ उत्तरात्मः सतोष्यात्मवः व्यर्गमादिकं तारमादिकम् ॥
तु च च तद्यज्ञानिश्च निश्चयादित्राजतः ॥ ३ ॥

- ३ रसः-रसायनार्थिभिलौकैःपारदोरस्यतेयतः ॥
ततोरसइतिप्रोक्तस्सच्चातुरपिस्मृतः ॥ ४ ॥
- ४ उपरसाः-गन्धोहिङ्गुलमध्रतालकशिलास्त्रोतोऽज्ञ
नंटङ्गणम् ॥ राजावर्तकचुम्बकौस्फटिकयाशं
खःखटीगैरिकष् ॥ कासीसिंरसकङ्गपद्मसिक
तावोलश्चकंकुष्टकम् ॥ सौराष्ट्रीचमताअमीउ
परसास्सूतस्यकिंचिद्गुणैः ॥ ५ ॥
- ५ रत्नानि-वज्रंगास्तसकंपुष्परागोमाणिक्यमेवच ॥
इन्द्रनीलश्चगोमेदस्तथावैदूर्यमित्यपि ॥
मौक्तिकंविदुमश्चेतिरत्नान्युक्तानिवैनव ॥ ६ ॥
- ६ उपरत्तानि-उपरत्नानिकाचश्चकर्पूरादभातथैवच ॥
मुक्ताशुक्तिस्तथाशङ्गइत्यादीनिवहून्यपि ॥ ७ ॥
- ७ विपाः-विषंतुगरलःक्षेडस्तस्यभेदानुदाहरे ॥
वत्सनाभःसहारिद्रःसकुकश्चप्रदीपनः ॥ ८ ॥
सौराष्ट्रिकःशृङ्गकश्चकालकूटस्तथैवच ॥
हालाहलोव्रह्मपुत्रोविषभेदाअमीनव ॥ ९ ॥
- ८ उपविषाः-अर्कक्षीरसनुहीक्षीरंतथैवकरिहारिका ॥
कर्विरकोऽथधन्तूरः पञ्चोपविषाः स्मृताः ॥ १० ॥
भा० प्र० पू० ख० १ भा० ॥

भाषानुवादः—अब इसके आगे धातु, उपधातु, रस, उपरस, रत्न, उपरत्न,
विष और उपविषोंके शोवन और मारण । नमकरने, का विनेक (विचार)
र्णन करेंगे ॥ १ ॥

१ सातधातु—१ सोना २ चादी ३ तात्रा ४ राग (कथील) ५ जस्ता
६ मीमा और ७ लोहा ये पहाड़ोंसे उत्तम होनेवाले सात वातु हैं ॥ २ ॥

२ उपधातु—१ सोनामक्खी २ रूपामक्खी ३ नीलाथोथा ४ कासा ५
पीतिल ६ सिंदूर और ७ शिलार्जात ये सात उपधातुएँ हैं ॥ ३ ॥

३ गम—जरा रोगरहित और बल बुद्धि वृद्धिसहित रहनेकी इच्छापाले
मनुष्योंकरके पारा भक्षण किया जाता है इस कारण अथवा सुवर्णादि सर्व-
वातुओंको भक्षण करजानेवालाहै इस लिये पारेको रस तथा धातुभी कहते हैं ॥ ४ ॥

४ उपग्रस—गवक, टिंगुड़, अभ्रक, हरताल, मनशील, कालामुरमा, सुहा-
गा, गनापतीक (बेटी) चुरक्कागांग, फिटकरी, शाल, खटिया, गेरो, हीरा-
कमी, पारिया, कौड़ी, बाद्र (मिकता) बोल मुरदारसग, और मुलतानी-
के उपग्रस हैं ये पारेके क्षिणित् गुणयुक्त मानेगये हैं ॥ ५ ॥

५ गत्न—होरा, पना, माणिक, पुखराज, नीलमणी (नीलम) गोमद
(५५८८) नैर्य स्याम मणी, मोती और भूगा ये ननरत्नकहातेहैं ॥ ६ ॥

६ उपगत्न—कान, रात्रेर, मोती ही मीप और शाल इत्यादि उपरूप
रही हैं ॥ ७ ॥